



## जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने विजेता टीमों को प्रदान किए पुरस्कार



### बाबा साहेब ने जीने के लिए जल से लेकर, छुआछूत, सामाजिक समानता के लिए जीवन भर संघर्ष किया: चन्दन लाल



**लखीमपुर-खीरी।** बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव रामजी अम्बेडकर के 68 वें परिनिर्वाण दिवस पर दिवस पर आयोजित संविधान समारोह आयोजित के अम्बेडकर पार्क में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि अनूप गुप्ता सदस्य विधान परिषद के साथ चन्दन लाल वाल्मीकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ शोधित सामाजिक संगठनों का अखिल भारतीय परिषद नगर पंचायत की अध्यक्ष प्रतिभा गौतम, बीजेपी के नगर अध्यक्ष जितेंद्र साहनी, वाल्मीकि समाज के अनेक साथियों के साथ मल्यापंग किया गया बाद में चंदन लाल वाल्मीकि के साथ वाल्मीकि समाज की पंखे देवी, विमला देवी, विनोदनी, निर्मला, हरिनाम वाल्मीकि, सचिन वाल्मीकि, विक्की वाल्मीकि, जगदीश वाल्मीकि, राज कुमार गौतम, कमलेश वाल्मीकि, उमेश संतोष, विनोद कुमार, सूरज वाल्मीकि ने मुख्य अतिथि अनूप गुप्ता एमएलसी का पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया समारोह में मुख्य अतिथि अनूप गुप्ता बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के महू में हुआ उनका पूरा जीवन वचितों को सामाजिक न्याय के लिए व्यतीत हुआ शिक्षित बने, संघटन रहे, संघर्ष करो, यह प्रेरणा हर भारतीय के लिए है। चंदन लाल वाल्मीकि ने कहा बाबा साहेब ने जीने के लिए जल से लेकर, छुआछूत, सामाजिक समानता के लिए जीवन भर संघर्ष किया समारोह की अध्यक्षता प्रतिभा गौतम ने की रानू गुप्ता ने इस अवसर पर समस्तता भोज का भी आयोजन किया।

### वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

**लखीमपुर-खीरी।** थाना फरगन पुलिस द्वारा बाद नं० 375/22, अ०म० 415 थारा 354/504/506 भादवि व 3(1)(1) एससी/एसटी अधि० में वारंटी अभियुक्त अनुज कुमार वर्मा उर्फ रवि वर्मा पुत्र भारत प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का चालान न्यायालय भेजा जा रहा है।

### शीरोज हैंगआउट कैफे ने पूरे किए 10 साल, छॉव फाउंडेशन द्वारा दूसरा शीरोज फेयर आयोजित

**अवधनामा संवाददाता**

**आगरा।** 8 दिसंबर 2024 छॉव फाउंडेशन की प्रेरणादायक पहल शीरोज हैंगआउट कैफे, जिसने एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है अपनी स्थापना के 10 गौरवशाली वर्षों का जश्न मना रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर फाउंडेशन ने दूसरे शीरोज फेयर का आयोजन किया है।

यह आयोजन 8 दिसंबर 2024, रविवार को आई लव आगरा सेल्फ़ी पॉइंट, फतेहबाद रोड पर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक किया जाएगा। इस फेयर में कला, शिल्प, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लाइव प्रदर्शन, और जागरूकता संवाद जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

**कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां**

- कला और शिल्प**  
स्पेन की संस्था बेकोज बेको के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं को



आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। मेले में इन महिलाओं द्वारा तैयार हस्तशिल्प और घरेलू उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

**2. सांस्कृतिक प्रस्तुतियां**  
जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा लाने के लिए निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे-  
हरमनी म्यूजिक - सुधीर नारायण और गुपु  
कथक गुपु डांस - प्राच्य संगीत कला मंदिर (निर्देशक-राजी शौहीरी)  
ओडिसी नृत्य - सुभाषिण आचार्य संगीत आंगन गुपु डांस (निर्देशक-शैले सारस्वत)  
**3. लाइव कार्यक्रम**  
मेले में लाइव कढ़ाई, बुनाई, मेंदी, और चित्रकला प्रदर्शन होंगे,

**अवधनामा संवाददाता**

लखीमपुर-खीरी। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर में चल रही जनपदीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में खूब दम खम दिखाया। प्रतियोगिताओं में पलिया ब्लाक के चैंपियनशिप जीती। लखीमपुर ब्लाक को उपविजेता का खिताब मिला। बेहजम तीसरे स्थान पर रहा। मुख्य अतिथि डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने विजेता टीमों को शौल्ड प्रदान की, विजेताओं को मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इससे पहले विशेष प्रदर्शन की विजेता टीमों ने मुख्य अतिथि के समुख अपनी प्रस्तुतियां दी। लखीमपुर देहात की बच्चों ने सरस्वती चंदना प्रस्तुत की। स्वागत गीत पीएम सलेमपुर के बच्चों ने प्रस्तुत किया। लखीमपुर रिसोर्स सेंटर के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने प्रेरक गीत पर विशेष प्रस्तुत दी। पीएम श्री विद्यालय संकेत के बच्चों ने देशभक्ति गाने पर सुन्दर प्रस्तुत दी। दो दिनों तक

### अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स चयन प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत

**अवधनामा संवाददाता**

**सहारनपुर।** माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स चयन प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों पुरस्कृत किया गया। डॉ.बी.आर अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स चयन का आईआईएमटी की प्राचार्य डॉ.अंजू वालिया ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन 21 किलोमीटर की हॉफ मैथन में एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर के गौतम तथा आईआईएमटी कॉलेज कोटा के अनिकेत, 10000 मीटर की महिला वर्ग की रस में एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर की अश्विन कश्यप तथा एसवीएम कॉलेज मुजफ्फरनगर की प्रीति, 800 मीटर की पुरुष वर्ग की दौड़ में दून कॉलेज के अश्विन चंदित तथा मोहम्मद अरहर तथा महिला वर्ग



में श्री राम कॉलेज मुजफ्फरनगर की काजल तथा आशु ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके अलावा 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुष वर्ग में श्री राम कॉलेज मुजफ्फरनगर के अश्विन कुमार तथा गोचर महाविद्यालय के विपुल कांबोजे, 200 मीटर रस के पुरुष वर्ग में श्री राम कॉलेज मुजफ्फरनगर के विजय कुमार तथा एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर के आर्यु बालियान, महिला वर्ग में श्री राम कॉलेज मुजफ्फरनगर की आयशा प्रवीण तथा गोचर महाविद्यालय के प्राची त्रिवेदी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

निर्णायक मंडल में भूपेंद्र सिंह व लाल धर्मेन्द्र प्रताप शामिल रहे। प्रतियोगिता के समापन समारोह में जिला क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी अनिमेष

निरख कर सामने आए बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने खेल प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए बच्चों व शिक्षकों को बधाई दी।

समापन समारोह में सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी गिरिजा शंकर पाण्डेय, बीईओ हृदय शंकर, राकेश कुमार, देवेश राय, भगवान राव, अखिलानंद राय, रमन सिंह, शशांक सिंह, नागेंद्र चौधरी, फूलचंद शत्रुघ्न सरोज, आशीष पाण्डेय, ब्रजराज सिंह, नागेंद्र चौधरी, सुभाष चंद के साथ समस्त जिला समन्वयक, जिला व्यायाम शिक्षक विवेक गुप्ता, एसआरजी, एआरपी, समेत समस्त संगठनों के पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित रहे।


**ये नौनिहाल बने व्यक्तिगत चैंपियन**

बालक प्राथमिक में अभिराम लखीमपुर, बालक उच्च प्राथमिक में अनमोल पसगवां, अंश पाल लखीमपुर, बालिका प्राथमिक में अर्दिति पलिया, उच्च प्राथमिक बालिका में रागनी पलिया व्यक्तिगत चैंपियन रही।

## युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनाया गया डा. भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस

**अवधनामा संवाददाता**

**लखीमपुर-खीरी।** युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में डा० भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रो० हेमन्त पाल, चीफ प्राक्टर प्रो० सुभाष चन्द्रा एवं समस्त शिक्षकों ने डा० भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात डा० भीमराव अम्बेडकर का राष्ट्र निर्माण में योगदान विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में विषय प्रवर्तन करते हुए प्रोफेसर सुभाष चन्द्रा ने कहा कि डा० अम्बेडकर का जीवन उन सभी लोगों के लिए प्रेरणापुंज है जो परिस्थितियों की विषमताओं को दोष न देकर जीवन में कुछ करने का संकल्प रखते हैं। डा० भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं भातुत्व की भावना को निम्न से निम्नतम व्यक्ति तक पहुँचाने का महती कार्य किया है। गोष्ठी में प्रो० संजय कुमार ने छात्र-



छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि डा० अम्बेडकर का विचार था कि व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने निजी व वर्गीयहितों को त्याग कर समाजहित में कार्य करें।

संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रो० हेमन्त पाल ने कहा कि डा० अम्बेडकर ने तर्क एवं ज्ञान को विश्लेषित कर आधुनिक समाज की स्थापना का संदेश दिया। अपने जीवनकाल में डा० अम्बेडकर ने

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में समस्याओं पर गहन अध्ययन कर भारतीय समाज व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ किया। डा० अम्बेडकर के चिन्तन का क्षेत्र बहुत व्यापक था। विद्यार्थी अधिक पुस्तकों का अध्ययन करें एवं उनके जीवन से प्रेरणा लें। विचारगोष्ठी का संयोजन एवं सफल संचालन प्रो० सुभाष चन्द्रा ने किया कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणत्तर कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

### पुलिस के हथके चढ़ा भगवान श्रीराम पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोपी

**सहारनपुर।** कोतवाली रामपुर मनिहारन पुलिस ने भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का चालान काटकर जेल भेज दिया।

कोतवाली रामपुर मनिहारन प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि आज उपनिरीक्षक विजय सिंह की तहरीर पर आरोपी मुन्तसिर अंसारी पुत्र नसीर उर्फ निना निवासी ग्राम चुनहेटी गाड़ा थाना रामपुर मनिहारन के खिलाफ भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी कर हिन्दू समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के संबंध में कोतवाली रामपुर मनिहारन में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उन्होंने बताया आज उनके व उपनिरीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर् की सूचना पर चुनहेटी गाड़ा से नामजद आरोपी मुन्तसिर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का चालान काटकर जेल भेज दिया।

### सुसाइड नोट में मृतकों ने लिखा कि आरती ने मेरा सबकुछ बर्बाद कर दिया उसके बाद दोनों की मौत हो गई

**लखीमपुर खीरी।** मैलानी थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव में बुजुर्ग ग्रामीण ने बुधवार रात फंदे लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद उसके दो पुत्रों ने भी जान दे दी शुक्रवार सुबह छोट्टे पुत्र का शव रेल पटरी पर मिला बड़ा पुत्र घर में फंदे से लटका मिला एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें एक महिला सिपाही और उसके परिवार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। एक दिन पहले बुजुर्ग की आत्महत्या के बाद पुलिस ने महिला सिपाही समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था जानकारी के मुताबिक, बंकेगंज पुलिस चौकी क्षेत्र के गेट नंबर 11 पंचायत के गांव बाबूपुर निवासी राम नरेश (60) ने बुधवार रात फंदे लगाकर जान दे दी। राम नरेश के पुत्र सुधीर पुलिस ने गांव निवासी रामदेवी और उसकी महिला सिपाही पुत्री समेत चार लोगों पर मकान खाली करने के लिए दबाव बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इस मामले में थाना मैलानी में रामदेवी, उसकी सिपाही पुत्री आरती निगम, शिवम और शशिबाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी शुक्रवार को रामनरेश के पुत्र सुधीर और मुकेश ने भी आत्महत्या कर ली। सुधीर का शव गांव के समीप रेल पटरी के किनारे पड़ा मिला। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसकी खबर मिलते ही सुधीर के बड़े भाई ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दो दिन में पिता-पुत्रों की मौत से पुलिस महकमे में खलबली मच गई सुधीर का शव सुधीर और मुकेश को रेल पटरी पर मिला। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें लिखा है कि रमेश भैया मुकेश का ख्याल रखना है। हम जा रहे हैं। आरती, शिवम और रामदेवी पर कठोर कार्रवाई कराना। रामदेवी ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। पापा को मार दिया। रामदेवी से 50 हजार रुपये ले लेना। जमीन विवाद में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। रामदेवी और आरती के कहने पर हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। आरती ने मेरा सबकुछ बर्बाद कर दिया।

### पुलिस ने किया घायल सर्पाफ व्यापारी से हुयी चोरी की घटना का खुलासा, चार आरोपी दबोचे

**सहारनपुर।** थाना जनकपुरी पुलिस ने तीन शांति चोरों को दबोचकर दुर्घटना में घायल सर्पाफ व्यापारी से हुयी ज्वैलरी की चोरी की घटना का खुलासा करने में सफलता हासिल कर ली। पुलिस ने दबोचे गये आरोपियों के कब्जे से चोरी की ज्वैलरी बरामद कर तीनों आरोपियों का चालान काटकर जेल भेज दिया।

पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि विगत 3 दिसम्बर को वादी विकास कुमार काम्बोज पुत्र गणेशीलाल निवासी मदनपुरी कालोनी थाना मण्डे की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक द्वारा वादी के भतीजे यश काम्बोज पुत्र संजय काम्बोज हाल निवासी मदनपुरी कालोनी से रियालंस पेट्रोल पम्प के आगे वाहन में टकर मार देने तथा अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भतीजे का आभूषणों से भरा थैला घटना स्थल से लेकर फरार हो जाने के संबंध में थाना जनकपुरी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उन्होंने बताया कि आज थाना जनकपुरी पुलिस ने थाना प्रभारी सुतेन्द्र नागर, उपनिरीक्षक विवेक विधान व श्याम सिंह के नेतृत्व में मुखबिर् की सूचना पर जमालपुर पुलिस को पास से तीनों आरोपियों निशांत तिवारी उर्फ अंशु पुत्र संजय तिवारी निवासी किरायेदार गली न.6 मॉडर्न मार्ग छञ्जोपुर थाना वैलकम दिल्ली, अनुज यादव उर्फ अनु पुत्र अमर सिंह यादव निवासी किरायेदार विकीराज का मकान न.1/25 गली न.04 शिवाजी मार्ग छञ्जोपुर शाहदर थाना वैलकम दिल्ली-32 व सचिन कुमार पुत्र करतार सिंह निवासी मोहल्ल बकाबाद कन्हा व थाना बछाया जूनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दबोचे गये आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया। एसपी सिटी श्री मांगलिक ने बताया कि पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि हम तीनों साथी सड़क दूधली फैक्ट्री परिया मे काम करने आये थे। इस दौरान हम एक पेट्रोल पम्प के पास नाई की दुकान पर खड़े थे। इसी दौरान पेट्रोल पम्प के सामने स्कूटी सवार व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था तथा हमने योजना के तहत स्कूटी सवार व्यक्ति का बैग चोरी कर लिया था।

### जनपद में 05 लाख तीस हजार 421 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की ड्रॉप्स

**अवधनामा संवाददाता**

**सहारनपुर।** जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आगामी 08 दिसम्बर से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान के सफल क्रियान्वयन, रणनीति तैयार करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी मनीष बंसल के सम्बन्धित विभागों को पल्स पोलियो के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 08 दिसम्बर को बूथों पर एवं 09 दिसम्बर से 13 दिसम्बर तक घर-घर जाकर शत-प्रतिशत बच्चों का आच्छादन सुनिश्चित करें। जिले के चिह्नित हाइरिस्क एरिया, ईट भट्टों, निर्माणाधीन कस्ट्रक्शनसाइट के पोलियो टीकाकरण पर विशेष ध्यान दें और पोलियो बूथ पर अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के विशेष प्रयास करें। उन्होंने अधिभावकों से अपील

करते हुए कहा कि अपने 05 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुपक अवश्य पिलाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी बच्चा वैक्सिनेशन से वंचित नहीं रहे इसलिए शत-प्रतिशत टीकाकरण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टहार विभाग एवं पंचायती राज विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों का वैक्सिनेशन हो जाए। मनीष बंसल ने सभी अधिकारियों से दो वर्ष पूर्व हुए अभियान की भांति आगामी अभियान के लिए बेहतर माइक्रो प्लान बनाते हुए और अधिक सतर्क रहकर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हमें जनपद के प्रत्येक बच्चे तक वाहन पर नजर रखें और प्रत्येक बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलवायें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.प्रवीण कुमार ने बताया कि भारत में पोलियो को खत्म किया जा चुका है।

### एडीए ने स्वच्छ भारत अभियान का बना डाला मजाक



**अवधनामा संवाददाता**

**आगरा।** महानगर में स्वच्छ भारत अभियान बना मजाक। एक ओर जहां देश व प्रदेश की सरकार स्वच्छ भारत अभियान पर जोर दे रही है तो वहीं एडीए की महत्वकांशी रिहायशी एडीए हाइट्स ताज गंज फेस 2 का मामला

सामने आया है जहां बेसमेंट को ही कूड़ा घर बना डाला है। वहां रह रहे लोगों का कहना है कि पिछले एक साल से कूड़ा डालने का विरोध चल रहा है परन्तु आज तक सुनवाई नहीं हुई। वहीं एडीए हाइट्स सुधार समिति के अध्यक्ष अजय कांत लवानिया ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि यह

### स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में हुए कार्टर फाइनल के मैच



**बरेली।** बरेली में प्रथम बार खेले जा रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में शुक्रवार को कार्टर फाइनल का मुकाबला हुए। पहले कार्टर फाइनल ल करेली क्रिकेट क्लब बनाम आंवला क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। करेली कार्यक्रम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रन बनाए वहींम ने शानदार कार्य कर की पारी खेली। आंवला ने आखिरी ओवर तक संघर्ष किया। आखिरी गेंद पर चार रन चाहिए थे जिसे रोककर करेली ने चार रन से जीत हासिल की। इसी प्रकार दूसरे कार्टर फाइनल में भरतोल क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बनाए। पुनीत गुर्जर ने शानदार 66 रन बनाए। दीक्षित वारियर की पूरी टीम 124 रन पर सिमट गई। भरतोल क्रिकेट क्लब ने 52 रन से जीत दर्ज की। आयोजन कमेटी के सदस्य कुंजेश आजाद अमरीश यादव और जावेद गद्दी ने बताया कि शनिवार को सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे।

### मृत व्यक्ति को जीवित दिखाकर धोखाधड़ी कर जमीन एग्रीमेंट करने वाले गिरोह के तीन लोग गिरफ्तार



**बरेली।** इज्जतनगर थाना क्षेत्र में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें भू-माफिया ने मृतक व्यक्ति के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों की जमीन हड़पने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक ने मृतक संतोष टंडन के रूप में खुद को पेश कर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनावाए थे।

**मामले का खुलासा**

2003 में संतोष टंडन की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी बेटी प्रियंका टंडन ने 23 नवंबर 2024 को थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्ति ने उनके पिता के नाम पर नकली दस्तावेज तैयार कर जमीन का फर्जी एग्रीमेंट कराया। इसी मामले में एक अन्य शिकायत अर्पित कुमार अग्रवाल ने दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि



नन्हे अहमद, बब्लू कश्यप और ख्वाजुद्दीन समेत 8 लोगों ने साजिश रचते हुए 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की।

**जालसाजी का तरीका**

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने मृत संतोष टंडन के स्थान पर एक व्यक्ति (राजू उर्फ राजदीप) को नकली संतोष टंडन बनाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता बनावाया। इसके बाद इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने जमीन का 1.75 करोड़ रुपये में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया और 50 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में

ले लिए।

**गिरफ्तारी और जांच**

पुलिस ने मामले में बब्लू कश्यप, ख्वाजुद्दीन और राजू उर्फ राजदीप को गिरफ्तार किया है। इन तीनों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्होंने पहले मृतक संतोष टंडन और उनके भाइयों के नाम जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और फिर राजू को संतोष टंडन बनाकर पूरी साजिश को अंजाम दिया।

पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

## भीमराव अंबेडकर महान समाज सुधारक थे : डॉ रामशंकर सिंह

अवधानामा संवाददाता

**फर्रुखाबाद।** दिनांक 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को भारत रत्न डॉ बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के 69 वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध महासंघ के अंतर्गत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ राम शंकर सिंह कठेरिया एवं विशिष्ट अतिथि जॉइंट कमिश्नर पंकज कुमार सिंह एवं प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय चंद्रकांता माथुर ने आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता सहित अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कायमार्गज के पूर्व विधायक अमर सिंह खटीक ने की एवं कार्यक्रम संयोजक वीरेंद्र सिंह कठेरिया रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ राम शंकर सिंह कठेरिया ने कहा महान समाज सुधारक



अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ और विधिवेत्ता भारत रत्न डॉ बी आर अंबेडकर एक संघर्षशील व्यक्तित्व थे। भारत के संविधान का निर्माण करके उन्होंने अति पिछड़े गरीब दलित शोषित और वंचित लोगों को अधिकार देने का काम किया। दलित बौद्ध आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत को समाप्त करने का संकल्प लिया था समावेशी समाज के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले डॉ अंबेडकर सदियों सदियों तक याद किए जाएंगे भारत के प्रथम न्याय मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की प्रथम

सरकार में कार्य किया। उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी उनके इस पर निर्माण दिवस पर उनके विचारों से प्रेरणा लेकर वर्तमान की युवा पीढ़ी को समाज में फैल रही कुरीतियों के खिलाफ खड़ा होना है। तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। कांग्रेस और उनके समर्थन की सरकारों ने बाबा साहेब के विचारों का गला चोटा है। विशिष्ट अतिथि जॉइंट कमिश्नर पंकज कुमार सिंह ने कहा डॉ बी आर अंबेडकर को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अनेकों देश में सम्मान मिलता है।

## अध्यक्ष जिला पंचायत ने दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण एवं उद्यान गोष्ठी का किया शुभारंभ

अवधानामा संवाददाता

**अलीगढ़।** उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन जवाहर पार्क में किया गया। गोष्ठी में विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, सेहतमंद रहने के लिए एी अन्न उपाजाएं और उपयोग में भी लाएं। मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है। शारिरिक एवं मानसिक विकास के लिए अपनी थाली में मोटे अनाज को सम्मिलित करें। अच्छे अन्न के लिए पड़ोसी के दिमाग से नही बल्कि स्वविकेक से काम लेते हुए सन्तुलित मात्रा में उर्वक का प्रयोग करें। विशेषज्ञों ने बताया कि खेतों का तरीका बदलने से किस्मत कैसे बदल सकती है। उपनिदेशक उद्यान डॉ बलजीत सिंह एवं डीएचओ शिवानी तौमर ने जिला पंचायत अध्यक्ष को बुके भेंट कर सम्मानित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा द्वय प्रज्वलित कर किया गया। अध्यक्ष जिला पंचायत विजय सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों की

आय को दोगुनी करने के लिए परंपरागत खेती के साथ ही मत्स्य पालन, पशुपालन एवं औद्योगिक क्षेत्र में योजनाओं का संचालन कर उनको सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने किसान बन्धुओं से आन्धान किया कि वह कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा बताई गई विधियों को अपनाकर उच्च गुणवत्ता वाली उपज पैदा करें ताकि आपको उसका बहू हुआ मूल्य प्राप्त हो सके। उप निदेशक उद्यान डॉ0 बलजीत सिंह ने बताया कि किस प्रकार से उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान परम्परागत खेती के साथ फल, फूल, शाक भाजी उपाकर अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की अनुदानित योजनाएं संचालित हैं, किसान बन्धु इनका लाभ उठाएँ। उन्होंने विभिन्न प्रकार की युनिट स्थापना और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए खाद्य प्रसंस्करण एवं फल संरक्षण की विभिन्न योजनाओं के साथ ही सोलर एनर्जी के बारे में विस्तार से बताया।

## पुण्यतिथि पर याद किए गए संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर

अवधानामा संवाददाता

**मथौली बाजार, कुशीनगर।** संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को जिले भर में राजनैतिक पार्टियां, संस्था, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में श्रद्धांजलि दी गई। इसी क्रम में नगर पंचायत मथौली के वार्ड नंबर एक में बृथ संख्य 176 पर मंडल अध्यक्ष व सभासद प्रतिनिधि अदालत प्रसाद की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि खड्डू के पूर्व चेयरमैन डॉ निलेश मिश्रा व रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड ने अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके पद चिह्नों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर डॉ निलेश मिश्रा ने कहा कि भारतवर्ष के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा कठिन परिश्रम कर संविधान का निर्माण किया। इनके बदीलत भारतवर्ष में रहने वाले सभी जाति वर्ग के लोगों को स्वतंत्र भारत में अपने अधिकारों के साथ जीवन जीने की रूप रेखा तैयार की।



पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत करते विधायक व मंडल अध्यक्ष

बाबा साहेब की बदीलत आज भारतवर्ष में सभी वर्ग के लोगों को जीवन जीने की आजादी मिली है : डॉ निलेश

दलितों, पिछड़ों व वंचितों के मसीह थे अम्बेडकर : अदालत

बाबा साहेब के द्वारा निर्मित संविधान पर ही चलकर आज देश प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पूरे विश्व में अपनी पताका लहराने का काम कर रही है। विधायक रामकोला विनय प्रकाश गौड ने कहा कि बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलकर देश व समाज की सेवा किया जा सकता है। मंडल अध्यक्ष अदालत प्रसाद ने कहा कि बाबा साहेब संविधान निर्माता

के साथ एक समाज सुधारक भी थे। इन्हें गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का मसीह भी कहा जाता है। इनके बताए मार्ग पर चलने का हम सभी लोग संकल्प ले। इस मौके पर पूर्व प्रधान प्रतिनिधि कृष्णार्णव उर्फ बबलू तिवारी, सभासद प्रिंस जायसवाल, प्रिंस मण्डेशिया, लक्ष्मण वर्मा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।

## बाबा साहब का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित : वीरेंद्र चौधरी

अवधानामा संवाददाता

**फर्रुखाबाद, महाराजगंज।** भारत रत्न डॉ भीम राव अंबेडकर महासभा के तत्वाधान में उनके ओओ 68 वें परिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर तिराहे पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि बाबा साहब ने देश को जो संविधान दिया है वह सत्ता संचालन का ऐसा ग्रंथ है जो विश्व में अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाबा साहब को याद तो करते हैं लेकिन उनके लिखित ग्रंथ का अनुकरण नहीं करते।



योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज के राजनैतिक परिस्थितियों में बाबा साहब के विचार प्रासंगिक है। उन्होंने शिक्षा व अधिकारों पर जोर दिया। अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष भीमसेन गौतम ने कहा कि बाबा साहब ने दलित व शोषित वर्ग को भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के नाम से पूर्वांचल का सबसे बड़ी लाइब्रेरी खोलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जायेगी। कार्यक्रम को युवराज कुमार, गंगा पासवान, अरविंद मौर्य, आरएल मौर्य, दिनेश चंद्रा, अमरीश राव, संजय राव, सुरेन प्रसाद, भीम प्रताप, महेंद्र कुमार, लालजी भारती,

गणेश कुमार, कृष्ण कुमार, दयानंद राव व महेंद्र भारती आदि लोगों ने संबोधित किया। इसी क्रम में एक अन्य जगह आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवी व दलित चिंतक राम थ्यारे प्रसाद ने कहा कि संविधान में दवे कुचलों को जो अधिकार प्राप्त है, वह बाबा साहब की देन है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान देश को दिया है, दुनिया में ऐसा संविधान नहीं है। उन्होंने गैर बराबरी को खत्म कर सबको संवैधानिक रूप से बराबर का दर्जा दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन जयप्रकाश लाल, राधेश्याम, दुर्गा कुमार, अशोक चौरसिया, हरि राम गौतम आदि शामिल रहे।

## मनुष्य का मन ही समस्त दुखों का कारण होता है

**गोरखपुर।** मन ही मनुष्य के समस्त दुखों का कारण होता है। दुख और मोक्ष की ओर मन ही ले जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर के बचन मानव समाज के लिए एक वरदान है। उक्त बातें आचार्य विनय कुमार शास्त्री ने कही। वह घघसरा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 11 परशुराम नगर में श्रीमद भागवत व्यास पीठ से श्रद्धालुओं को कथा रसपान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपत्ति काल में निर्यति ने धर्मराज युधिष्ठिर की कठोर परीक्षा ली। परंतु वह अपने धर्म से तनिक भी विचलित नहीं हुए। वल्कि यक्ष के प्रश्नों का दृढ़ता पूर्वक भय मुक्त होकर उत्तर दिया। युधिष्ठिर से पूछे जाने पर कि पांचो भाइयों में नकुल को क्यों जीवित किया जाय भीम और अर्जुन को क्यों नहीं। धर्म राज युधिष्ठिर ने कहा कि हम दो माताओं के पुत्र हैं। धर्म के तराजु पर एक माँ का एक पुत्र जीवित है। दूसरी माता का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। धर्म की तराजु पर मेरे लिए दोनों माताएं समान हैं। उनकी धर्मशालता को देखकर यक्ष ने सभी भाइयों को जीवित कर दिया।

## सपा ने बैजलपुर में मनाया भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस



**गोरखपुर अवधानामा संवाददाता।** सहजनवां ब्लॉक के बैजलपुर गांव में समाजवादी पार्टी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। पूर्व विधायक सहजनवां यशपालसिंह रावत ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण का श्रद्धा सुमन अर्पित किया इनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पूर्व विधायक यशपाल सिंह रावत ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर नाम से लोकप्रिय, भारतीय बहू, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अखूतों (दलितों) से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूँ। बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए और विभेदों को मिटाकर समतामूलक समाज के निर्माण के लिए विभाजनकारी शक्तियों के खिलाफ हम सब एक हैं। इस अवसर पर प्रदेश सचिव मुरारी मौर्य जिला उपाध्यक्ष गिरीश यादव यात्रा प्रकाश कोशल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष मनीष कमांडो दुर्गेश मास्टर हरेंद्र यादव प्रदीप यादव गोपी मेहराज सोन्ू जायसवाल सुनील विश्वकर्मा तान मोहम्मद मजनु उषेंद्र कुमार जेपी यादव जैन यादव धर्मेन्द्र यादव गजेश यादव मुन्ना भारती सरवन कन्नोजिया जोगिंदर भारती राम अजोर चौहान सत्येंद्र मौर्य इंद्रजीत बारी आदि मौजूद रहे।

## भा.कि.यू. प्रधान के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी नजीबाबाद को सौंपा झापन

अवधानामा संवाददाता

**नजीबाबाद।** नजीबाबाद आज भारतीय किसान यूनियन प्रधान के मंडल मीडिया प्रभारी रामोद कुमार ने उपजिलाधिकारी कुंवर बहादुर नजीबाबाद को एक झापन देते हुए बताया कि भागुवाला कोटा वाली नदी से हों रहे खनन में लगे हुए वहां ओवरलॉड चल रहे हैं जिन पर कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। किसानों ने कहा कि नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में कई गांवों में मिट्टी का खनन बड़े पैमाने पर चल रहा है और साधारण परमिशन के नाम पर लोडर व जेसीबी मशीन से दिन - रात कार्य किया जा रहा है लगातार समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हो रही है लेकिन तहसील व जिले के अधिकारी कुंभ करण की नींद सो रहे हैं। सड़कों पर धूल, मिट्टी उड़ रही है जिससे लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। थाना नांगल क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ल



**नजीबाबाद तहसील के ग्राम हिरपुर, मखवास नै फोरे लाइन के किनारे तालाब का किया जा रहा है अवैध ग्राव, खनन नाफिया जेसीबी मशीन व लोडर मशीन से खनन चलकर रात के समय कर रहे हैं। तालाब का अवैध ग्राव फोरे लाइन पर काफी धूल, मिट्टी उड़ रही है जिसके कारण कभी भी हो सकता है कड़ा लटका।**

जोशरीयों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए और बहुत पुराने तालाब का भराव किया जा रहा है जिस पर भारतीय किसान यूनियन प्रधान के

कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी नजीबाबाद को झापन सौंपकर अवगत कराया कार्रवाई न होने पर भारतीय किसान यूनियन धरना देने को बाध्य होंगे। इस दौरान मंडल प्रभारी दलबीर सिंह, जिला सचिव प्रमोद कुमार, जिला मीडिया प्रभारी नरेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष प्रमोद कुमार, नरपाल सिंह, अशोक कुमार, सोमपाल, तिलकराम आदि कई लोग उपस्थित रहे।

## 547 व्यावसायिक वाहन स्वामियों ने जमा किया 158.34 लाख रुपये का बकाया टैक्स

अवधानामा संवाददाता

**अलीगढ़।** लम्बे समय से व्यावसायिक वाहनों का टैक्स बकाया होने पर इस पर लगने वाली पेनाल्टी की रकम अधिक हो गई है, इससे वाहन स्वामी टैक्स जमा करने में कन्नी काट रहे हैं। जिनका कारण को मासिक, छमाही एवं वार्षिक अवधि के माध्यम से टैक्स जमा करना होता है, परन्तु बड़ी संख्या में व्यावसायिक वाहनों के टैक्स जमा न होने से शासन को राजस्व की हानि होने के साथ-साथ वाहन स्वामियों पर भी कई प्रकार का दबाव भी था। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक वाहनों पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ देते हुए अलीगढ़ संभाग में 05 दिसंबर तक 158.34 लाख रुपये की धनराशि जमा की गई है।

आरटीओ दीपक कुमार शाह ने बताया कि ऐसे व्यावसायिक वाहन स्वामी जिनके द्वारा टैक्स जमा न करने पर पेनाल्टी की राशि अधिक हो गई है, उनको पेनाल्टी को प्रदेश सरकार ने

100 प्रतिशत माफ करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि 06 नवंबर से शुरू हुई योजना का व्यावसायिक वाहन स्वामी भरपूर लाभ उठा रहे हैं। अलीगढ़ संभाग में 01 नवंबर 2024 तक 29167 व्यावसायिक वाहनों पर 10253.4 लाख रुपये टैक्स के रूप में बकाया है। प्रदेश सरकार द्वारा लोकलुभावन योजना के अंतर्गत 850 व्यावसायिक वाहन स्वामियों ने छूट का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया जिसके सौंपक्ष 05 दिसंबर तक 547 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 158.34 लाख रुपये की बकाया धनराशि जमा की गई। आरटीओ दीपक शाह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एकमुश्त समाधान योजना का लाभ परिवहन विभाग के माध्यम से 05 फरवरी 2025 तक प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने व्यावसायिक वाहन स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि अपने वाहनों का बकाया टैक्स अदा करने पर जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते हैं।

## सहज जन सेवा केंद्र का निरीक्षण किया



**जालौन अवधानामा संवाददाता।** उपजिलाधिकारी जालौन विनय मौर्य ने बताया है कि किसानों के लिए बहुउपयोगी गोल्डन कार्ड बनाने तथा फॉर्मर रजिस्ट्री में आवेदन का कार्य आरंभ हो गया है। सभी किसान अपने नजदीकी सहज जनसेवा केंद्र (सीएससी केन्द्र), पंचायत सहायक, लेखपाल और कृषि विभाग के कर्मियों की मदद से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस आवेदन हेतु मात्र आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और खतौनी की आवश्यकता है। गोल्डन कार्ड और फॉर्मर रजिस्ट्री की सहायता से किसानों को अब शासन की किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के मिल सकेगा। किसान सम्मान निधि की किश्तों के लिए यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी, जालौन द्वारा छिरिया सलेमपुर स्थित सहज जन सेवा केंद्र का निरीक्षण कर किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया तथा इसके फायदों के बारे में बताया। उपजिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी गांवों में मिशन मोड में कैंप लगा कर कार्य कराया जा रहा है। किसान स्वयं अपनी मोबाइल, जन सेवा केंद्र या पंचायत सहायक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

## मनाया गया बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस



**गोरखपुर अवधानामा संवाददाता।** पाली ब्लॉक के ग्राम सभा जाल्लेपार बस्ती में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का 68 वां महापरिनिर्वाण दिवस शुक्रवार को मनाया गया। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। ब्लॉक प्रमुख शशी प्रताप सिंघने कहा की बाबा साहब का योगदान सदैव याद किया जाएगा। 06 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी, हर साल इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे मनाने का मुख्य कारण बाबा साहब को सम्मान और श्रद्धांजलि देना है। बाबा साहब ने शोषण और पीड़ित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया उनका अभियान किसी वर्ग-विशेष के लिए नहीं था उन्होंने सर्व समाज का सपना देखा था उनके अथक प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेगे। उक्त अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष राम सिंह, मण्डल महामंत्री विजय मिश्रा, विवेक प्रताप, नरेंद्र सिंह, राम लावत, पूर्व पंचायत सदस्य विमला देवी, पूनम, ग्राम पंचायत सदस्य शांति देवी, ज्ञानमती, सहित तमाम कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

## स्वस्थ एवं सम्मानजनक वृद्धावस्था पर संगोष्ठी का आयोजन 8 दिसंबर को

अवधानामा संवाददाता

**लखनऊ।** आस्था जेरियाट्रिक मेडिसिन सेंटर द्वारा सेहत का उत्सव निःशुल्क चिकित्सा शिविर और स्वस्थ एवं सम्मानजनक वृद्धावस्था पर संगोष्ठी का आयोजन 8 दिसंबर 2024 प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक विदिशा पार्क, महानगर में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन आस्था जेरियाट्रिक सेंटर, भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (भावना), स्व. एस.सी. त्रिवेदी स्मारक ट्रस्ट और दक्षिण एशियाई जेरियाट्रिक मेडिसिन, सर्सरी, पेलिएटिव केयर एवं होम्सहाइस जर्नल द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति राजीव सिंह (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) होंगे। आस्था जिरियाट्रिक हॉस्पिटल के सचिव डॉ अमिषेक सुखला ने जानकारी दी आस्था जेरियाट्रिक मेडिसिन सेंटर द्वारा आयोजित सेहत का उत्सव में विभिन्न निःशुल्क डायग्नोस्टिक परीक्षणों की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिनकी



कुल अनुमानित लगत 6000/- प्रति व्यक्ति है। इनमें ईसीजी, हड्डियों की खिचव खिचव जांच, एचबीए 1 सी, यूरोफ्लोमेट्री, थायरॉइड फंक्शन, न्यूरोपैथी, फाइब्रो स्कैन, प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग, लिपिड प्रोफाइल, पल्मोनरी और दिलर फंक्शन टेस्ट, हीमोग्लोबिन, डिमेंशिया एवं मानसिक स्वास्थ्य आकलन आदि शामिल हैं। सभी सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध होंगी। डॉ अमिषेक ने बताया कि रजिस्ट्रेशन को सचिव के लिए एमने एक निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800 1801415 की व्यवस्था की है। प्रतिभागी इस नंबर पर कॉल कर अपनी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

## सरयू तट पर बलिदान की कारसेवकों को हिंदू महासभा ने दी श्रद्धांजलि



अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। अखिल भारत महासभा के तत्वाधान में 6 दिसंबर 1992 में बलिदान हुए कारसेवकों का पुण्य स्मरण करते हुए सरयू तट पर हाथ में जल लेकर उन्हें विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान कर नमन किया गया, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडेय के नेतृत्व में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सरयू तट पर पहुंचकर बलिदान की कारसेवकों को श्रद्धांजलि प्रदान की गई इस अवसर पर हिंदू

महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडेय ने कहा कि बलिदान की कारसेवकों की स्मृति में राम जन्मभूमि परिसर में बलिदान स्थल का निर्माण किया जाना आवश्यक है इसी के साथ-साथ कारसेवकों ने बलिदान हुए कारसेवकों के परिवारों को आर्थिक सहायता, और उन्हें बुनियादी सुविधाएं एवं परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिए जाने पर वर्तमान सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करें, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडेय ने कहा कि देश के 4 हजार मस्जिदों का सर्वे कराया जाना आवश्यक है

## जरगावां में आयोजित कैप में मिले 30 आवेदन



कोठी बाराबंकी। बीस दिन पहले प्रभारी मंत्री सुरेश राही के भ्रमण दौरान पंचायत भवन जरगावां में सरकारी योजनाओं लाभ नहीं मिलने शिकायतें उमड़ पड़ीं। इसके लिए मंत्री ने बीडीओ को गांव में ही कैप लगाने निर्देश दिए थे। उसी मद्देनजर शुक्रवार को पंचायत भवन परिसर पर बीडीओ व प्रशिक्षु एडीएम पूजा गुप्ता, प्रधान रजनी जायसवाल व एडीओ समाज कल्याण सिद्धीर धर्मदेव कुमार के संयुक्त नेतृत्व आयोजित कैप में 30 लाभार्थियों ने आवेदन दिया। जिसमें वृद्धा पेंशन के आठ, दिव्यांग पेंशन दस, निराश्रित महिला पेंशन नौ, परिवारिक सहायता दो, बाल सेवा योजना एक शामिल हैं। बीडीओ ने मंत्री की पहल की सराहना की। इस तरीके से प्रत्येक गांव में कैप लगाने सचिवों को निर्देश दिए हैं। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि अनिल जायसवाल, सचिव दीपक कुमार, बीओई शाखा जिनयन प्रबन्धक, एडीओ एग्रीकल्चर सिद्धीर कृषि राजेंद्र कुमार थे।

## सपाइयों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया



अवधनामा संवाददाता

शाहजहांपुर। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस बिजलीपुरा स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर सपा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन तनवीर खान की अध्यक्षता में मनाया गया इस मौके पर पार्टी के सभी नेताओं व पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने

उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व पर चर्चा की गई इस मौके पर सपा के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की विरासत भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग है और उनके विचार भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे इस मौके पर पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बाबा साहेब डॉ भीमराव

## बाबा साहेब का योगदान सदैव याद किया जाएगा: अरविंद कुमार



अवधनामा संवाददाता

महाराजगंज (मिठौर)। नगर पंचायत चौक में स्थित दिग्विजयनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज चौक बाजार में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। शिक्षक अरविंद कुमार ने कहा कि बाबा साहेब का देश के लिए दिया गया योगदान सदैव इतिहास के पन्नों में अमिट छाप के रूप में अंकित रहेगा। उनके जीवन दृष्टिकोण से सभी को सीख लेनी चाहिए। संविधान निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका बाबा साहेब डॉ. भीमराव

अंबेडकर की रही और वह महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देते थे। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद करते हुए श्रद्धा अर्पित करते हैं। कार्यक्रम का संयोजन लेफ्टिनेंट शेखनाथ एवं संचालन विनोद कुमार विमल द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. हरिन्द्र यादव ने बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन पर सूक्ष्म एवं सारार्थक रूप से प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक कर्मचारी व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। सूचना मीडिया प्रभारी डॉ. राकेश कुमार तिवारी द्वारा दी गई।

अवधनामा संवाददाता

## फैजाबाद बार एसोसिएशन चुनाव में नामांकन के पहले दिन 29 प्रत्याशियों ने मरा पर्चा

### उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी राजेश उपाध्याय ने शंख ध्वनि के साथ किया नामांकन

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। प्रदेश में सबसे चर्चित व अधिवक्ताओं का मजबूत संगठन माने जाने वाले फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या के वार्षिक चुनाव में नामांकन के पहले दिन शुक्रवार को उत्साह भरे माहौल के बीच अध्यक्ष समेत अन्य पदों पर 29 प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया है। इनमें से अध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र नाथ मिश्रा ने तीन सेटों में अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। इस प्रकार पहले दिन कुल 31 नामांकन फॉर्म जमा किए गए। सबसे महत्वपूर्ण व प्रतिष्ठित अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशियों ने राम शंकर यादव, सूर्य नारायण सिंह, वाई वी मिश्र, अरविंद सिंह व सुरेंद्र नाथ मिश्रा ने अपना अपना नामांकन पर्चा चुनाव अधिकारी के सामने दाखिल किया। उपाध्यक्ष पद पर राजेश कुमार

उपाध्याय, चंद्र भान सिंह, अंजनी कुमार त्रिपाठी उर्फ प्रभू व गोपाल कुमार उपाध्याय ने नामांकन किया है। वहीं महामंत्री पद के लिए 6 प्रत्याशियों गिरिश चंद्र तिवारी, अजय श्रीवास्तव, शेष नारायण तिवारी, मनोज कुमार सिंह, राजेश कुमार यादव एवं रवींद्र कुमार वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। कोषाध्यक्ष पद पर अशोक कुमार दूबे, वीरेंद्र कुमार मिश्रा व मो इमरहल सिद्दीकी ने पर्चा दाखिल किया है। संयुक्त मंत्री प्रथम पद के लिए संतोष कुमार वर्मा व भागवत पाण्डेय वहीं संयुक्त मंत्री द्वितीय पद के लिए राजीव तिवारी व अखंड प्रताप यादव ने नामांकन किया है। कार्यकारिणी सदस्य ए पद पर दिलीप कुमार मिश्रा एवं पूर्णमा सिंह तथा कार्यकारिणी बी पद पर श्रीमती ममता सिंह, बद्री प्रसाद यादव व अरविंद कुमार पाण्डेय तथा कार्यकारिणी सी पद पर माधव कृष्ण



पाण्डेय व मो सलीम ने नामांकन किया है। बार एसोसिएशन एल्डर्स कमेटी के सदस्य अरविंद कौल ने बताया कि फैजाबाद बार एसोसिएशन चुनाव के 12 पदों पर पहले दिन शुक्रवार को अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री समेत विभिन्न पदों पर 29 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। अध्यक्ष पद पर सुरेंद्र नाथ मिश्रा ने तीन सेटों में अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया है जिससे शुक्रवार को कुल 31 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया शनिवार व रविवार को भी जारी रहेगी।

### नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन

53 नामांकन फॉर्मों की हुई बिक्री 31 नामांकन फॉर्म हुए जमा चुनाव अधिकारी जेपी तिवारी के अनुसार शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन पर 53 नामांकन फॉर्म प्रत्याशियों द्वारा खरीदा गया है। नामांकन फॉर्मों की बिक्री रविवार तक चलेंगी। शुक्रवार को अध्यक्ष समेत 12 पदों के लिए 31 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। नामांकन फॉर्मों की बिक्री शाम 3 बजे तक की गई है।

## बाबा साहब ने सभी लोगो को शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो का मूल मंत्र दिया: पुनिया



अवधनामा संवाददाता

## अवधनामा संवाददाता



द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में व्यक्त किये जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन तथा संचालन फण्टेल संगठनों के प्रभारी राम हरख रावत ने किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम का शुभारम्भ बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। जिसमें सभी उपस्थित बाबा साहब के अनुयायियों व कांग्रेसजनों ने बाबा साहब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी।

## अवधनामा संवाददाता



बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसी भी समाज को जाग्रत करने के लिये शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो, का मूल मंत्र दिया। बाबा साहब ने दुनिया का सबसे अच्छा और मजबूत संविधान देश को दिया है जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार मिला है उनका जीवन प्रेरणा श्रोत है और हमें उनके आदर्शों पर चलकर समाज को एकजुट करना चाहिए। अगर हम बाबा साहब को मान रहे हैं तो हमें उनके आदर्शों को भी मानना होगा। उक्त उद्गार पूर्व सांसद डा0 पीएल पुनिया ने आज अपने ओबरी आवास पर बाबा साहब भीम राव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी

अवधनामा संवाददाता

## अब सिविल लाइन्स की शाम लजीज व्यंजनों से होगी चटख



अवधनामा संवाददाता

## अवधनामा संवाददाता



अवधनामा संवाददाता

## अवधनामा संवाददाता



अवधनामा संवाददाता

अवधनामा संवाददाता

## उपजिलाधिकारी ने की राजस्व कार्यों की समीक्षा



डुमरियागंज सिद्धार्थनगर अवधानामा संवाददाता। लेखपालों के कार्य बहिष्कार के कारण बहुत से राजस्व कार्य लम्बित हो गए थे दिनांक 05 दिसंबर 2024 को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व लेखपाल संघ के प्रतिनिधि मंडल के मध्य हुई वार्ता के क्रम में लेखपाल संघ द्वारा कार्य बहिष्कार एवम धरना प्रदर्शन स्थगित करते हुए कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके क्रम में राजस्व कार्यों की प्रगति बढ़ाने के लिए उपजिलाधिकारी डुमरियागंज डॉ संजीव दीक्षित ने राजस्व निरीक्षक एवम लेखपालों की एक बैठक ली तथा जनहित से जुड़े कार्यों तथा शासन की प्रार्थनाओं में शामिल योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए समय से पूर्ण करने का निर्देश दिया तथा यह भी निर्देश दिया कि जन शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से मौके पर पहुंच कर शिकायत कर्ता की उपस्थिति में किया जाये। बैठक में नायब तहसीलदार महबूब आलम, समस्त राजस्व निरीक्षक, लेखपाल संघ अध्यक्ष रमेश चन्द्र श्रीवास्तव लेखपाल आनन्द गौतम, आयुष कुमार वैश्य, राजेश प्रताप मणि, देवेश तिवारी, अम्बिकेश सिंह इत्यादि सभी लेखपाल उपस्थित रहे।

## डॉ भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मना



शहरतगढ़ सिद्धार्थनगर अवधानामा संवाददाता। आदर्श नगर पंचायत शहरतगढ़ कार्यालय सभागार एवं वार्ड नं 5 दशरथ नगर में भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस के रूप में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प चढ़ाकर मनाई गई इस दौरान सभासद प्रतिनिधि राजकुमार मोदनवाल, राममिलन भारती, आशीष राव, परमात्मा राव, नागेन्द्र, केलाश, कमलेश गुप्ता, राजेश त्रिपाठी, बीडी कसौधन, कुमाल जायसवाल, दुर्गेश अग्रहरी व सम्मानित नगरवासी एवं नगरपंचायत परिवार मौजूद रहे।

## काव्य संध्या व सम्मान समारोह की चल रही तैयारियां



जलालपुर अम्बेडकरनगर अवधानामा संवाददाता। जय माँ शीतला फाउंडेशन के बैनर तले काव्य संध्या एवं उत्कृष्ट सम्मान समारोह आगामी सात दिसंबर 2024 दिन शनिवार आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि रामलीला मैदान में दोपहर दो बजे से रात्रि आठ बजे तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक एवं भाजपा नगर अध्यक्ष देवेश मिश्र ने बताया कि प्रमुख रूप से सनातन गौरव महंत राजू दास महराज और दयाशंकर मिश्र (दयालु) राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार, भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजबंकर तिवारी समेत कई वरिष्ठ नेताओं, समाजसेवियों की उपस्थिति रहेगी। लोक गायिका प्रियमा यादव की टीम द्वारा काव्य संध्या पर शानदार प्रस्तुति दी जायेगी। इस अवसर पर जय माँ शीतला फाउंडेशन अध्यक्ष अमित गुप्ता, भाजपा नगर महामंत्री विकास निषाद समेत अनेक लोग मौजूद रहे।

## मेडिकल स्टोर संचालक ने पत्रकार को दी धमकी

कन्नौज अवधानामा संवाददाता। हसेरन कन्नौज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसेरन में डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखी गई दवाइयां हसेरन में सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं अक्सर रोगियों को मेडिकल स्टोर पर देखा जाता है इस खबर को अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया खबर छपने से बौखलाये मेडिकल स्टोर संचालक ने पत्रकार को धमकी दे डाली और झूठे बयानियाद आरोप लगाए पत्रकार द्वारा चौकी प्रभारी हसेरन को प्रार्थना पत्र दिया गया है और बाहर की दवाइयां लिखने के संबंध में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी कन्नौज डॉक्टर सुदेश गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा बाहर की दवाइयां बिस्कुल भी नहीं लिखी जाएगी और यदि कोई डॉक्टर लिखेगा तो उसके खिलाफ कठोर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

## विजली के करंट की चपेट में आने से गुलदार की मौत

मंडावर अवधानामा संवाददाता। क्षेत्र के गांव के एक जुगल में विजली के करंट की चपेट में आने से एक गुलदार की मौत हो गई सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर अपने साथ ले गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव खवाजीपुर बहादुरपुर किसान के खेतों पर सिम्बल के पेड़ खड़े हुए हैं, जिनके ऊपर से हाई वोल्टेज विजली की लाइव गुजर रही है, गुलदार किसी पक्षी का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ा और विजली के तारों की चपेट में आ गया जिससे उसकी करंट लगने से मौत हो गई। जब शुक्रवार की सुबह किसान अपने खेतों पर गया तो पेड़ के नीचे गुलदार का शव पड़ा हुआ था। जिसमें उसने इसकी जानकारी वन विभाग को दी वन विभाग की टीम मौके पर गयी और गुलदार के शव को कब्जे में लेकर अपने साथ ले गयी वहीं वन क्षेत्राधिकारी महेश गौतम ने बताया गुलदार के शव की खेत में पड़े होने की सूचना मिली मौके पर गये और गुलदार के शव को लेकर आये जांच की जा रही है।

## बुतूल एकेडमी के तत्वाधान में बीबी फात्मा सअ की शहादत पर मजलिस का आयोजन

## अवधानामा संवाददाता

जलालपुर अम्बेडकरनगर। हजरत मुहम्मद साहब की इकलीती बेटी हजरत फातिमा जहरा सअ की शहादत दिवस के मौके पर नगर समेत तहसील क्षेत्र के शिया बाहुल्य क्षेत्रों में जारी मजलिसों व जुलूसों के क्रम में नगर के जाफराबाद स्थित बड़े इमाम बाड़ा में गुरुवार की रात कदमी अजाए फातिमाय में मौलाना नाजिम अली खैराबादी ने मजलिस को खिताब किया। वहीं शुक्रवार को प्रता: भोर में जाफराबाद स्थित इमाम जैनुल आबेदीन मस्जिद से निकले जुलूस में अकीदतमदों का हजूम उमड़ पड़ा। जुलूस से पूर्व मौलाना जैगम अब्बास ने मजलिस को खिताब करते हुए कहा कि हजरत मुहम्मद साहब अपनी चहेती बेटी हजरत फातिमा जहरा के सम्मान में ताजिम के लिए खड़े हो जाते थे। जुलूस के दौरान मौलाना मौसम रजा, मौलाना रहबर सुलतानी



ने तकरीरों के माध्यम से हजरत फात्मा के मसायब को बयान किया। जाफराबाद स्थित बड़े इमाम बाड़ा में बुतूल एकेडमी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मौलाना नयूर अली खैराबादी, करार तुरबी, मौलाना जावेद नजमी, मौलाना अशफाक हुसैन, मौलाना रमजान अली सावरी, मौलाना रहबर सुलतानी, मौलाना मौसम रजा समेत दर्जनों उत्तमा व शायरों ने हजरत फातिमा जहरा की अजमत को बयान किया। मौलाना सैयद हसनैन बाकरी की मजलिस पर कार्यक्रम का समापन हुआ। संयोजक

## गांव की समस्या गांव में समाधान के तहत सेमरहवा व हलौरा में लगा चौपाल



## अवधानामा संवाददाता

बढ़नी सिद्धार्थनगर। विकास खण्ड बढ़नी क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सेमरहवा में शुक्रवार को गाँव की समस्या गाँव में समाधान करने हेतु ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत में कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीओ पंचायत सहायक विकास अधिकारी राम बिलास ने करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई

गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। चौपाल कार्यक्रम में मुख्य रूप से अटल पेंशन योजना, राशनकार्ड, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना, मनरेगा योजना, किसान सम्मान निधि, व्यक्तिगत शौचालय व युवाओं को रोजगार से जोड़ने आदि विविध योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस दौरान आयुष्मान पर जोर देकर पेरिवार कार्ड बनाये जाने पर जोर देते हुए शासन द्वारा चलाई

जा रही गरीब कल्याण व अन्य लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत चौपाल कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंचायत सचिव अवधेश कुमार यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि इरशाद, रोजगार सेवक महेश यादव, पंचायत सहायक आराध्य पांडेय, कोटेदार चन्द्रिका प्रसाद, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पावती, सफाई कर्मी केशव पांडे, मेट सीला कुमारी सहित मिडई, संतोष आदि तमाम ग्रामीण पंचायत सचिव जगजीत प्रसाद ने

अध्यक्षता करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जहां काफी संख्या में ग्रामीण जुटे रहे। उक्त अवसर पर ग्राम प्रधान दिनेश कुमार, रोजगार सेवक अब्दुससबूर, पंचायत सहायक आराध्य पांडेय, कोटेदार चन्द्रिका प्रसाद, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पावती, सफाई कर्मी केशव पांडे, मेट सीला कुमारी सहित मिडई, संतोष आदि तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे।

## दुकानों से मेला क्षेत्र गुलजार दस को होगा शुभारम्भ

अम्बेडकरनगर। एक माह तक चलने वाले ऐतिहासिक गोविन्द साहब मेला क्षेत्र दुकानों से गुलजार होने लगा है। एक तरफ जहां बच्चों के खेल व मनोरंजन से जुड़े संसाधन यहां पहुंच गए हैं, तो वहीं पशुओं से संबंधित दुकानें भी सज गई हैं। खजला, बर्तन व अन्य सामानों से संबंधित दुकानों का भी मेला क्षेत्र में पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। पूर्वचल के ऐतिहासिक गोविन्द साहब मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। नौ दिसंबर की रात श्रद्धालु मेला क्षेत्र स्थित गोविन्द संवेर में डुकानों के साथ ही मठ मंदिर में पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे। दस दिसंबर को विधिवत मेले का शुभारंभ हो जाएगा। इस बीच मेला क्षेत्र में अलग-अलग तरह की दुकानें लगने दुकानों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। मेला क्षेत्र में खजला व बर्तन की दुकानें लग गई हैं। वहीं अब बिहार से आकर्षक भी यहां पहुंच गया है। मेला क्षेत्र में जानवरों की बड़ी बाजार लगती है। इसे देखते हुए पशुओं से संबंधित सामानों की भी दुकानें सोनपुर से आए व्यापारियों ने लगा दी।

## कांग्रेसियों ने किया बाबा साहब को नमन



बस्ती अवधानामा संवाददाता। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारत को सशक्त संविधान दिया, किन्तु मौजूदा सरकारें संविधान पर हमले कर देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं। जब तक संविधान है तब तक देश में लोकतंत्र है। यह बातें कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 'ज्ञानू' ने कही। वे पार्टी दफतर पर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित गोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे। कांग्रेस नेता ने कहा संविधान में बरीर किसी भेदभाव के सभी को जीवन जीने का समान अधिकार दिया है। हमारा संविधान नागरिकों में कोई भेद नहीं करता। विधिवत में एकता अपने देश की संस्कृति और वैश्विक पहचान है। हमें संविधान का सम्मान करना चाहिये। जिंपंस. अनिल कुमार भारती ने कहा संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र के महत्व को बनाये रखने के लिये हमें संविधान का महत्व बनाये रखना होगा। प्रवक्ता मो. रफीक खान ने कहा देश का संविधान हमें अनुशासन व कानून के दायरे में रहना सिखाता है। बाबा साहब का योगदान देश कभी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने असमानता मिटाकर सभी को समान अधिकार दिया। इस अवसर पर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्पाचन कर उन्हें नमन किया। इसके बाद पार्टी के लोग नगरपालिका परिसर पहुंचे और बाब साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लालजीत पहलवान, गंगा प्रसाद मिश्रा, मो. अशरफ अली, अमित प्रताप सिंह, अशोक श्रीवास्तव, रामबचन भारती, जमील अहमद कादरी, अवधेश सिंह, राजेश कुमार भारती, अतीक़ुल्लाह रिख्ती, वृजेश पांडे, डीएन शास्त्री आदि ने सम्बोधित किया।

## शार्ट सर्किट से हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों की क्षति

## अवधानामा ब्यूरो

कृशीनगर। जटहं बाजार थाना क्षेत्र के भैरोगंज बाजार स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में शुक्रवार की सुबह शार्ट सर्किट से आग लग गई



जिससे लाखों रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार विशुनपुर बुजुर्ग गांव के भैरोगंज बाजार में योगेंद्र बरनवाल का आवासीय घर है जिसके अग्रभाग में करोड़ों रुपयों की लागत वाली मनीष हार्ड वेयर के नाम से दुकान संचालित होती है। गृह स्वामी योगेंद्र बरनवाल की पुत्री की आज ही

के दिन कृशीनगर के किसी मन्दिर में समाई होने हेतु तैयारियों में लग सुबह अभी अपने नित्य कर्मों में मशगूल ही थे कि सुबह करीब चार बजे दुकान की गैलरी में धू धू कर आग की लपटें दिखाई दीं। आग निकलती लपटें देख

घर के लोग सकते में आ गए और पास पड़ोस के लोगों को जरिए मोबाइल कॉल कर सूचना दे अन्वगत कराए। पास पड़ोस के लोगों में सम्मिलित नायक कुशवाहा ने जरार में स्थित विद्युत केंद्र पर तैनात लाइन्मैन अखिलेश को बिजली आपूर्ति बाधित करने की सूचना दे आग को बुझाने जाने के तत्काल में लोगों के साथ सहयोग में जुटे गए। दुकान स्वामी मनीष के अनुसार सोफे का कपड़ा, सिल्क बैगिन, बाल पुट्टी, डिल्लीवरी प्लास्टिक पाइप, बिस्तर, प्लाई, बिजली से सम्बन्धित सामानों सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया।

## मां धरती पर अदृश्य रूप में साक्षात ईश्वर की स्वरूप है : डॉ असीम



तरयासुजान, कृशीनगर अवधानामा संवाददाता। मां धरती पर अदृश्य रूप में साक्षात ईश्वर की स्वरूप है। जिसने भी मां की सेवा नहीं की उसका जीवन व्यर्थ है। कलयुग में असली पूजा मां की सेवा ही है। जिसके जीते जागते उदारण संजय है। जो मां की नैवी पुण्यतिथि पर गरीबों की सेवा का ब्रत लेकर बीते नौ वर्षों से करते चले आ रहे हैं। उक्त बातें ग्राम सभा बसडीला बुजुर्ग में हमेशा श्रीवास्तव के माता मैनावती देवी के तेरहवीं पुण्यतिथि पर मुख्य अतिथि तमकुहीराज के लोकप्रिय विधायक डॉ असीम कुमार राय ने कहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक पंडित नंदकिशोर मिश्रा ने मां शब्द पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मां देवी की स्वरूप है। जिस देवी मां से शक्ति अपने मां के पुण्यतिथि पर हमेशा गरीबों की सेवा करता रहूंगा। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने सैकड़ों जरूरतमंद असहाय लोगों में आयोजक के सहयोग से कम्बल का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद प्रवक्ता नन्दु पांडेय ने किया। कार्यक्रम में गायक अजय गिरी द्वारा मां को समर्पित गीत से भावविभोर कर दिया।

## ह्यूमन सेफ लाइफ फाउण्डेशन की बैठक आत्महत्या के मामलों पर गंभीर चिंतन



## बस्ती अवधानामा संवाददाता।

सामाजिक संस्था ह्यूमन सेफ लाइफ फाउण्डेशन की बैठक जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मालवीय रोड स्थित संपर्क कार्यालय पर हुई। बैठक में नव नियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। अशोक श्रीवास्तव ने कहा अर्थ प्रधान होते समाज में समाजसेवा का दम टूट रहा है। महागाई, बेरोजगारी और तमाम विपरीत हालातों ने व्यक्ति को केवल अपने बारे में सोचने को विवश कर दिया है।

लेकिन इन्ही परिस्थितियों में समाजसेवा की भावना जीवित रखनी होगी। इसके लिये इच्छाशक्ति सबसे

ज्यादा जरूरी है। बैठक में आत्महत्या के तेजी से बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई और इसी माह 22 तारीख को गोष्ठी आयोजित कर समाज को जागरूक करने का कार्यक्रम तय हुआ। संस्थापक रंजीत श्रीवास्तव ने कहा क्लब की ओर से पहले स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होते थे किन्तु इस सत्र में इसका दायरा बढ़ाते हुये अन्य विषय भी जोड़े गये हैं। बैठक को प्रवक्ता राजेश कुमार ओझा, डा. रीता पाण्डेय, डा. अजीत कुमार श्रीवास्तव, डा. वाहिद अली सिद्दीकी ने भी सम्बोधित करते अपने विचार साझा किया। अरुण कुमार, अनिल कुमार श्रीवास्तव, सर्वेश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

## भारत से नेपाल जा रही खाद 42 बोरी यूरिया बरामद, तस्कर गिरफ्तार



## अवधानामा संवाददाता

बढ़नी सिद्धार्थनगर। भारत-नेपाल सीमा चौकी कोटिया में तैनात 43वां वाहिनी एसएसबी ने नेपाल भेजी जा रही 42 बोरी यूरिया खाद बरामद की है। सीमा क्षेत्र में सच ऑपरेशन चलाकर एसएसबी ने अलग-अलग स्थानों से पर यह कार्रवाई की है। वहीं एक चार पहिया वाहन व एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की है। एसएसबी ने बरामद खाद व पकड़े तस्कर समेत वाहन को बढ़नी कस्टम के सुपुर्द कर दिया है। एसएसबी के

जवान सीमाई क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चला रहे थे। इस दौरान सीमा चौकी कोटिया में तैनात एसएसबी के जवानों ने रात के समय नेपाल की ओर जा रहे एक चार पहिया वाहन को तलाशी ली, तो उस पर 35 बोरी यूरिया खाद लदी पायी गयी। वाहन चालक से पूछताछ हुई तो उसके पास वाजिब जवाब व कागजात नहीं पाया गया, जिसके बाद एसएसबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चालक ने पूछताछ में अपना नाम शहजाद निवासी ग्राम कोटिया थाना शहरतगढ़ बताया। उसके पास कोई कागजात मौजूद नहीं था। इसी क्रम में सीमा

चौकी ककरहवा में तैनात एसएसबी जवान भी सच ऑपरेशन चला रहे थे। इस दौरान दो साइकिल पर 07 बोरी यूरिया खाद कर दो युवक नेपाल की ओर ले जाते हुए दिखाई दिये। ककरहवा के जवानों ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वह साइकिल समेत यूरिया की बोरी छोड़कर नेपाल की ओर फरार हो गये। एसएसबी के जवान ने अलग-अलग स्थानों से बरामद किये खाद व वाहन के साथ पकड़े गये तस्कर को बढ़नी कस्टम के सुपुर्द कर दिया है। बढ़नी कस्टम ऑफिस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।

## सुप्रसिद्ध गोविन्द साहब मेले का आठ दिसम्बर को होगा भव्य उद्घाटन

## अवधानामा संवाददाता

अम्बेडकरनगर। जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉ कौस्तुभ, अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी आलापुर, क्षेत्राधिकारी अलापुर आदि सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 8 दिसंबर 2024 को शुभारंभ होने वाले ऐतिहासिक गोविन्द साहब मेला की तैयारियों का जायजा लिया। लगभग एक माह तक चलने वाले गोविंद साहब मेला की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

इस मेले में जनपद के साथ ही आसपास के जनपदों, प्रदेश एवं देश से बड़ी संख्या में मेलाशी एवं श्रद्धालु आते हैं, कुछ प्रमुख तिथियों में यहां श्रद्धालुओं के आने की संख्या कई लाख तक पहुंच जाती है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेले को भव्य एवं दिव्य



रूप से आयोजित किए जाने के दृष्टिगत आज जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ संपूर्ण मेला क्षेत्र का भ्रमण कर तैयारियों का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र में अवशेष साफडूसफाई के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा निरंतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित रखने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी व खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने मेला के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति, प्रकाश

की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विद्युत विभाग को निर्देशित किया। मेला क्षेत्र में एवं उसके समर्पक मार्गों के अवशेष मरम्मत के कार्यों को उद्वृत्त से पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त दुकानों एवं झूलों आदि में सुरक्षा के मानक को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मेला क्षेत्र में पेयजल हेतु प्रयास पानी के टैंकर लगाने, आवश्यकतानुसार मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था समय से करने तथा टॉयलेट आदि की नियमित सफाई

व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। संपूर्ण मेला क्षेत्र में समय समय पर एंटी लार्वा का छिड़काव एवं फॉगिंग करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मेलाधियों के यातायात एवं आवागमन की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने, मेलाधियों के वाहनों की पार्किंग की बेहतर एवं सुगम व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उधे के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए साफडूसफाई अलावा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। संपूर्ण मेले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मेला में किसी भी दशा में किसी भी प्रकार का मिलावटी खाद्य पदार्थ ना बिकने पाए। दुकानदार अपने दुकानों में विद्युत सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षाओं का विशेष ध्यान रखें।

## संदिग्ध परिस्थिति में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव

## अवधानामा संवाददाता

जलालपुर अम्बेडकरनगर। नव दंपति के बीच उपजे विवाद में पत्नी के पिता द्वारा पति समेत अन्य लोगों के विरुद्ध दहेज अधिनियम, मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते ही पति का पेड़ से संदिग्ध परिस्थितियों में शव लटकता हुआ पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के बरौना डडवा गांव निवासी अखिलेश प्रताप सिंह यादव 21 वर्ष का हिंदू रीति रिवाज से आजगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना अंतर्गत गांव सुखीपुर में रमाकांत यादव की पुत्री रेखा से अप्रैल माह 2024 में हुई थी। शادی होने के पश्चात पति और पत्नी के बीच आए दिन बाद विवाद होता रहता था। इसी बीच बीते पांच दिसंबर को महिला के पिता रमाकांत ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि विपक्षी अखिलेश, शैलेष, अवधेश तथा संग्राम यादव मेरी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर आए दिन मारते पीटते हैं तथा तीन दिसंबर को सभी लोग मेरी पुत्री रेखा से जोर दबाव करने लगे कि तुम्हारे पिता हमारे मुताबिक शادی में दहेज नहीं दिए पुत्री ने विरोध किया तो सभी लोग मेरी पुत्री को गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे तथा मेरी पुत्री को घर से बाहर निकाल दिए तथा विषपीण्डण

कहने लगे कि घर में रहना है तो हमारे मुताबिक दहेज लेकर आओ नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। पुलिस ने महिला के पिता की तहरीर पर इन सभी आरोपियों के विरुद्ध दहेज अधिनियम, मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। जिससे आए अहिल आकर महिला के पति अखिलेश प्रताप सिंह यादव ने गांव के बगल में एक आम के पेड़ से लटक कर फांसी लगा लिया जिससे मौत हो गई। शुक्रवार सुबह परिजनो को पता लगा तो परिजन मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दिए। सूचना पर कोतवाल संतोष कुमार सिंह अपने दलबल के साथ पहुंचे और शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया।

## मृतक के परिजनों का आरोप

वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि दोनो के बीच हुए विवाद मे एक सिपाही मामले की जांच करते पहुंचा था जहां मृतक व मां से अशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए बदतमीजी किया जिससे इसने फांसी लगा लिया और इसकी मौत हो गई। कोतवाली पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक श्याम देव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है पीएम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

## मामला परिवारवाद का

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने अपने पुत्र को अपराधिक मामले में जिसमें सजा मिलने वाली थी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर दामा दान दे दिया है। अपने पूरे कार्यकाल में बाइडन पुत्र के कारनामों में इसे लेकर चर्चा में बने रहे हैं। प्रेसिडेन्ट ने अपने विशेषाधिकार का जिस तरह प्रयोग किया है उस पर उगलिया उठना वाजिब यह न्याय प्रक्रिया में दखल देने का मामला है। यह अधिकार विशेष परिस्थितियों के लिये बना है जब लगे व्यक्ति निर्दोश होते हुये सजा पा रहा है, मानवीयता का आधार हो राजनैतिक प्रकृति का हो।

हन्टर दो अपराधिक केस में फंसे हुये हैं। बन्दूक खरीदने के दौरान झूठे इस्तेमाल करने के बारे में गलत जानकारी देना दूसरा केस टेक्स चोरी का था। इसी महीने हन्टर को सजा होनी थी। अब पिता की क्षमादान से बच गये हैं। इस कारनामों से ट्रम्प को नैतिक बल मिलेगा और 2021 में हुये दंगे में अपने समर्थकों माफ़ी देने का ऐलान कर सकते हैं। वैसे ट्रम्प को लीक से हटकर काम करने में मजा आता है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रम्प ने दामाद को और बिलकिलन्ड ने अपने भाई को माफ़ी दी थी। हर

राष्ट्रध्यक्ष के पास विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल करने का अधिकार होता है पर उसमें मानवीयता और निर्दोषित मुख्य तत्व होता है। क्या बाइडन ने कोर्ट का कार्य में दखल देकर पहले ही बेटे को क्षमादान दे दिया है। यह कोर्ट की कार्यवाही में दखल है।

हर देश में इस तरह के मसले होते और उठते रहते हैं। जहां तानाशाही हो वहां तो सब जायज होता है कोई कुछ नहीं बोल सकता है। 2013 में भारत में यूपी सरकार ने सीरियल ब्लास्ट संदिग्धों पर से इस आधार पर वापस ले लिया था कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे। पर यहां हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। राष्ट्रध्यक्षों को विशेषाधिकार विशेष हालात के लिये दिये जाते हैं न कि पक्षपात करने के लिये या अपने प्रियजनों को बचाने के लिये। न्याय प्रणाली में मानवीयता सबसे ऊपर रखनी पड़ती है ताकि मानवीयता बनी रहे। यह एक तरह से आखिरी हथियार होता है इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिये। जब लगे किसी को सही न्याय नहीं मिल रहा है या सजा देने में गलती हो गई हो हल्के सजा की जगह गम्भीर सजा दे दी गयी हो। इस सम्बन्ध में यह रवाना रखना जरूरी होता है कि सजा पाने वालों शर्द्ध कि स्वभाव का है अगर वह पेशेवर अपराधी हैं तो उसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिये। क्षमा पाने लायक पात्र को ही क्षमादान मिलनी चाहिये। न्याय प्रणाली में इसलिये आख़ पर पड़ी बांधकर तराजू में न्याय को तौला गया है कि स्पष्ट न्याय मिले बिना किसी भेदभाव अदालत न्याय देने के लिये बनी है क्षमादान देने के लिये। सजा दोषी को सुधारने के लिये दी जाती है न कि उसे सताने और दबिस्त करने के लिये। राष्ट्रध्यक्ष के इस तरह के क्षमादान मिसाल के तौर पर होने चाहिये। जिससे भविष्य के लिये इन्साफ का मार्ग बाधित न हो। मिसाल बेमिसाल हो।

## बीआरआई प्रोजेक्ट : चीन के और करीब आओ

यशोदा श्रीवास्तव

बीआर आई (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) मामले में ओली ने सरकार में अपने सहयोगी नेपाली कांग्रेस की राय के इतर चीन से समझौता कर लिया। लेकिन किन किन बिंदुओं पर समझौता हुआ इसका खुलासा अभी बाकी है। इस बीच चार दिवसीय चीन की यात्रा से वापस आए प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल मीडिया से कहा कि बीआरआई समझौता नेपाल के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। वहीं ओली सरकार के प्रमुख सहयोगी नेपाली कांग्रेस का मानना है कि यह समझौता उसके ग्रांट फार्मुले के इतर हुआ है जिसमें हमें देखा होगा की चीन के नेपाल को अनुदान और लोन का प्रतिशत क्या है? इस बीच नेपाली कांग्रेस को भारत की हठ वादिता अच्छ नहीं लगा क्योंकि ओली को भारत आने का निर्माण नहीं दिया। ओली चीन यात्रा के पहले भारत की यात्रा पर जाने को इच्छु थे। चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ओली और उनके चीनी समकक्ष की उपस्थिति में नेपाल और चीन के बीच विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

बीआरआई समझौता नेपाल का चीन के और करीब होने की दृष्टि से देखा जा रहा है। ओली सरकार के सहयोगी दल नेपाली कांग्रेस इस समझौते से अवहमति के बावजूद ऐसा नहीं मानता। भारत में नेपाल के राजदूत रहे नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीप कुमार उपाध्याय साफ तौर पर कहते हैं कि भारत को यह सोचना चाहिए था कि हमारे उसके रिश्ते चीन से भिन्न हैं। चीन से हमारा रोटी बेंदी का रिश्ता नहीं है जबकि भारत से है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन के बीआरआई परियोजना का हिस्सा बनने से हमारे परहेज के पीछे भारत ही है क्योंकि हम उससे हर हाल में मधुर संबंध के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि भारत से बुलावा न मिलने पर ही ओली को चीन की यात्रा पर जाना पड़ा। वे कहते हैं कि बीआरआई समझौता निश्चय ही नेपाली कांग्रेस की मंशा के विपरीत हुआ लेकिन हमें अपनी जरूरतों के लिए कुछ तो करना ही था। लेकिन बीआरआई समझौता यदि लोन की शर्त पर हुआ तो नेपाल को विदेशी कर्ज के बोझ से उबर पाना मुश्किल है। क्योंकि नेपाल पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कर्ज से दबा हुआ है। नेपाल ने अब तक 17 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्ज लिया है लेकिन इसका सार्थक उपयोग नहीं हो

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक तकदीस फ़ातिमा रिजवी ने गुप-5 प्रकाशन, 55-बी, वजीर हसन रोड, लखनऊ से मुद्रित कराकर अग्रिम तल, मस्जिद नूर महल, साकेत पल्ली, नरही, लखनऊ से प्रकाशित किया।

पोलिटिकल एडिटर : ए.एम.ए. मोहसिन

स्थानीय संपादक

मोहम्मद आलम रिजवी

RNI No UPHIN/2010/31173

टेली फ़ैक्स नं. : 2288091, 4065716

avadhnamahindi@gmail.com,



किशन सनमुखदास

दिनांक 5 दिसंबर 2024 को राज्यसभा की लाइव चल रही कार्यवाही में माननीय सभापति महोदय ने पहली बार डीप स्टेट शब्द का उल्लेख किया है। सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता राज्यसभा सदस्य ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखे जिसकी चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश का हाल हमने देखे क्या अब डीप स्टेट की सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर बुरी नजर की संभावना है इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे भारत का तेजी से विकास हैटिक स्थाई सरकार से नकारात्मक सोच वाले समूह जिसमें भारत विरोधी अमेरिकी उद्योगपति भी शामिल है, 3 वर्षों से संसद सत्र अर्थात् केआसपास विदेश की रिपोर्ट पर हंगामा क्या सिर्फ संयोग है?

साथियों बात अगर हम भारत में डीप स्टेट की संभावना की करें तो, दुनियाँ के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा भारत डीप स्टेट के निशाने पर है, भारत में अपने एजेंटों की मदद से डीप स्टेट देश विरोधी हरकतों कोसमय-समय पर हवा देता रहता है। डीप स्टेट भारत में हजारों प्लनजीओ को भी घूम-फिराकर वित्त पोषित करता है ताकि राजनितिक गतिरोध और प्रशासनिक अस्थिरता



का माहौल बनाए रखा जा सके हालांकि, भारत में डीप स्टेट की सक्रियता और असर को लेकर सोच काले समूह जिसमें भारत विरोधी अमेरिकी राजनीतिक गतिरोधों के दौरान अक्सर यह बहस का हिस्सा बनता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों को पश्चिमी ताकतों और डीप स्टेट की भारत को अस्थिर करने की साजिशों के बारे में आगाह किया जा चुका है। भारत इन ताकतों की आंखों की किरकिरी बनता जा रहा है, क्योंकि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से दुनिया के कई देश और कारोबार परेशान हैं। साल 2019 में भारत का शेयर बाजार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 77 प्रतिशत था जो 2023-24 में

बढ़कर 124 प्रतिशत हो गया है, इसके अलावा वैश्विक बाजार में डॉलर के इस्तेमाल को कम करने के बीच भारतीय रुपये का प्रचलन बढ़ रहा है। इसके अलावा, भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता (स्ट्रैटिजिक अटॉनमी) की मजबूत परंपरा को फिर से तरजीह दी जा रही है। इसलिए, भारतीय कारोबारी उद्योगपति के साथ ही सेबी जैसी बाजार नियामक संस्था पर हमला कर एलआईसी, एसबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे बैंकों जैसे प्रमुख सरकारी संस्थानों में दहशत फैला दी गई थी, उन ताकतों का मानना था कि भारतीय बाजार में उथल-पुथल का सीधा असर लाखों मध्यवर्गीय लोगों और निवेशकों पर पड़ेगा और अफातफरी मच सकती है, हालांकि, ऐसा नहीं हो सका और भारतीय बाजार ने इस रोल कोसटार को आसानी से पार कर लिया था। साथियों बात अगर हम लगातार पिछले तीन वर्षों से बाधित होने के दिनांक 5 दिसंबर 2024 को उच्च सदन के सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों द्वारा सवाल उठाने की करें तो, भाजपा सांसद ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से ये क्या संयोग है?, जब भारत की संसद का सत्र चलता है, तभी ये रिपोर्ट्स आती हैं।पूर्व में

भारत के किसानों को लेकर रिपोर्ट सामने आई, तब भी संसद सत्र चल रहा था और इसी तरह पेगासस और हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी लगाभा उसी समय सामने आई, जब भारत की संसद का सत्र या तो चल रहा था या शुरू होने वाला था। अब बजट सत्र शुरू होने से पहले भारत के उद्योगों के बारे में अमेरिकी अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है। क्या ये महज संयोग है या फिर ये किसी साजिश का हिस्सा है। विगत लोकसभा चुनाव में रूस की सरकार ने भी साफ कहा था कि भारत के चुनाव में हस्तक्षेप की कोशिश हो रही है। ये पहली बार हुआ, जब किसी सरकार ने देश के चुनाव में हस्तक्षेप की बात कही। हिंडनबर्ग की धामक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने ने कहा कि 22 जुलाई से 09 अगस्त के बीच संसद का मानसून सत्र हुआ और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। वहीं 25 नवंबर से वर्तमान सत्र शुरू हुआ और 20 नवंबर को एक अमेरिकी कोर्ट में अटॉर्नी की रिपोर्ट जारी हुई। क्या यह एक महज संयोग है? भाजपा सदस्य ने कहा कि 20 जुलाई, 2023 को संसद सत्र की शुरुआत होने वाली थी और 19 जुलाई को मणिपुर का वीडियो सामने आया था। क्या यह सब महज एक संयोग था? उन्होंने एक के बाद कई रिपोर्टों का जिक्र करते हुए इसे भारत को

अस्थिर करने की साजिश बताया। उच्च सदन में उनके भाषण के दौरान विपक्ष के कुछ सदस्यों ने इस बात पर एतराज जताया किशूरकाल में 3 मिनट से अधिक नहीं बोलने का प्रावधान होने के बावजूद वह अपनी बात रखे जा रहे हैं, इसपर राज्यसभा के सभापति ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और इस पर हर किसी के विचार आने चाहिए, उन्होंने कहा, पूरे सदन को एकजुट रहना चाहिए अगर ऐसा कोई ट्रेड है, ऐसी कोई पहल है, जो खतरनाक है, जो हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने सदस्य को अपनी बात पूरी करने की इजाजत दी। सभापति की अनुमति के बाद विपक्षी सदस्यों के तेज होते हंगामे के बीच सदस्य ने आगे कहा, विशेषकर पिछले तीन सालों में जब से विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, विदेश की ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं, जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक, नैतिक और सामाजिक पक्ष पर हमला कर रही हैं। उन्होंने ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसे विदेशी सरकारों की फंडिंग है और इसके केंद्र में भारत भी है, इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इस रिपोर्ट से विवादाित अमेरिकी कारोबारी जार्ज सोरोस का भी संबंध भी बहुत गहब है।

## अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव : भारतीय संस्कृति का वैश्विक मंच



बलदेव राज भारतीय

ईश्वर की वास्तविकता और उसका स्वरूप मनुष्य के लिए सदा ही एक रहस्य रहा है। शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों ने बार-बार यह बताया है कि ईश्वर निराकार, निर्गुण, अनंत, असीम और सर्वव्यापी है। वह

किसी रूप, रंग, आकार या सीमाओं में बंधा नहीं है। लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क और उसकी मानसिकता अभी उस स्तर तक विकसित नहीं हुई है कि वह इस निराकार सत्य का ध्यान बिना किसी माध्यम के कर सके। यही कारण है कि ध्यान और साधना के लिए वह मूर्तियों, दीपकों और प्रतीकों का सहारा लेता है। ये प्रतीकात्मक साधन मनुष्य को ईश्वर के निकट पहुंचने का माध्यम प्रदान करते हैं। मंदिरों में दीप जलाना, मूर्तियों की पूजा करना और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आत्मा को एकाग्र करने में सहायक हो सकते हैं। परंतु जब पूजा-अर्चना में कामनाओं का समावेश हो जाता है, तो साधना का उद्देश्य भटक जाता है। लोग प्रायः ईश्वर से धन, संपत्ति, और अन्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की कामना करते हैं, जिससे उनकी साधना स्वार्थपरक हो जाती है। लोग उस समय भूल जाते हैं कि निष्काम भाव से की गई उपासना ही श्रेष्ठ होती है।

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने स्पष्ट किया है कि सच्ची पूजा वही है जो निष्काम भाव से की जाए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। गीता हमें सिखाती है कि साधना और धूना का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की प्राप्ति होना चाहिए, न कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति।

**आधुनिक युग और धार्मिक आंदोलन**— आज के युग में मनुष्य सत्य और असत्य के बीच भेद करने में असमर्थ हो गया है। भौतिकता की चकाचौंध और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने उसे इतना प्रमित कर दिया है कि वह छद्म गुरुओं और दिखावटी धार्मिक परंपराओं के जाल में



फंस गया है। इन आडंबरों के कारण व्यक्ति ने केवल अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ करता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने के अपने लक्ष्य से भी भटक जाता है। कई बार तो वह अपने जीवन में आने वाले संकटों को भी किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया टोना टोटका मान लेता है और अंधविश्वास के जंजाल में इस कदर फंस जाता है कि उसे सत्य पर विश्वास ही नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग सरल है, लेकिन वह तपस्या, सच्ची साधना और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने से होकर गुजरता है। प्रतीकात्मक साधन जैसे मूर्तियां और दीपक केवल साधना को केंद्रित करने के उपकरण हैं। सच्ची साधना तब होती है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर आत्मा की शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करे।

हर वर्ष कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारतीय संस्कृति और गीता के सार्वभौमिक संदेश का प्रचार-प्रसार करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस वर्ष 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित यह महोत्सव न केवल भारतीय संस्कृति की गहनता को दर्शाता है, बल्कि विश्व के विभिन्न देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम भी बनता है। भगवद्गीता ऐसा ग्रंथ है, जो युगों-युगों से मानवता का मार्गदर्शन करता आ रहा है। इसमें न केवल अध्यात्म और धर्म की बातें हैं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। गीता हमें यह सिखाती है कि यह संसार कर्मक्षेत्र है। यहां मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर।

गीता का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है— कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह एक गहरी सीख है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। आज के समय में यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। गीता में यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। जिसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति यदि बबूल के पेड़ लगाए और उसे आम का फल प्राप्त हो, ऐसा नहीं हो सकता। बबूल के पेड़ से आम के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार हैं। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। अच्छे कर्म हमें सफलता, शांति और संतोष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म जीवन में संकट और अशांति लाते हैं। कर्म की यह शिक्षा मनुष्य को सिखाती है कि वह अपने विवेक का सही उपयोग करे। यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म करता है। एक व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से न केवल अपने जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव डालता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में संगीतियों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, आध्यात्मिक चर्चाओं और योग सत्रों के माध्यम से गीता के सार्वभौमिक संदेश को जीवंत किया जाता है। यह आयोजन न केवल भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाता है, बल्कि गीता के माध्यम से जीवन जीने की कला और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। ईश्वर को पाने का मार्ग सच्ची साधना और आत्मा की शुद्धि से होकर गुजरता है। भगवद्गीता हमें निष्काम कर्म, आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की प्राप्ति का संदेश देती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जैसे आयोजन न केवल भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं, बल्कि मनुष्य को जीवन के सही अर्थ और उद्देश्य का बोध भी कराते हैं। श्रीकृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हर युग में प्रासंगिक हैं, और गीता के ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।

## दिल्ली चुनावी जंग में कौन सत्ता का ताज पहनेगा?



ललित गर्ग

दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 या उससे पहले चुनाव होने की संभावनाओं को देखते हुए राजनीतिक हलचलों एवं सरगमियां उग्र हो गयी है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी में जुट गई है। वहीं, भाजपा और कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी है। भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव दूसरे प्रांतों की ही भांति बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के लड़ने का मन बना चुकी है और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच रखेगी। पार्टी का मानना है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली में भाजपा के पास एक से एक मजबूत नेता हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नेता मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी के लिए पेश नहीं किया जा रहा है। भाजपा दिल्ली में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नए तरीके से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है, वहीं कांग्रेस अपनी खोयी जमीन को हासिल करने के लिये जटिल हद करती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित ही इस बार का दिल्ली चुनाव आक्रामक एवं संघर्षपूर्ण त्रिकोणात्मक होगा। आप, कांग्रेस एवं भाजपा की चुनावी जंग में कौन सत्ता का ताज पहनेगा, यह भविष्य के गर्भ है।



की योजनाएं देशभर में सफलता प्राप्त कर रही हैं और इन्हें दिल्ली में लागू किया जाएगा। भाजपा को दिल्ली में हमेशा मिडिल और हाई मिडिल क्लास के लोगों की पार्टी माना जाता है। इसमें व्यापारिक समुदाय इसके कट्टर समर्थक हैं। लेकिन इस बार निचले तबकों एवं गरीब लोगों के बीच उसे प्रभावित प्रयास करने होंगे। यह तो दिखता हुआ सच है कि दिल्ली में आप शासन में विकास अवरूद्ध हुआ है, पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हुई है, आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे एवं उनके नेता जेल यात्राएं की हैं। ऐसे अनेक गंभीर आरोपों के साथ भाजपा आप और उसके नेताओं पर आक्रामक होकर चुनावी परिदृश्यों को बदल सकती है। भाजपा ने कमर कस ली है और उसके नेता लगातार जनता के बीच जाकर बदलाव की अपील कर रहे हैं। इसके तहत इन दिनों जहां परिवर्तन सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, वहीं अगले हफ्ते से पूरी दिल्ली में परिवर्तन यात्राएं

भी निकाली जाएंगी। इन यात्राओं के माध्यम से आम मतदाताओं से निजी तौर पर मिलते हुए, उनसे बात करते हुए उनको पार्टी के साथ जोड़ा जायेगा। उनके दुःख-दर्द को सुना जायेगा। भाजपा का इतिहास रहा है कि वह आम जन तब पहुंचने के लिए ऐसी यात्राएं निकालती रही है एवं व्यक्तिगत संवाद स्थापित करती रही है। भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली में एक भ्रष्ट सरकार चल रही है लेकिन आम तब रोदारी, चसूली, फिरोज़ और आम नागरिकों के बीच डर पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। इसके चलते दिल्ली की जनता अब सत्ता परिवर्तन के मूड में है और देशविरोधी मानसिकता वाली सरकार को इस बार विधानसभा से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। देखना है कि भाजपा के इन आरोपों का जनता पर कितना असर होता है। निश्चित ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जमीन अभी भी मजबूत है। इसीलिये 2025 के चुनाव कांग्रेस एवं भाजपा के लिये चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। 2020 में हुआ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थीं। वहीं भाजपा को महज 8 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का लगातार दूसरी बार दिल्ली से सफाया हो गया था। इस बार के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद आतिशी मालेना राज्य की मुख्यमंत्री बनी हैं। आप नेताओं ने चुनाव अभियान प्रारंभ कर दिया है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है। आप ने पिछले दो विधानसभा चुनावों में भारी अंतर से जीत

हासिल की है। आप के आंतरिक सर्वेक्षण बताते हैं कि आप इस चुनाव में भी आसानी से जीत की ओर बढ़ रही हैं। इन स्थितियों में आप क्यों कांग्रेस या अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करें? आप अभी भी निम्न-मध्यम वर्ग और खुली-झोपड़ियों वाले इलाकों में काफी लोकप्रिय हैं। आप का वोट शेयर पहले की तुलना में बढ़ा है और कांग्रेस कमजोर हुई है। हालांकि, 2013 में अपने पहले चुनाव के बाद से आप का वोट शेयर लगातार बढ़ता रहा। जबकि पिछले दशक में कांग्रेस को वोट देने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। आप ने 2013 में अपने आध्यक्षजनक प्रदर्शन के साथ, कुल मतदान का 29 प्रतिशत वोट प्राप्त किया था। पार्टी को 70 में से 28 सीटों पर जीत मिली थी। आप ने कांग्रेस के वोट बैंक में संघ लगाई थी। इससे कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 24.5 प्रतिशत और सिर्फ आठ सीटों के साथ तीसरे स्थान पर आ गई थी। इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर क्रमशः 9.7 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत तक गिर गया। वहीं, आप ने 54.6 प्रतिशत और 53.6 प्रतिशत वोट शेयर के साथ भारी जनश्रेष्ठ हासिल किया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एवं आप के बीच गठबंधन न होने का फायदा भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। असल में आप के वोट कांग्रेस ही काटेगी। कांग्रेस एक पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसका दिल्ली में व्यापक जनधार रहा है। लेकिन वह 'जीत' और 'गठबंधन' की मूमर्मरीका में भटकती रही है, अपनी स्वतंत्र पहचान को खोती रही है।



## डीएम ने विद्यालय में एजुकेशन पार्क बनाने के लिए संबंधित को निर्देशित किया

अवधानामा संवाददाता

**बहजोई (संभल)** जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पौंसिया के द्वारा विकासखंड संभल के पीएम श्री विद्यालय भारतल सिरसी एवं पीएम श्री विद्यालय जालब सराय का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने विद्यालय में एजुकेशन पार्क बनाने के लिए संबंधित को निर्देशित किया जिलाधिकारी ने पोषण वाटिका एवं औषधीय पौधे लगाने को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के समस्त 16 पीएम श्री विद्यालय प्रत्येक दशा में निपुण होने चाहिए। जिलाधिकारी ने तिथि भोजन को मिशन के रूप में लेने को लेकर भी निर्देशित किया। विद्यालय में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों से वार्ता को उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक दशा में दिया जाए। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि पीएम श्री विद्यालय के निर्माण

कार्यों की गति को बढ़ाया जाए। जिलाधिकारी ने विद्यालय में ओपन थिएटर बनवाने को लेकर भी संबंधित को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने विद्यालय के अध्यापकों से वार्ता करते हुए कहा कि बच्चों की उपस्थिति को शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए एवं विद्यालय को प्रत्येक दशा में निपुण बनाया जाए। रोबोटिक्स में रुचि रखने वाले बच्चों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने पीएम श्री विद्यालय जालब सराय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की व्यवस्थाओं को देखा और खंड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि पीएम श्री विद्यालय के निर्माण कार्य की गति को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को विद्यालय परिसर एवं पीएम श्री पथ की साफ सफाई को लेकर जागरूक किया जाए। जिलाधिकारी ने एजुकेशन पार्क, शाक फिट, ऑनलाइन पेजिका, ओपन थिएटर, बनवाने को लेकर भी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अध्यापकों से वार्ता करते हुए कहा

कि पीएम श्री विद्यालय से संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट को सभी पीएम श्री विद्यालय के अध्यापिकाओं एवं अध्यापकों के द्वारा सभ्यक्राइब एवं लाइक किया जाए और अन्य लोगों को भी सभ्यक्राइब करने के लिए जागरूक किया जाए। जिलाधिकारी ने बच्चों की उपस्थिति को शत-प्रतिशत बढ़ाने के लिए बुलावा टोली को सक्रिय करने के लिए संबंधित को निर्देशित किया और विद्यालय की सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि 31 दिसंबर तक पीएम श्री विद्यालय के निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा, जिला सूचना अधिकारी बृजेश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी उषेंद्र कुमार पांडेय, खंड विकास अधिकारी संभल प्रेमपाल सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी संभल एवं समस्त संबंधित ग्राम प्रधान एवं संबंधित प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक अध्यापिकाएं सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

## वृंदावन में प्रकट हुए ठाकुर बांकेबिहारी

मथुरा। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्रीबांके बिहारी जी का आज 481 वां प्राकट्य उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह चार बजे से बांके बिहारीजी के प्राकट्य स्थल निधिवन में भक्तों की भारी भीड़ के बीच बांके बिहारी का पंचामृत से अभिषेक किया गया है। देश-विदेश से आए भक्त बांकेबिहारी की प्राकट्य स्थली के दर्शनों को आतुर दिखे। महाभिषेक के बाद निधिवन से ठाकुर बांकेबिहारी तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या भक्त शामिल हुए। भक्तों ने सुबह से ही नाचते गाते हुए इस उत्सव को मनाया है। बता दें कि आज ही के दिन संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास ने अपनी मधुर संगीत की धुनों और भजनो से भगवान बांके बिहारी श्रीकृष्ण को प्रसन्न किया था और तभी यहां के निधिवन में बांके बिहारीजी 481 साल पहले प्रकट हुए थे। आज भी भगवान राधा कृष्ण इसी निधिवन में हर दिन रास रचाने आते हैं। निधिवन से बड़े जोरशोर से नाचते गाते हुए स्वामी हरिदास जी चांदी के सिंहासन पर बैठकर शोभा यात्रा के रूप में बांके बिहारी शोभा पहुंचे, जहां उन्होंने बिहारी जी को प्राकट्य उत्सव की बधाई दी। इस मौके पर बांके बिहारीजी का पूरा मंदिर बड़ी ही सुंदर तरीके से सजाया सवारा गया था।

## डीएम ने पीएम श्री विद्यालय मुल्हैटा का किया निरीक्षण



अवधानामा संवाददाता

**संभल।** विकासखंड बहजोई के पीएम श्री विद्यालय मुल्हैटा का जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पौंसिया के द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसमें जिलाधिकारी ने पीएम श्री विद्यालय की सभी व्यवस्थाओं को देखा तथा विद्यालय की चाहरदीवारी को पूर्ण तरीके से बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया एवं जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम श्री विद्यालय के 67 बिंदुओं को पूर्ण किया जाए। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने विकासखंड बनिया खेड़ा के पीएम श्री विद्यालय आटा का निरीक्षण किया। एवं सभी व्यवस्थाओं को विस्तार पूर्वक चैक किया तथा विद्यालयों में 32 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया और 67 बिंदुओं लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट द्वारा विकासखंड बनिया खेड़ा के पीएम श्री विद्यालय भुलावई का निरीक्षण किया। मुख्य विकास अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान पोषण वाटिका मॉनिटिंग हॉल शेड को शीघ्र बनाने किन निर्देश दिए मुख्य द्वार के कार्य को गति से करने एवं प्राथमिक विद्यालय की नालियों को ठीक कराने और विद्यालय परिसर में फुलवारी लगाने एवं शीत ऋतु के अनुरूप फूल लगाने के निर्देश दिए। चाहरदीवारी की ग्रील, शैक्षणिक व्यवस्था बिजली फिटिंग आदि को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा, विकासखंड अधिकारी बनिया खेड़ा कमलकांत, विकासखंड अधिकारी बहजोई अखिलेश कुमार सहित समस्त संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

## दुग्ध विकास मंत्री ने विभागीय मंत्रियों के साथ बैठक कर दुग्ध समिति बढ़ाने पर बल दिया

अवधानामा संवाददाता

**मथुरा।** कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेशन धर्मपाल सिंह ने दुग्ध उत्पादन के विभिन्न समितियों के अध्यक्ष एवं सचिवों के साथ बैठक की तथा विभाग की समीक्षा बैठक की। श्री सिंह ने जनपद आगरा, फिरोजजाबाद, मैनपुरी एवं मथुरा के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए अधिकाधिक दुग्ध समितियों को बढ़ाने के निर्देश दिए।

मथुरा के अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि जनपद में 275 दुग्ध समितियां हैं, जिसमें 230 समितियां संचालित हैं। जिस पर मा0 मंत्री जी ने निर्देश दिये कि समस्त 547 ग्राम पंचायतों में दुग्ध समितियां बनायी जायें। अधिकारी ने अवगत कराया कि इस वर्ष 23 समितियां गठित हुई हैं तथा 43 अन्य समितियों के गठन की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद फिरोजजाबाद के अधिकारियों ने बताया कि उनके अंतर्गत 03 केन्द्र हैं, जिसमें आगरा, फिरोजजाबाद एवं मैनपुरी है तथा 03 प्लांट हैं। कुल 418 समितियां फिरोजजाबाद में हैं, जिसमें से 137 क्रियाशील हैं। अधिकारियों ने बताया कि माह नवम्बर में 19 समितियों को जोड़ा गया है। मंत्री ने जानकारी ली कि कितना दूध आ रहा है, जिस पर फिरोजजाबाद के अधिकारी ने बताया कि अभी 3000 लीटर दूध आ रहा है तथा दिसम्बर के अंत तक 9000 लीटर का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में मंत्री ने बताया कि उ0प्र0 भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम है। 13 दुग्ध फैक्ट्री हैं, जिसमें दस क्रियाशील हैं तथा अन्य 3 दुग्ध फैक्ट्री नेशनल डेअरी डवलपमेंट बोर्ड द्वारा शीघ्र जनपद कनौज, कानपुर एवं गोरखपुर में खोली जा रही हैं। प्रदेश में 19 दुग्ध संघ हैं, 18108 दुग्ध समितियां हैं, जिसमें लगभग 8000



■ पशुपालक 1962 पर कॉल करें घर बैठे पशुओं के स्वास्थ्य इलाज की व्यवस्था होगी: धर्मपाल सिंह

संचालित हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी दुग्ध समितियों का भुगतान एक माह के अन्दर किया जाये। समितियों का प्रशिक्षण नियमित रूप से कराया जाये।

मंत्री ने बताया कि जनपद मथुरा में 67 करोड़ का दुग्ध उत्पादन केन्द्र खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गांव गांव जाकर किसानों के साथ गाछें करे, हेल्पलाइन नंबर 1962 का

अधिकाधिक प्रचार प्रसार करें, किसानों की स्वच्छता, हरा चारा, भूसा, सर्दी के दूषित पशुओं हेतु शैड, नस्ल सुधार पर जोर, बधियकरण पर जोर, संकामक रोग से बचाव आदि हेतु जागरूक करें। मा0 मंत्री जी ने बैठक के पश्चात 24 नदिनी कृषक समुद्धि योजना के पात्र लाभार्थियों को पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी हो। जिसमें

दुग्ध उत्पादन अहम भूमिका निभाता है। देशी गाय का दूध अमृत है। उन्होंने सभी कृषक भाईयों को अवगत कराया कि केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को 500 मोबाइल वैन प्रदान की गई है, जो आप द्वारा 1962 पर कॉल करते हुए पशुओं के जांच एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य बीमारियों पर आपके घर एक घंटे में पहुंचेगी। उक्त वैन में डॉक्टर, कम्पाउण्ड तथा दवायें उपलब्ध है। जो पशुओं को प्राथमिक उपचार प्रदान करेंगी तथा अधिक बीमार होने पर संबंधित अस्पतालों में भर्ती होने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगी।

उन्होंने बताया कि राज्य में सहकारिता आधारित संगठित दुग्ध व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष 1962 में पीसीडीएफ की स्थापना की गई। पीसीडीएफ का मुख्य उद्देश्य दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से उत्पादकों से सीधे दूध का संग्रह कर उनके दूध का उचित और लाभकारी

मूल्य सुनिश्चित करना, दूध का उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को तकनीकी सुविधाएं प्रदान करना एवं शहरी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता का दूध उपलब्ध करना है। विपणन व्यवस्था के सक्रियकरण हेतु पीसीडीएफ द्वारा ई-कामर्स पोटल को प्रारम्भ किया गया है जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं के आनलाइन आर्डर पर पराग दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ को उनके घर पर ही आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पराग दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण अंचल में संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों को पराग के मार्केटिंग एजेंट के रूप में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिससे जहाँ एक ओर ग्रामीण स्तर पर शुद्ध एवं उच्च गुणवत्ता का दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध होगा वहीं दूसरी ओर महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

# अखिल भारत हिन्दू महासभा की मीरा राठौर पहुंची शाही ईदगाह

अवधानामा संवाददाता

**मथुरा।** शाही ईदगाह को श्रीकृष्ण की असली जन्म भूमि बताकर हिंदू संगठनों ने जलाभिषेक का ऐलान किया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सहक है। इस बीच अखिल भारतीय हिन्दू महासभा आगरा महिला मोर्चा की जिंदाशुध मीरा राठौर गुरुवार रात को विवादित स्थल पर पहुंची। मीरा राठौर यहां पर लड्डू गोपाल और गंगा जल लेकर आई थीं। हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते शाही ईदगाह के मुख्य द्वार को जाने वाली बैरिकेडिंग पर मीरा राठौर पकड़ी गईं।

फिलहाल पुलिस ड्रॉन से पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रही है। पुलिस के रोकने पर मीरा राठौर ने कहा मैं कान्हा जी की जन्मभूमि जा रही हूँ। ये मस्जिद का रास्ता नहीं है। उन्होंने हमारे कान्हा जी की जमीन पर कब्जा कर रखा है तो हम क्यों नहीं पूजा कर सकते हैं। मैं अपना अधिकार मांग रही हूँ। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मीरा राठौर ने शाही ईदगाह को भगवान श्रीकृष्ण का असली जन्म स्थान बताते हुए सोशल मीडिया पर जलाभिषेक का कार्यक्रम का ऐलान किया था। बता दें कि इससे पहले मीरा राठौर ताजमहल पर भी भगवा झंडा फहरा चुकी है।



शुक्रवार को जुमे की नमाज के चलते और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे जोन से पुलिस बल को मथुरा में तैनात किया गया है। पूरे शहर को दो सुपर जोन, चार जोन और आठ सेक्टर में बांटा गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर

शहर के होटलों तक पुलिस का सख्त पहरा है। मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस तैनात की गई ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी कुछ हिंदू संगठनों ने शाही ईदगाह को श्रीकृष्ण का असल जन्म स्थान बताकर जलाभिषेक करने की घोषणा की थी। इससे पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। करीब एक सप्ताह पहले डीएम और एसएसपी ने धर्मगुरुओं और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शांति की अपील की थी। इसके बाद कई संगठनों ने अपना निर्णय बदल दिया था।

## डाउत्कृष्ट कार्य करने वाले 22 शिक्षक शिक्षिकार्यें सम्मानित

अवधानामा संवाददाता

**मथुरा।** जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट मथुरा पर एडु लीडर्स यूपी टीम के द्वारा जनपद का शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि डाइट प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद ने प्रमाणपत्र देकर व पटका पहनाकर सम्मानित किया। एडु लीडर्स टीम यूपी मथुरा के जिला संयोजक नरेंद्र तिवारी ने बताया, कि आज का कार्यक्रम जनपद में उन सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा जो अपने-अपने विद्यालयों में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इस समारोह में जनपद के प्रत्येक विकासखंड के दो-दो नवाचारी व उत्कृष्ट शिक्षकों को

मिलाकर कुल 22 शिक्षकों को एक-एक प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो दिए गए। इसके अतिरिक्त पांच अन्य अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने कहा कि शिक्षक का पद बहुत बड़ा होता है। वह अपने विद्यालय की बच्चों में संस्कार दे। कार्यक्रम में डाइट प्राचार्य व बीएसएस ने राया विकास खंड से गोवर्धन दास गुप्ता प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय गौसना, रंजीत सिंह, सुनील यादव प्रधानाध्यापक सहित 22 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी राया दिनेश कुमार त्रिपाठी, कौशल किशोर खंड बलदेव, विनय प्रताप फरह, राकेश कुमार मथुरा आदि उपस्थित थे।

## भाषा वि.वि. में फिट इण्डिया वीक समारोह का आयोजन



अवधानामा संवाददाता

**लखनऊ।** ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ मे माननीय कुलपति महोदय प्रो० एन0 बी0 सिंह के कुशल मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय परिसर में फिट इण्डिया मूवमेंट के अंतर्गत फिट इण्डिया वीक समारोह, 2024 का आयोजन दिनांक 06-13 दिसंबर, 2024 तक किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत क्रीड़ा पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।शटल रन प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में 20 एवं महिला वर्ग में 08 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का आयोजन वर्ग में प्रथम स्थान आदित्य सिंह ने, द्वितीय स्थान आशीष शर्मा ने एवं तृतीय स्थान जीशान ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता के महिला वर्ग में अनमता

बनो ने प्रथम, गीतु मौर्या द्वितीय एवं एकता कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का संचालन मो0 शारिक सदस्य सचिव-क्रीड़ा परिषद द्वारा किया गया था प्रतियोगिता का निर्णायन डॉ0 हसन मेहदी, सहायक आचार्य (अस्थायी) शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। सभी प्रतिभागियों को प्रो0 चंदना डे, अक्षिता-छात्र कल्याण एवं डॉ0 नीरज शुक्ल, उपाध्यक्ष क्रीड़ा परिषद द्वारा उत्कल फेलिग हेतु शुभकामनाएं दी गयी। फिट इण्डिया वीक समारोह, 2024 के अंतर्गत कल दिनांक 07 दिसंबर, 2024 को स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु फिटनेस का महत्व के शीर्षक पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर डॉ0 नलिनी मिश्रा, डॉ0 रश्मिता सुजाय चौधरी, डॉ0 पूनम, डॉ0 मिनहाज इत्यादि शिक्षक उपस्थित रहे।

## बाबा साहब के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि

■ विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने भी बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए

अवधानामा संवाददाता

**मथुरा।** अखिल भारतीय समता फाउंडेशन एवं महात्मा ज्योतिराव फुले विकास समिति मथुरा के तत्वावधान में लखनऊ शहर रही रमेश सेनो द्वारा पांचवें दिन जारी भूख हड़ताल स्थल पर भारत के संविधान निर्माता नारी के मुक्तिदाता विश्व विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के 69 वे परिनिर्वाण दिवस पवन चतुर्वेदी एवं अजय सनवाल जी की संयुक्त अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन राजकीय छत्रावास निकट कमांड हॉउस मथुरा पर किया गया श्रद्धांजलि सभा संचालन उदयमान जाटव ने किया। श्रद्धांजलि सभा में सर्वप्रथम अनुयायियों ने बाबा साहब को प्रतीकधक पुष्पांजलि अर्पित की तत्पश्चात वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करते हुए उनके योगदान का गुणगान किया इस मौके पर विशेष रूप भारतीय किसान यूनियन सुनील के



राष्ट्रीय महासचिव लक्ष्मण चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन चतुर्वेदी ने कहा कल तक जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो कल दिनांक 7 दिसंबर 2024 को सुबह 11:00 बजे भारतीय किसान यूनियन सुनील के कार्यकर्ता यमुना एक्सप्रेस वे जाम जाम करेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को होगी। साथ ही कहा जिला प्रशासन कुंभकरणी नौद से रहा है इस भीषण उंड में समता फाउंडेशन व महात्मा ज्योतिबा फुले विकास समिति के कार्यकर्ता खुले आम आसमान के नीचे भूख हड़ताल कर रहे हैं लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक आंदोलनकारी की बातों को नहीं माना। आजाद समाज पार्टी के के नेता सिद्धार्थ भाटिया ने कहा वर्तमान सरकार जन विरोधी सरकार है इस सरकार जनमानस को ठगने का काम किया है जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ 24 घंटे के अंदर दंडवत यात्रा की परमिशन नहीं दी गई

तो मथुरा महानगर में भी होगा चक्का जाम जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। एडवोकेट रवि भादवाण एवं मुकेश धनगर ने संयुक्त रूप से अपने बयान में कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के सपनों का भारत ऊंच-नीच भेदभाव अराजकता पर आधारित है हमें बाबा साहब के सपनों का समता न्याय बंधुत्व पर आधारित भाईचारा युक्त भारत का निर्माण करना है। इस मौके पर एडवोकेट अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट ललित मोहिनी स्वरुप शर्मा ने संयुक्त रूप से बाबा साहब के परिनिर्माण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा आज भारत में बाबा साहब के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार खतरे में है मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है संवैधानिक प्रतिष्ठानों पर तानाशाही लोगों का कब्जा अमानवीय कब्जा है। जिनके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा श्रद्धांजलि सभा में गुडू

लोहिया, सतीश कुमार, कुपाल नागौर, विकास कल्याण, बृजलाल कामरेड, राजेश सिहोया, डॉ अरुण, मुकेश धनगर, रामानंद महाराज, नरेश कुमार, संतोष सैनी, कपिल सैनी, डॉक्टर अशोक सैनी कोस्र नेता, विवेक कुमार, जितेंद्र कुमार, राजेश कुमार, नरेश कुमार, राजू, एडवोकेट सौरभ, एडवोकेट अजय, एडवोकेट अमित, एडवोकेट विनय, अजय कुमार आदि मौजूद रहे। डॉ अकादमी के अध्यक्ष अशोक मंच के तत्वावधान में आज दिनांक 06, दिसंबर 2024 को भारत रत्न से सम्मानित संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीमवर्मा अम्बेडकर जी के 68,वें महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रातः 9, बजे से डॉ अम्बेडकर भवन अम्बेडकर चौक डींग गेट मथुरा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया मंच के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डॉ बी आर अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महुँ में हुआ था। वह एक महान समाजसुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के महान संविधान का निर्माण किया तथा मजलूमों और दलितों के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया।

## संक्षिप्त समाचार

### बिजली विभाग के अधिकारी मिले सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद से

संभल। सम्भल सदर विधायक इकबाल महमूद के आवास पर बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे सरकार की योजना का जनता को लाभ पहुंचाने के लिए 15



दिसम्बर से 31 जनवरी तक बकाया बिलों पर ब्याज की छूट यह योजना देहात व शहर के सभी उपभोक्ताओं के लिए है जिसका लाभ बकाया बिजली बिलों के बिजली उपभोक्त उठा सकते हैं बिजली विभाग की ब्याज मुक्त योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक रहेगी बिजली विभाग के अधिकारियों ने सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद के आवास पर जा कर योजना की जानकारी दी।

### प्राारूप 1 से 9 तक की समीक्षा बैठक का आयोजन

**संभल।** प्रमुख सचिव राजस्व, उ. प्र., व चकबंदी आयुक्त उ. प्र., तेरा रूप के आदेशों के क्रम में,जिलाधिकारी डॉ.राजेन्द्र पौंसिया जी के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में ए.डी.एम., सम्भल,उपसंचालक चकबंदी सम्भल, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी संभल व समस्त चकबंदी विभाग ,संभल के अधिकारियों की उपस्थिति में प्राारूप 1 से 9तक की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा ससमय व गुणवत्तापूर्वक सभी स्ट्रेज से चकबंदी को आगे बढ़ाने व किसी भी परिस्थिति में धारा 6 का प्रकाशन न करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त छोटे किसानों तक चकबंदी का लाभ पहुंचाने और आई.जी.आर.एस. का ससमय व गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के साथ माइक्रो मॉनिटरिंग के साथ हर संभव प्रयास द्वारा चकबंदी के कार्य को आगे बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

### जुमे की नमाज शांति पूर्वक संपन्न हुई शहर में रही शांति

**संभल।** जौबीस नवंबर को संभल की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद आज दूसरे जुमे की नमाज शांति पूर्वक संपन्न हुई पुलिस प्रशासन ने पूरे शहर में शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए तीस मजिस्ट्रेट तैनात किये थे



मिज़न और सी सी टीवी कैमरो से नजर रखी जा रही थी शाही जामा मस्जिद के क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही शहर में जामा मस्जिद के आलाव दूसरी मस्जिदों में भी नमाज शांति पूर्वक अदा की गयी संभल में ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से संभल की स्थिति शांत माहौल में मे है जुमे की नमाज और 6 दिसंबर के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये थे जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पौंसिया पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार शहर के हालत पर पुरी तरह निगरानी करते रहे.

### जनाबे सय्यद की शहादत के शोक में मजलिसे बरपा की गयी महिलाओं ने शबीहे ताबूत किया बरामद

**संभल।** रसूले इस्लाम हजरत मुहम्मद मुस्तफा की बेटी बीबी फातिमा जहरा की यौमे शहादत की याद में महिलाओं ने इमाम बाडे में शबीहे ताबूत बरामद किया। गगर के मुहल्ला नूरिया सराय स्थित शाही स्कूल में स्थित इमाम बाडे में मजलिस बरपा की बाद मजलिस के शबीहे ताबूत जनाबे सय्यदा बरामद किया। इमामबाडा फरमान हुसैन मे मजलिसो का सिलसिला आज तीसरे दिन भी जारी रहा उधर इमामबाडा इमाम अली रज़ा में भी मजलिस बरपा की गयी इमाम बाडा फरमान हुसैन मे डॉ आबिद साहब ने खिताब किया इन्होंने रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा जहरा के मसयाब बरान किये मरसियाख्वानी शमाइम रजा अता अब्बास सुहैल अब्बास आदि ने पेश किया। मजलिस के बाद मातम व नोहाख्वानी बरपा की गयी शहीद इमाम अली अब्बास गुफरान अली सादिक नैय्यर अब्बास पैकर संभली साजिद आदि मौजूद रहे।

### आसिम बिहारी की पुण्यतिथि शारिक अदीब ने साथियों के साथ की फतिहाख्वानी व चादरपोशी

**प्रयागराज।** जुमा की नमाज के बाद अटला कब्रिस्तान में मौलाना अली आसिम बिहारी मरहूम की 71वीं पुण्यतिथि के मौके पर ऑल इंडिया पसमांद



मुस्लिम महाजु की तरफ से उनके कब्र पर फतिहाख्वानी और चादरपोशी का कार्यक्रम रखा गया था। जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनाब शारिक अदीब अंसारी साहब ने शरीक होकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने उनकी मगफिरत और देश में अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। और साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रण लिया। इस मौके पर प्रयागराज के मिहाजुद्दीन अंसारी साहब, इदरीस अंसारी, शहाबुद्दीन अंसारी, कलीमुद्दीन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद वकीम, मोहम्मद जाहिद, लाल बाबू, मोहम्मद आसिम, आफाक अहमद आदि लोग शामिल रहे।

## मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा सिलसिला एवं तलाशे जौहर आज

अवधानामा संवाददाता

■ प्रसिद्ध कहानीकार नईम कोसर को समर्पित शोभा विमर्श एवं रचना पाठ

**भोपाल/एम.पी.** मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग के तत्वावधान में जिला अदब गोशा भोपाल के द्वारा सिलसिला एवं तलाशे जौहर के तहत प्रसिद्ध कहानीकार नईम कोसर को समर्पित विमर्श एवं रचना पाठ का आयोजन 7 दिसंबर को दोपहर 2:00 बजे से मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी, बाणगाणा रोड, भोपाल में जिला समन्वयक सैयद आबिद हुसैन के सहयोग से किया जाएगा। उर्दू अकादमी की निदेशिका डॉ नुसरत मेहदी के अनुसार उर्दू अकादमी द्वारा सिलसिला के तहत प्रदेश के सभी जिलों में काव्य, साहित्यिक एवं सांभोतिक गोशियां आयोजित की जा रही है। इस वर्ष जिलावार सिलसिला एवं तलाशे जौहर कार्यक्रम उस जिले के दिवंगत रचनाकारों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किये गए हैं। अकादमी द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में अपने समन्वयकों के माध्यम से ऐसी हिस्तियों के नाम ढूँढ कर उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इस कड़ी का तेरहवां कार्यक्रम आज भोपाल में आयोजित हो रहा है जिसमें भोपाल जिले के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों, तहसीलों एवं बरितियों के ऐसे स्थापित शायर एवं

साहित्यकार अपनी प्रस्तुति देगे जिन्हें अकादमी के मंचों पर प्रस्तुति का कम अवसर मिला है। भोपाल जिले के समन्वयक सैयद आबिद हुसैन ने बताया कि कार्यक्रम दो सत्रों पर आयोजित होगा। प्रथम सत्र में दोपहर 2:00 बजे तलाशे जौहर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें जिले के नये रचनाकारों ताल्मलिक लेखन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। दूसरे सत्र में शाम 4:00 बजे सिलसिला के तहत विमर्श एवं रचना पाठ का आयोजन होगा जिसकी शुरुआत में भोपाल के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं शायर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर इकबाल मसूद और शकील खान चर्चा कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इस रचना पाठ में जो शायर एवं साहित्यकार अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे उनमें विशिष्ट अमंत्रित शायर /साहित्यकार के रूप में भोपाल के वरिष्ठ साहित्यकार एवं शायर इकबाल मसूद, काजी मलिक नवेद और शायर नफीसा सुलताना शामिल होंगे और स्थानीय शायरों /साहित्यकारों में अजीउ रौशन, खुलील असरम कुईशी दिनेश मालवीय, औरंगजेब बरितियों के ऐसे स्थापित शायर एवं

# जिंक की कमी ने शरीर को बना दिया है कमजोर, डाइट में शामिल करें ये 4 सुपरफूड्स

बाँझी को स्वस्थ और फिट रखने के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट होना जरूरी है। अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो, तो शरीर कमजोर होने लगता है। जिंक एक आवश्यक न्यूट्रिएंट जो कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। शरीर में जिंक बनाने के लिए कुछ खास चीजों को रोजाना डाइट में शामिल करते हैं। आइए आपको बताते हैं। डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए।

**जिंक के कमी से होने वाली परेशानियाँ**

**वजन कम होना**

-कमजोरी महसूस होना

-मेटल हेल्थ पर असर

-बालों का झड़ना

-जखम का देर से भरना

-भ्रूज कम लगना

-टेस्ट और स्मेल कम हो जाना

- बार-बार दस्त होना

डाइट में शामिल करें जिंक रिच फूड्स

**अंडे की जर्दी**



आप रोजाना अपनी डाइट में अंडे के पीले हिस्से को जर्दी को शामिल कर सकते हैं। हालांकि, कुछ लोग अंडे की सफेदी को अलग करके भी खाते हैं। यदि आप अंडे की जर्दी खाएंगे तो शरीर में जो जिंक के समेत फाइबर

विटामिन बी6, विटामिन बी12, थाइमिन, फोलेट, पैंथोथिक एसिड, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस प्राप्त होता है।

**दही**

प्रतिदिन आहार में दही को एड ऑन करें,

क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। इससे डाइजेशन दुरुस्त होता है और इसके साथ ही इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसके साथ ही मिल्क प्रोडक्ट में जिंक भी होता है।


**लहसुन**

लहसुन में जिंक के रिच सोर्स होते हैं, वैसे तो लहसुन की गंध भले ही कई लोगों को पसंद नहीं होती। हालांकि, शरीर के लिए काफी लाभदायक होती है। इसे खाने से शरीर को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, पोटेसियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और आयोडीन भी मिलेंगे।

**काजू**

काजू में जिंक भरपूर मात्रा में होती है। इसे लोग काफी खाना पसंद करते हैं। काजू में जिंक के अलावा विटामिन ए, विटामिन के और फोलेट की भरपूर मात्रा पाई जाती है। काजू को लोग ज्यादातर खाना पसंद करते हैं। इसे सर्दियों में खाना और अच्छा माना जाता है।

## सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए बैंगन के सूप का करें सेवन, पास नहीं फटकेगी ये बीमारिया



**बैंगन सूप की सामग्री**

बैंगन

अरहर दाल

कुलथी दाल

मूंग दाल

सोधा नमक

पिपली और सोंठ

ऐसे बनाएं सूप

बैंगन का सूप बनाने के लिए मसालों को छोड़कर सारी चीजों को धो लें। अब बैंगन को काटकर दालों के साथ अच्छे से पानी में खाल लें। इसके बाद उबले हुए मिक्सचर को छानकर पतला सूप तैयार कर लें। अब आप इसमें पिपली-सोंठ और सोधा नमक जैसे मसाले मिला

लें। इस तरह से बैंगन का सूप बनकर तैयार हो जाएगा।

**सूप पीने का समय**

बता दें कि सर्दियों में बैंगन का सूप पीने से काफी आराम मिलेगा। इसका सेवन खाने से थोड़ा पहले या हल्के भोजन के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बैंगन से एलर्जी है, उन्हें इसका सेवन करने से बचना चाहिए।

**बैंगन का सूप पीने का फायदा**

नाक की रुकावट खुलेगी

गंध की क्षमता ठीक रहेगी

बलागम कम होगा


सिरदर्द से राहत मिलेगी

## या वायु प्रदूषण से बढ़ रही है पल्मोनरी फाइब्रोसिस की बीमारी, जानें इसके लक्षण

आमतौर पर पल्मोनरी फाइब्रोसिस फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है। जब यह समस्या होती है तो फेफड़ों के आसपास मौजूद टिश्यूज मोटे और सख्त हो जाते हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण फेफड़ों के पास के टिश्यूज में दाग भी हो जाता है। वैसे तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस के होने के कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इस बीमारी के कारण लंग्स पूरी तरह काम करना बंद कर सकते हैं।

**वायु प्रदूषण के कारण पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है क्या?**

एक्सपर्ट के मुताबिक, वायु प्रदूषण के कारण ही पल्मोनरी फाइब्रोसिस बन सकता है। यह पल्मोनरी फाइब्रोसिस का एक ही हिस्सा है। इस समस्या के कारण न केवल फेफड़ों की क्षति होती है, इसके बाद भी यह बढ़ती है। इस



बीमारी के कारण लंग्स शॉर्ट टर्म के लिए सुचारु ढंग से काम करना बंद कर सकता है और इसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलते हैं।

**पल्मोनरी फाइब्रोसिस होने के कारण**

- आप कोल डस्ट और ग्रेन डस्ट

आदि से दूर रहें है।

- यदि आपको कीमोथेरेपी चल रही है जो दवाई खाते हैं।

- कार्डियक परिथमिया के दौरान उपयोग होने वाली दवाएं।

- कैन्सर के दौरान होने वाली रेडिएशन थेरेपी।

**पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लक्षण**

- व्यक्ति को सांस लेने में

मुश्किल होता है।

- जिस व्यक्ति को पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है उनको सूखी खांसी जरूर दे।

- पल्मोनरी फाइब्रोसिस बीमारी के कारण से अचानक से वजन कम होता है।

- जिन लोगों को पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है, उन्हें थकान महसूस होता है।

## पीरियड्स में कट्टू के बीज खाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, मिलते हैं गजब के फायदे

वैसे तो कट्टू के बीज सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट की मात्रा पर्याप्त होती है। इतना ही नहीं, जिंक, आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए मौजूद होता है, जो हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। सेहत के लिए काफी बढ़िया रहता ही अगर आप इसका सेवन पीरियड्स के दौरान भी करते हैं, तो भी काफी फायदेमंद होता है। पीरियड्स से जुड़ी कई समस्याओं में कट्टू के बीज खाना फायदेमंद माना गया है। तो चलिए आपको इसके फायदे जरूर बताते हैं।

**पीरियड्स के समय कट्टू के बीज खाने से कई फायदे मिलते हैं**

**क्रैम्प में राहत होती**

आमतौर पर पीरियड्स के दौरान



क्रैम्प काफी होते हैं। अगर आप इस दौरान कट्टू के बीजों का सेवन करते हैं, तो आपको काफी आराम मिल सकता है। क्योंकि, इसमें म्नीशियम होता है जो यूट्रिन की मसल्ल को रिलैक्स करता है।

**ब्लड प्रलो मेटेन करता**

पीरियड्स के समय ब्लॉडिंग

काफी तेज होती है, जिससे शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। कट्टू के बीजों में आयरन होता है, जो खून की कमी को भी दूर करते हैं। क्योंकि कट्टू के बीजों में पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है।

**मूड और नींद बेहतर होती है**

आम बात है कि पीरियड्स के

दौरान मूड स्विंग्स जरूर होता है। अगर आप ऐसे में कट्टू के बीज खाने से मूड और स्लीप साइकिल बेहतर होती है। क्योंकि इसमें सेरोटोनिन होता है, जो मूड, नींद और तनाव के लेवल को मैनेज करता है।

**ब्लोटिंग दूर होती है**

कट्टू के बीजों के सेवन करने से ब्लोटिंग की समस्या दूर हो जाती है। पीरियड्स में यह समस्या काफी देखने को मिलती है। इससे मसल्ल में रिश्चाव कम होता है और दर्द में भी राहत मिलती है।

**आयरन का स्तर बढ़ता है**

पीरियड्स के दौरान ब्लॉडिंग होने से कई लड़कियों में आयरन का स्तर काफी कम हो जाता है। ऐसे में आप कट्टू के बीजों का सेवन करते हैं, तो आपका आयरन का स्तर काफी बढ़ जाएगा।

## वेट लॉस से लेकर हॉर्ट हेल्थ तक के लिए फायदेमंद है सस्ता बादाम, कमजोर शरीर में भर जाएगी जान

सर्दियों का मौसम आते ही हर घर में मूंगफली आती है। कुछ लोग इसको टाइम पास भी कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग सर्दियों में धूप संकेते हुए या फिर मूड को ठीक करने के लिए खाते हैं। सर्दियों में लोग बादाम से ज्यादा मूंगफली खाना अधिक पसंद करते हैं। अगर आपको भी बड़े-बड़े मूंगफली छीलकर खाना खाली टाइम पास लगता है, तो बता दें कि मूंगफली हमारी सेहत के लिए कई तरह से फायदा पहुंचाती है। क्योंकि मूंगफली गुणों की खान है। मूंगफली वेट लॉस से लेकर हॉर्ट हेल्थ तक के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताते जा रहे हैं कि मूंगफली किस तरह से हमारी सेहत के लिए लाभकारी होती है।

**मूंगफली के फायदे**

मूंगफली खाने के वैसे तो बहुत फायदे होते हैं। यही कारण है कि इसको सस्ता बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली में बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेसियम, सेलेनियम, कॉपर और आयरन जैसे गुण पाए जाते हैं। विटामिन और फूड सप्लीमेंट खरीदें

सर्दियों में भी मूंगफली खाने के अपने फायदे होते हैं और इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।

अगर आप भी शरीर के आढ़ी-टेढ़ी मसल्ल से



परेशान हैं, जो आपके लुक को खराब कर रहे हैं तो आपको रोजाना भीगी हुई मूंगफली खानी चाहिए। भीगी हुई मूंगफली खाने से धीरे-धीरे मसल्ल टोंड होगी। क्योंकि मूंगफली कैल्शियम, आयरन, नियासिन, फोलेट और जिंक का भी अच्छा सोर्स माना जाता है।

अगर सर्दियों में आपके कमर और जोड़ों में बहुत

दर्द होता है। तो मूंगफली आपको आराम दिला सकती हैं। इससे आराम पाने के लिए भीगी हुई मूंगफली को थोड़े गुड़ के साथ खाएं। क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। मूंगफली का सेवन करने से हड्डियां मजबूत बनती हैं।

## ग्वार फली खाने के फायदे जानकर उड़ जाएंगे आपके होश, स्किन डिटॉक्स से लेकर हार्ट हेल्दी रहता है

क्या आपने कभी क्लस्टर बीन्स या ग्वार के बारे में सुना है? क्लस्टर बीन्स, जिसे ग्वार की फली के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान में उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल है, जिसका उपयोग सब्जी बनाने में भी किया जाता है। इस सब्जी में कई पोषण का पावरहाउस हैं जो लंबे समय से पारंपरिक आहार में प्रमुख रहा है। ग्वार में फाइबर, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों और ए, बी और सी जैसे कई विटामिनों से भरपूर है। क्लस्टर बीन्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।

**वजन कंट्रोल में रहता है**

अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो आप क्लस्टर बीन्स का सेवन जरूर करें। यह आपके वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। क्लस्टर बीन्स में सबसे कम कैलोरी होती है, इसलिए इसे आप कैलोरी कम और हाई फाइबर होता है। यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करते हैं।



**ब्लड शुगर को कंट्रोल करता**

अगर आप ग्वार का नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो डायबिटीज को नियंत्रित करती है। इसके सेवन से प्री-डायबिटीज वाले लोगों की मदद करने और टाइप 2 मधुमेह के लक्षणों को रोकने में मदद करता है। क्लस्टर बीन्स इंसुलिन की प्रतिक्रिया में काफी सुधार करता है और ग्लूकोज चयापचय में मदद करता है।

**कोलेस्ट्रॉल कम करता**

ग्वार फली के सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ग्वार बीन्स में मौजूद फाइबर और पोटेसियम दिल को स्वस्थ रखने में

मदद करता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज होते हैं, यह हड्डियों को मजबूत बनाता है।

विटामिन और फूड सप्लीमेंट खरीदें

**बाँझी को डिटॉक्सिफाई करता है**

क्लस्टर बीन्स को एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर के रूप में जाना जाता है। यह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और लीवर व किडनी को साफ करता है। इस प्रक्रिया को ओवरऑल शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, क्योंकि, ग्वार बीन्स में फाइबर और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पाचन और विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में सहायता करता है।

## फैटी लिवर की समस्या से बचने के लिए डाइट में शामिल करें 2 मौसमी सजियों का जूस

अगर आपको रिपोर्ट में भी फैटी लिवर आया है और आप इसे नॉर्मल समझकर नजरअंदाज करने की गलती कर रहे हैं। तो इसका आपको हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर समय रहते फैटी लिवर की समस्या पर ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या और भी बढ़ सकती है। फैटी लिवर के कई ग्रेड होते हैं और यदि आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करने की जरूरत है। जिससे कि इसके लक्षणों को रिवर्स किया जा सके। आपको बता दें कि लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन जब लिवर में चर्बी जमा होने लगती है, तो फैटी लिवर की शिकायत होती है। वहीं समय रहते यदि इस समस्या पर ध्यान न दिया जाए, तो आगे चलकर यह लिवर सिरोसिस में भी बद सकती है। अक्सर हमारे खान-पान और लाइफस्टाइल की गलत आदतें फैटी लिवर का कारण होता है। ऐसे में डाइट में बदलाव कर इसको रिवर्स किया जा सकता है।



ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको सर्दियों में मिलने वाली ऐसी 2 सब्जियों के बारे में बताते जा रहे हैं, जिनका जूस लिवर हेल्थ में सुधार करने और फैटी लिवर के लक्षणों को कम करने में भी मदद मिलती है। विटामिन और फूड सप्लीमेंट खरीदें

**चुकंदर का जूस**

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, तो फैटी लिवर के लक्षणों को कम करने, लिवर को डिटॉक्स करने और लिवर हेल्थ को सुधारने के लिए चुकंदर का जूस किसी टॉनिक से कम नहीं है। चुकंदर में विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है, जो लिवर को डिटॉक्स करता है और फैटी लिवर के लक्षणों को भी कम करता है।

आप रोजाना चुकंदर का जूस पीकर लिवर हेल्थ में सुधार ला सकते हैं। विटामिन और फूड सप्लीमेंट खरीदें

**गाजर का जूस**

गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है। बता दें कि यह लिवर हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होता है।

वहीं चुकंदर में बीटाइन भी पाया जाता है और यह लिवर के लिए भी फायदेमंद होता है। चुकंदर का जूस पीने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है।

एक्सपर्ट की मानें, तो चुकंदर अपनी गुणों से लिवर की नई कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है। जब लिवर जल्दी नई कोशिकाएं बनाते हैं, तो यह जल्दी ठीक होता है और फैटी लिवर की समस्या कम होती है।

चुकंदर में मौजूद कंपाउंड लिवर को ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है।

आप रोजाना चुकंदर का जूस पीकर लिवर हेल्थ में सुधार ला सकते हैं। विटामिन और फूड सप्लीमेंट खरीदें

**गाजर का जूस**

गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है। बता दें कि यह लिवर हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होता है।



खीरा एक ऐसा हेल्दी फूड है, जिसका अधिकतर गर्मियों में सेवन किया जाता है। खीरा पेट की गर्मी को शांत करने, वेट लॉस और शरीर में पानी का लेवल बनाए रखने में सहायक होता है। लेकिन बहुत सारे लोग सर्दियों में खीरा खाना छोड़ देते हैं। क्योंकि खीरा का तासीर ठंडी होती है। साथ ही यह फल वात बढ़ने वाला माना जाता है। जिसकी वजह से सर्दियों में गैस की दिक्कत हो सकती है। सर्दियों में शरीर की जलरामिन कमजोर हो जाती है। ऐसे में खीरा पचने में बाधा बन सकता है और अपच व गैस जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। अगर आप खीरा खाने का सही तरीका जान लें। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको सर्दियों में खीरा खाने का सही तरीका और इसके फायदे के बारे में बताते जा रहे हैं।

**सर्दियों में खीरा खाने के फायदे**

खीरे में पर्याप्त मात्रा में पानी पाया जाता है। ऐसे में खीरा का सेवन शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। सर्दियों में प्यास कम लगती है, जिसकी वजह से शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। स्किन का ड्राई होना, होंट फटना और मुंह सूखना डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण हैं। डॉक्टर की मानें, तो खीरे में 90 फीसदी पानी होता है। जो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। विटामिन और फूड सप्लीमेंट खरीदें

**कब्ज से बचाव**

शरीर में पानी की कमी कब्ज

का अंदर पानी की पर्याप्त मात्रा होने के साथ फाइबर भी होता है। यह दोनों ही चीजें मल को मुलायम और मोटा बनाती हैं। ऐसे में खीरे के सेवन से आप कब्ज की समस्या से बच सकते हैं और मल आसानी से बाहर आ सकता है।

**वेट लॉस**

सर्दियों में खान-पान ज्यादा होता है। जिसके कारण वजन कम करने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन आप खीरे को सलाद की तरह डाइट में जोड़ने से कैलोरी इन्टेक कम की जा सकती है। वहीं फाइबर पेट को ज्यादा देर तक भरा रखता है और भ्रूज को भी शांत करता है।

**मैनेज होगा ब्लड शुगर**

एक्सपर्ट कई अध्ययनों का हवाला देते हुए कहें हैं कि खीरे के सेवन से डायबिटीज का खतरा कम किया जा सकता है। यह ब्लड शुगर के लेवल को मैनेज करता है। लेकिन खीरे को खिलकें के साथ खाना अधिक फायदेमंद होता है।

**खीरा खाने का सही तरीका**

क्योंकि खीरे की तासीर ठंडी होती है और यह थोड़ा देर से पचता है। इसलिए इसका रात में सेवन करने से बचना चाहिए। आप जब खीरे का सलाद बनाकर खाएं, तो इसमें एक बदलाव कर लें। इसके ऊपर काली मिर्च, जूना जीरा या फिर काला नमक जैसे मसाले डालें। इससे खीरे का पाचन बढ़ जाएगा और यह मसाले खीरे की तासीर को भी बैलेंस कर लेंगे।

## सोमवार तक के लिए स्थगित की गई लोकसभा की कार्यवाही

### विपक्ष ने किया जमकर हंगामा

एजेंसी

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र को शुरू हुए आज 12 दिन हो गए। संसद के दोनों सदनों में पहले दिन से विपक्ष का हंगामा जारी है। सत्र के पहले सप्ताह सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका। जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही ज्यादातर दिनों में स्थगित ही रही। शुरुवार को भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल लगातार अज्ञानी और संभल हिंसा को लेकर सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने की कुछ देर बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस की बेंच से मिली नोटों की गड़बड़ के बाद वहां भी जंकर हंगामा हुआ।

शुरुवार को सदन की कार्यवाही



के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल, राज्यसभा में कांग्रेस के बेंच पर नोटों की गड़बड़ मिली। उसके बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हुआ। राज्यसभा के सभापति ने खुद इसके बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी जांच हो रही है। बता दें कि आज यानी शुरुवार को सभापति जगदीप

नोट की गड़बड़ मिलने की बात कहने के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने

### 43 सेकेंड में सदन स्थगित, लोकसभा स्पीकर बोले, सदन की गरिमा नहीं गिरने दूंगा

नई दिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही को विपक्षी दलों के हंगामे के चलते महज 43 सेकेंड में ही स्थगित कर दिया। उन्होंने इस बात पर विरोध बल दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सदन की गरिमा नहीं गिरने दूंगा। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सवालिया लहजे में कहा, यह प्रश्नकाल है, क्या आप सदन नहीं चलाने देना चाहते हैं? आप प्रश्नकाल नहीं चलाने देना चाहते? उन्होंने कहा, सदन गरिमा और उच्च कोटि की परंपरा से चलेगा। सदन के अंदर न गरिमा गिरने दूंगा और न ही न्यायावकाश होने दूंगा। उन्होंने कहा, मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग प्रश्नकाल में सहयोग करें। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सदन को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया। उल्लेखनीय है कि 25 नवंबर के बाद से सदन में विपक्षी दलों के द्वारा लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने आकर अपना स्थान हाथ में लिया था कि विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं का सदन में हंगामा जारी रहा। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने कई सुई उठाए। इनमें प्रमुख रूप से संभल हिंसा शामिल था।

कहा, जब तक मामले की जांच चल रही है और सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको (सभापति) उनका (अभिषेक मनु सिंघवी) नाम नहीं बोलना था।

### चेन्नई में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत, 19 अस्पताल में भर्ती

चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में संदिग्ध दूषित जल पीने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 अन्य को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के पल्लारवम क्षेत्र में हाल ही में हुई बारिश के बाद पीने के पानी में सीवेज का मिलना बताया जा रहा है, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के हालचाल पूछे। उन्होंने बताया कि पानी के नमूनों को विस्तृत जांच के लिए गिण्टी स्थित किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड रिसर्च भेजा गया है। सुब्रमण्यम ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतकों की मौत का सही कारण सामने आएगा। मृतकों की पहचान 56 वर्षीय तिरुवेथी और 42 वर्षीय मोहनरंगम के रूप में की गई है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि मोहनरंगम को मृत अवस्था में लाया गया था।

### राज्यसभा में सीट नंबर 222 से मिली 500 रुपये के नोटों की गड़बड़

एजेंसी

नई दिल्ली। राज्यसभा में शुरुवार को चेकिंग के दौरान 500 रुपये के नोटों का बंडल प्राप्त हुआ। यह जानकारी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को दी। सभापति ने बताया कि गुरुवार को सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद एंटी सबोटाज की टीम सदन में रूटीन चेकिंग कर थी। इसी दौरान चेकिंग कर रही टीम को 500 रुपये के नोटों का बंडल मिला। सभापति ने बताया कि यह बंडल सीट नंबर 222 से प्राप्त हुआ। सभापति के मुताबिक यह सीट राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। सभापति के मुताबिक अभी तक इन नोटों की दवेदारी किसी भी सदस्य द्वारा नहीं की गई है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। सभापति ने बताया कि यह मामला उनके नोटिस में लाया गया, इसके बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि तय

नियमों के तहत इस पूरे मामले की जांच हो और जांच शुरू भी हो गई है।

सभापति ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि इन नोटों की दवेदारी के लिए कोई आयागा, लेकिन शुरुवार सुबह तक कोई नहीं आया। अभी यह भी नहीं मालूम है कि यह नोट असली हैं या नकली। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। सभापति ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया और कहा कि किसी को भी इस मामले की जांच का विरोध नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही सभापति ने यह भी बताया कि संबंधित सदस्य के इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड बताते हैं कि उन्होंने सदन में गुरुवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

सभापति द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सांसद इस विषय पर बोलना चाहते थे।

## बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल से सटी सीमा पर ड्रोन तैनात किए

### भारत हाई अलर्ट पर

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बांग्लादेश ने भारत से सटी सीमा पर तुर्की में बने ड्रोन को तैनात कर दिया है। इसके बाद पहले से अलर्ट भारत और भी ज्यादा सक्रिय हो गया है। दूसरी ओर, बांग्लादेश ने कोलकाता से अपने उप-उच्चायुक्त को वापस देश बुला लिया है। कोलकाता में बांग्लादेशी मिशन के बाहर हुए प्रदर्शन के चलते ये फैसला लिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल से सटी सीमा पर तुर्की निर्मित बायरैक्टर टीबी 2 ड्रोन को तैनात किया है। इन ड्रोनों का संचालन बांग्लादेश की 67वीं सेना खुफिया और निगरानी मिशनों के लिए करती है। मामले पर अभी सेना की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है,



लेकिन भारत ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। बांग्लादेश का कहना है कि उसने ड्रोन की तैनाती रक्षा उद्देश्यों के लिए की है।

बांग्लादेश ने कोलकाता में कार्यवाहक उप-उच्चायुक्त मोहम्मद अशरफुर रहमान को तत्काल ढाका बुला लिया है। बांग्लादेश उप-उच्चायुक्त के एक अधिकारी ने बताया कि रहमान पहले ही ढाका पहुंच चुके हैं। अधिकारी ने कहा,

बांग्लादेश अपने नोटों में छपी पूर्ण राष्ट्रपति और बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में पहचान रखने वाले शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर भी हटाने जा रहा है। सरकार ने नए नोटों को छापने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसमें धार्मिक संरचनाएं, बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी रहेंगे। उम्मीद है कि ये इसी महीने के मध्य तक कोलकाता लौट आएंगे।

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायुक्त ने सुर्क्षा कारणों का हवाला देते हुए 3 दिसंबर से सभी

विकास और वाणिज्यिक सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह फैसला एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों के मिशन परिसर में घुसकर तोड़फोड़ करने के बाद लिया गया है। इस घटना के विरोध में बांग्लादेश ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी घटना पर खेद जताया था।

बांग्लादेश ने नोटों में छपी पूर्ण राष्ट्रपति और बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में पहचान रखने वाले शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर भी हटाने जा रहा है। सरकार ने नए नोटों को छापने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसमें धार्मिक संरचनाएं, बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी रहेंगे। उम्मीद है कि ये इसी महीने के मध्य तक कोलकाता लौट आएंगे।

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायुक्त ने सुर्क्षा कारणों का हवाला देते हुए 3 दिसंबर से सभी

विकास और वाणिज्यिक सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह फैसला एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों के मिशन परिसर में घुसकर तोड़फोड़ करने के बाद लिया गया है। इस घटना के विरोध में बांग्लादेश ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी घटना पर खेद जताया था।

बांग्लादेश ने नोटों में छपी पूर्ण राष्ट्रपति और बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में पहचान रखने वाले शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर भी हटाने जा रहा है। सरकार ने नए नोटों को छापने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसमें धार्मिक संरचनाएं, बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी रहेंगे। उम्मीद है कि ये इसी महीने के मध्य तक कोलकाता लौट आएंगे।

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायुक्त ने सुर्क्षा कारणों का हवाला देते हुए 3 दिसंबर से सभी

विकास और वाणिज्यिक सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह फैसला एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों के मिशन परिसर में घुसकर तोड़फोड़ करने के बाद लिया गया है। इस घटना के विरोध में बांग्लादेश ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी घटना पर खेद जताया था।

### विवेक न्यूज

### बीजेपी के देशद्रोही के आरोपों पर प्रियंका ने राहुल का किया बचाव

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 'देशद्रोही' कहे जाने पर भाई का बचाव किया है। प्रियंका गांधी ने शुरुवार को कहा कि सत्तारूढ़ दल के लोग कुछ भी कहें, उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके भाई के लिए देश से बहकर कुछ नहीं है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वे लोग देश की आजादी के लिए 13 साल जेल में कारावां बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी को 'देशद्रोही' कह सकते हैं, उनके लिए राहुल गांधी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर वो राहुल गांधी के लिए ऐसा कह रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है।

### एक किलोमीटर आगे इंजन, पीछे-पीछे डिब्बे

मधुबनी। जिले के जयनगर से आनंद विहार के लिए चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन बड़े हादसे से बाल-बाल बच गई है। दरअसल, गरीब रथ एक्सप्रेस (12435) जयनगर से आनंद विहार के लिए अपनी निर्धारित समय पर खुली। इसके थोड़ी ही देर बाद 12-46 बजे ट्रेन खलौली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहाँ से इतलने के बाद ट्रेन का इंजन रेलवे गुनटी संख्या 26 के पास बोगी से अलग हो गया। वहीं इसे देखने के बाद यात्रियों ने चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद ड्राइवर को ये बात पता चली। ड्राइवर की नजर जबतक पड़ी तबतक इंजन एक किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका था और बोगी पट्टी पर बिना इंजन के चल रही थी। हालांकि ड्राइवर ने इंजन में ब्रेक लगाकर रोका। इसके बाद इंजन पीछे लाकर बोगी को जोड़ा गया और फिर ट्रेन आनंद विहार के लिए रवाना हुई। ट्रेन 1 बजकर 30 मिनट पर मधुबनी रेलवे स्टेशन पहुंची। गरीब रथ के कारण जयनगर से खुलने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों को देरी से लेना पड़ा। मामला की जानकारी होने पर सार्वभूमिक के मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने सगस्तीपुर के लोको पावरल और दशगा के एक इंजन को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है।

### अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ट्रंप को मिला पैट्रियॉट ऑफ द ईयर पुरस्कार

एजेंसी

ग्रिनिले (अमेरिका)। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जादू देश और दुनिया पर अभी से छाने लगा है। उनकी कार्यशैली और अंदाज की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। बता दें कि आगामी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। मगर इससे पहले ही उनको एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ट्रंप को वीडियो 'स्ट्रीमिंग' सेवा 'फॉक्स नेशन' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 'पैट्रियॉट ऑफ द ईयर' (वर्ष का सबसे बड़ा देशभक्त) पुरस्कार प्रदान किया गया।

यह पुरस्कार सबसे बड़े राष्ट्रभक्त को दिया जाता है। ट्रंप को उनकी अंतिम देश भक्ति को देखते हुए इस पुरस्कार के लिए चुना गया। उल्लेखनीय है कि चुनाव जीतने के बाद से ट्रंप अधिकतर समय फ्लोरिडा स्थित अपने रिजॉर्ट 'मार-ए-लागो' में ही रहकर अपने आगामी प्रशासन के

मंत्रियों के नामों की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन वह इस वार्षिक पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए वृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क के लॉग आइलैंड गए।

राष्ट्रभक्त का पुरस्कार हासिल करने के बाद ट्रंप का जोश कई गुना हाई हो गया। वह अपने हाव-भाव से मंच पर ही अपने जोश का प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। पुरस्कार हासिल करने के बाद ट्रंप ने 'दिल्लि सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स' में भीड़ को संबोधित भी किया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा, "फॉक्स में काम करने वाले लोग बेहतरीन हैं। आज का दिन शानदार रहा।" इस कार्यक्रम की मेजबानी 'फॉक्स' के प्रस्तोता सीन हैनिटी ने की, जो ट्रंप के मित्र भी हैं। नव-निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यक्रम के मूल प्रस्तोता पीट हेगसेथ को अमेरिका के अगले रक्षा मंत्री के रूप में नामित किया है जिसके बाद हैनिटी ने हेगसेथ के स्थान पर कार्यक्रम के प्रस्तोता की जिम्मेदारी निभाई।

## महिला टीचर ने 15 साल के छात्र को भेजा अपना न्यूड वीडियो

एजेंसी

न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स में 33 वर्षीय एक महिला टीचर ने अपने छात्र के साथ ऐसा कारनामा किया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। महिला टीचर ने 15 साल के छात्र को अपना कई न्यूड वीडियो भेज दिया और कहा कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहती है। इतना ही नहीं टीचर ने कहा-मैं दावे से कह रही कि मुझे सारे लड़के पसंद करते हैं। टीचर ने कहा कि इस बात के लिए मैं शर्त लगा सकती हूँ। महिला पर आरोप है कि उसने अपने छात्र को इस तरह के अश्लील वीडियो और संदेश भेजकर शारीरिक संबंध के लिए तैयार कर लिया। वेल्स ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार पहले किशोर ने जब उसके



साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो महिला टीचर ने छात्र को अपने यौन कृत्यों के कई वीडियो भी भेज दिए। साथ ही अपने निजी अंगों का वीडियो साझा किया। ताकि छात्र को ऐसे वीडियो देखकर लालच आ जाए। इतना ही नहीं, छात्र को उत्तेजित करने के लिए महिला टीचर ने उसको अपना प्राइवेट अंग दिखाए को कहा। छात्र के साथ महिला टीचर नटाली अरोयो ने

बातचीत के दौरान यह भी कहा कि मुझे यकीन है कि सभी लड़के मुझे पसंद करते हैं। मेरे निजी अंग सचमुच बड़े हैं। इसलिए मैं उनको दोषी नहीं मानती। रिपोर्ट के अनुसार महिला टीचर ने कथित तौर पर कहा, मैं तुम्हारे बारे में सोचते हुए अपने निजी अंगों को छुआ। उसने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि इस वक्त मेरे पति घर पर नहीं हैं।

## भूकंप के तेज झटकों से दहला कैलिफोर्निया, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.0

एजेंसी

लॉस एंजेलस। उत्तरी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद अस्थायी रूप से सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी। उत्तरी कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के कुछ तटीय क्षेत्रों को खाली भी कराना पड़ा। युनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) के मुताबिक नॉर्थ कैलिफोर्निया के तटीय क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.0 दर्ज की गई। भूकंप के यह झटके स्थानीय समय के अनुसार गुरुवार की सुबह 10.44 बजे महसूस किए गए हैं। शुरुआत में इसकी तीव्रता 6.6 बताई गई लेकिन बाद में इसे अपग्रेड कर 7.0 बताया गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, भूकंप का केंद्र 0.6 किलोमीटर की गहराई पर था। ये उत्तरी कैलिफोर्निया के हम्बोल्ट काउंटी के 1,000 से



अधिक की आबादी वाले शहर फर्नडेल से लगभग 100 किमी उत्तर-पश्चिम में के एक तटीय क्षेत्र में आया।

भूकंप आने के कुछ ही मिनटों बाद यूएस नेशनल वेदर सर्विस (एनडब्ल्यूएस) द्वारा कैलिफोर्निया के 5.3 मिलियन लोगों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। इसे लेकर थेलो अलर्ट जारी किया गया जो मामूली नुकसान को लेकर सतर्क करता है। हालांकि बाद में इसे वापस भी ले लिया गया। भूकंप के झटकों का असर सैन

फ्रांसिस्को तक भी पहुंचा। जिसकी वजह से (सैन फ्रांसिस्को बे एरिया) सैन फ्रांसिस्को और ऑकलैंड को जोड़ने वाली पानी के नीचे की सुरंग के माध्यम से गुजरने वाली सभी पारगमन सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया।

इसके अतिरिक्त, नॉर्थ कैलिफोर्निया के निवासियों ने बताया कि उन्होंने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। बारह से ज्यादा बार झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी के हताहत होने या किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं आई है।

## अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद जल्द नया पीएम चुनने की बात कही

### फ्रांस के राष्ट्रपति बने रहेंगे इमैनुएल मैक्रों

एजेंसी

पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने पांच साल के कार्यकाल को जारी रखने की कसम खाई है। हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन मैक्रों ने साफ कर दिया है कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मैक्रों ने राज्य की निरंतरता, संस्थानों के समुचित कामकाज और फ्रांसीसी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी भी जोर पौर दिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का यह बयान तब आया जब उन्होंने गुरुवार को एलिजी पैलेस से राष्ट्र को संबोधित किया।

मैक्रों ने कहा आखिरकार, आपने मुझे लोकतांत्रिक रूप से जो कार्यकाल सौंपा है, वह पांच साल का कार्यकाल है और मैं इसके खत्म होने तक इसका पूरी तरह से पालन



करूंगा। मेरी जिम्मेदारी में राज्य की निरंतरता, हमारे संस्थानों का समुचित कामकाज, हमारे देश की स्वतंत्रता और आप सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। मैक्रों ने कहा, मैं शुरू से ही आपके साथ, सामाजिक संकटों, कोविड-19 महामारी, युद्ध की वापसी, मुद्रास्फीति और इतने सारे परीक्षणों के माध्यम से यह कर रहा हूँ, जो हमने साझा किए हैं। मैक्रों ने

कुछ दिनों के भीतर एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की भी कसम खाई। उन्होंने कहा, आज से, एक नया युग शुरू होना चाहिए, जहां सभी को फ्रांस के लिए काम करना चाहिए और जहां नए समझौते किए जाने चाहिए।

मैक्रों ने कहा, मैं शुरू से ही आपके साथ, सामाजिक संकटों, कोविड-19 महामारी, युद्ध की वापसी, मुद्रास्फीति और इतने सारे परीक्षणों के माध्यम से यह कर रहा हूँ, जो हमने साझा किए हैं। मैक्रों ने

कर सकते। यही कारण है कि मैं आने वाले दिनों में एक प्रधानमंत्री नियुक्त करूंगा। मैं उन्हें सभी राजनीतिक बलों का प्रतिनिधित्व करने वाली सामान्य हित की सरकार बनाने का काम सौंपूंगा, जो इसमें भाग ले सकते हैं या कम से कम इसे संभर नहीं करेगा का वचन देते हैं। प्रधानमंत्री को इन परामर्शों का नेतृत्व करना होगा और आपकी सेवा में एक सख्त सरकार बनानी होगी।

मैक्रों ने फ्रांसीसी प्रधानमंत्री बार्नियर के बारे में भी बात की और उनके समर्पण और दृढ़ता के लिए उनकी प्रशंसा की। मैक्रों ने कहा, प्रधानमंत्री ने मुझे अपना और अपनी सरकार का इस्तीफा सौंप दिया, और मैंने इसे नोट कर लिया है। मैं देश के लिए किए गए काम, उनके समर्पण और उनकी दृढ़ता के लिए मिशेल बार्नियर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वह और उनके मंत्री उस समय आगे

आए जब बहुत से अन्य लोग नहीं आए। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए मैक्रों ने लिखा, मैं मिशेल बार्नियर को हमारे देश के लिए किए गए काम, उनके समर्पण और उनकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

फ्रांस की संसद में 577 सीट हैं और इनमें से 331 सदस्यों ने बार्नियर सरकार को हटाने के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद से देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। देश का बजट घाटा बढ़ रहा है। बार्नियर ने संसदीय अनुमोदन के बिना बजट उपायों को पारित करने के लिए विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों ने उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू की और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बार्नियर की सरकार छह दशकों से अधिक समय में अविश्वास मत से गिराई जाने वाली पहली सरकार बन गई।

## बाबासाहब पूरे भारतीय समाज के लिए प्रेरणास्रोत है : राकेश मोर्य

### अवधनामा संवाददाता

**जौनपुर।** सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जिला समाजवादी पार्टी के तत्वधान में सांसद जौनपुर के नईगंज स्थित कार्यालय पर प्रातः 10 बजे संविधान निर्माता, न्यायवादी, शिक्षावादी, समाज सुधारक दार्शनिक, लेखक और भारत रत्न डॉ.भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर गोष्ठी आयोजित कर बाबासाहब डॉ.भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। तत्पश्चात सपा के जिलाध्यक्ष राकेश मोर्य की अध्यक्षता में गोष्ठी आयोजित हुई। अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष राकेश मोर्य ने कहा कि 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर

लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। उनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। जिलाध्यक्ष ने आगे कहा कि भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सामाजिक समानता, न्याय और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष किया। इस दिन, हम भारतीय संविधान के जनक और समाज सुधारक, डॉ. भीमराव अंबेडकर की याद में उनके योगदान और जीवन के आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉ. अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर उपस्थित जनो ने एक स्वर में बाबासाहब के संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। गोष्ठी को पूर्व विधायक

लालबहादुर यादव, प्रदेश सचिव राजेश यादव, सुशील दुबे, जिला उपाध्यक्ष गण श्यामबहादुर पाल, हीरालाल विश्वकर्मा, वीरेंद्र यादव, हरिश्चंद्र प्रभाकर आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर उपस्थित जनो में पूर्व प्रमुख जयंती यादव, राहुल त्रिपाठी, लकी त्रिपाठी, संतोष मोर्य मुन्ना, गुलाब यादव रीते, मनोज मोर्य, डॉ.जंगबहादुर यादव, दिलीप प्रजापति, गुड्डु सोनकर, आनंद गुप्ता, जुबैर अंसारी, मंजय कर्नौजिया, धर्मेन्द्र सोनकर, दशरथ यादव, राजेश यादव, रमेश मोर्य, मुकेश यादव, सोनी सेठ नगर महिला अध्यक्ष, सोनी यादव, देवेन्द्र यादव, देवा यादव, पवन मोर्य, आनंद मोर्य सहित अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोष्ठी का संचालन जिला महासचिव आरिफ हबीब ने किया।

# अवधनामा

## आशा बहुओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित 9 सूत्रीय सौपा मांग पत्र

### अवधनामा संवाददाता

**आजमगढ़।** आल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्त्री सेवा समिति के नेतृ तले जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची आशा बहुओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित 9 सूत्रीय मांग पत्र सौपा है। जिलाध्यक्ष संस्था सिंह ने कहा कि हम आशा बहुएं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बार बार अपनी मांगों से अवगत करा रहे है लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कहा कि हमारी मांग है कि आशा और संगिनी का कमीशन हटाकर सामान्य कर्मचारी की तरह एक निश्चित मानदेय प्रदान किया जाए। चार वर्षों से पीएम सौपा बंधन योजना का रकबा हुआ भुगतान कराया जाए। साथ ही प्रति



आभा कार्डों पर उनकी दर से भुगतान हो। मृत्यु होने पर 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। प्रत्येक सीएचसी और पीएचसी पर आवास व सौचालय और आयुधान कार्ड, इलेक्ट्रिक स्कूटी, मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाए। कहा कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आगले चुनाव में हम आशा बहुएं सरकार से मुंह फेर लेंगे। जिसका सखामियाजा सरकार एक बार 2024 के चुनाव में भुगत चुकी है।

## जिलाधिकारी ने की बलिया के चकबंदी प्रक्रियाधीन ग्रामों की प्रगति की समीक्षा

### अवधनामा संवाददाता

**बलिया।** जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद बलिया के चकबंदी प्रक्रियाधीन ग्रामों की प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने चकबंदी प्रक्रियाधीन ग्रामों की समीक्षा के दौरान कहा कि जिन ग्रामों में चकबंदी के संबंध में विरोध है। उन ग्रामों में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी के साथ हर सप्ताह एक-एक ग्राम में बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। पड़ताल के कार्यों को तेजी से पूर्ण कराया जाए।

उन्होंने चकबंदी प्राधिकारियों से कहा कि चकबंदी के कार्यों को



नियमानुसार सुनिश्चित किया तथा मानक कारगुजारी व वादों के निस्तारण में प्रगति सुनिश्चित किया जाए। नए प्रसार के तीन गांव की कार्ययोजना दो दिवस के अंदर तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान चकबंदी प्राधिकारियों को मौके पर जाकर लोगों की चकबंदी से संबंधित समस्याओं को सुनकर निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि

चकबंदी कार्यों को समय से संपादित किया जाए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में चकबंदी के मामलों में प्रभावी पैरवी की जाय। बैटक में धारा-9, धारा-10 एवं धारा-10 की प्रगति में धारा-9, धारा-10 एवं धारा-10 की प्रगति में धारा-9, धारा-10 के उपसंचालक चकबंदी धनराज यादव, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सचेंद्र कुमार सिंह व नरेंद्र सिंह सहित विभागा के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे।

### डीएम से अवगत कराए समस्याएं : बीएन पांडेय

**बलिया।** भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सेवा निवृत्त कर्मचारी व अधिकारी समन्य समिति द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित पेंशनर भवन में शुक्रवार की दोपहर एक बजे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई। सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कोषाधिकारी ने आश्वासन दिया कि पेंशनरों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा तथा पेंशनरों को परिचय पत्र भी दिया जाएगा। इस दौरान अध्यक्षता कर रहे बीएन पांडेय ने अपील किया कि आगामी 17 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में पेंशनर गंगा बहुज्येश्वरी सभागार में उपस्थित होकर अपनी-अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराएं।

## बाबा साहब समानता के भी थे पक्षधर: महेंद्र कुमार

### आर्थिक सुधारों में भी था बाबा साहब का योगदान : संजय राय

### बाबा साहब की दूरदृष्टि का परिणाम है लोकतंत्र : डॉ. विनोद कुमार सिंह

### पीयू में महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबासाहब को दी गई श्रद्धांजलि

### अवधनामा संवाददाता

**जौनपुर।** वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ शुक्रवार को मनाया गया। यह कार्यक्रम बाबा साहब के विचारों और उनके सामाजिक योगदान को याद करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके की गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव महेंद्र कुमार ने बाबा साहब के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे केवल भारत के संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि



सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने अपनी शिक्षा और विचारों से एक नए समाज की नींव रखी, जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके। वित्त अधिकारी संजय कुमार राय ने बाबा साहब के आदर्शों और उनके आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि बाबा साहब ने सामाजिक समरसता के लिए आर्थिक सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण बताया था। राय ने कहा कि विश्वविद्यालय परिवार को उनके दिखाए गए पर चलकर शिक्षा और समाज सुधार में योगदान देना चाहिए। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बाबा साहब के व्यक्तित्व और उनके संघर्षों का याद करते हुए कहा कि वे अपने समय

के सबसे बड़े विचारकों में से एक थे। उन्होंने कहा कि आज हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, वह बाबा साहब की दूरदृष्टि का परिणाम है। डॉ. सिंह ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर यह भी निर्णय लिया गया कि बाबा साहब के विचारों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए नियमित रूप से सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। यह आयोजन विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। बाबा साहब

का परिवार दिवस सभी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बना। इस अवसर पर उप कुलसचिव बनीता सिंह, अमृतलाल, प्रो. बी. डी. शर्मा, प्रो. गिरिधर मिश्र, डॉ. रसिकेस, डॉ. अमरेंद्र सिंह, डॉ. धीरेंद्र चौधरी, डॉ. मंगला प्रसाद, डॉ. इंद्रजीत, डॉ. राजित राम, राज नारायण सिंह, डॉ. प्रमोद कुमार कौशिक, शील निधि सहित लोग उपस्थित रहे। इसी क्रम में दत्तोपंत गेंगड़ी विधि संस्थान में एक गरिमायम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्थान के मूट कोर्ट हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें डॉ. अंबेडकर के विचारों और योगदान को याद करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक डॉ. देवराज सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर निदेशक प्रोफेसर देवराज सिंह, डॉक्टर वनिता सिंह, डॉ. अनुराग मिश्र, डॉ. प्रियंका कुमारी, डॉ. राहुल राय, डॉ. अंकित कुमार, डॉ. प्रमोद कुमार, डॉ. रजित राम सोनकर, डॉ. इंद्रजीत कुमार, डॉ. दिनेश सिंह, श्री प्रकाश यादव, मंगला प्रसाद यादव, डॉ. राजन तिवारी, प्रगति सिंह, सूरज सुनकर, जीशान अली, डॉ. शुभम सिंह सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे।

## शंकराचार्य शिविर का हुआ भूमिपूजन

### अवधनामा संवाददाता

**प्रयागराज।** आज मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के अवसर पर आगामी महाकुंभ के लिए प्रातः शुभ मुहूर्त में गंगा प्रसाद शुक्ल के आचार्यत्व में इक्कीस अन्य ब्राह्मणों द्वारा मारी मार्ग के दक्षिण पट्टी में आदिशंकराचार्य भगवान द्वारा स्थापित चार आनाय शंकर पीठ में से ज्योतिष्पीठ और द्वाकापीठ के शिविर में भूमि पूजन ब्रह्मचारी शंकर स्वरूप के द्वारा सम्पन्न हुआ। द्वाका शारदापीठ के शिविर प्रभारी महंत श्रीधरानन्द ब्रह्मचारी ने बताया की आज उत्तम मुहूर्त में पूजा करके कार्य आरम्भ कर दिया गया है। द्वाकापीठ के शिविर में पूरे पर्व के दौरान अनेकों धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन होंगे। पूज्यपाद द्वाका शारदा पीठधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानन्द सरस्वती जी महाराज के दर्शन का लाभ सबको मिलेगा। ज्योतिष्पीठ शिविर के कुम्भ मेला प्रभारी मुकुन्दानन्द ब्रह्मचारी ने बताया कि 100 करोड़ से अधिक सनातन धर्मियों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है, इस महापर्व पर परमाध्य

परमधर्माधीश उत्तरामनाथ ज्योतिष्पीठधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामीश्री अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती 1008 जी महाराज के सान्निध्य पूरे मास धार्मिक विषयों पर निर्णय हेतु परमधर्मसंसद के अनेकों सत्र होंगे। जिसमें सभी धार्मिक समसामयिक विषयों पर शंकराचार्य जी महाराज अपना निर्णय सुनाएंगे। भूमिपूजन के कार्यक्रम में स्वामी विद्याचैतन्य जी, स्वामी विचित्रानन्द जी, अपर मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी, उप मेलाधिकारी श्री विवेक शुक्ल जी, संजय मगमाई जौनल अधिकारी, लकीकुश महाराज, देवेन्द्र त्रिपाठी पीलीकोठी, अवधेश त्रिपाठी, अनूप त्रिपाठी रईस चंद्र शुक्ला, रवि उपाध्याय, आलोक पांडे रघुनाथ द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्याकांत पाण्डेय, संजय मिश्र, राम सजीवन शुक्ल, पशुपतिनाथ पंडा, नीरज शुक्ला एडवोकेट देवान तिवारी, आर्यशेखर, विकास दुबे राजेश मिश्रा, उदित त्रिपाठी, सोमजी शास्त्री रश्मिमेध मंदिर आदि अनेकों भक्तजन उपस्थित रहे।

## रीवा के जिला जज के पति पर जानलेवा हमला

### अवधनामा संवाददाता

**प्रयागराज।** रीवा में तैनात जिला जज के पति पर बीती रात जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने उनके ऊपर धारदार से हथियार से हमला किया। उनके गाड़ी और जो तीन लोगों के आ जाने के कारण बरदाश घमकी देते हुए भाग निकला। भुक्तभोगी ने घटना की तहरीर औद्योगिक थाना क्षेत्र में दी है। रामानंद नगर अरुलपुर प्रयागराज निवासी मनोज कुमार गुप्ता पुत्र शिवराम गुप्ता की इंडिस्ट्रियल एरिया नैनी प्रयागराज में फैंकट्री है। तहरीर के अनुसार वह प्रयागराज सिटी से अपने फैंकट्री पर रात 10:50 मिनट पर फैंकट्री आये। मनोज के अनुसार गाड़ी में खुद ही चल रहा था। जैसे ही गाड़ी गेट पर रोका तभी मेरे फैंकट्री का गेट खोलकर चौकीदार राजेश मिश्रा पुत्र सुंदर मिश्रा निवासी लवायन खुर्द चटकहना नैनी प्रयागराज बाहर आया। तभी अचानक से हमारे ऊपर धारदार हथियार से हमला हुआ, और गाली देने लगा जान से मारने की कोशिश की गई तभी मेरे चौकीदार के द्वारा रोकने की कोशिश



की गई तो हमलावर ने असलहा निकाल लिया और बोला भाग जाओ नहीं तो तुमको भी गोली मार देंगे। तभी चौकीदार अंदर की तरफ भागा। उस समय मैं अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। जो की रीवा जिले में बतौर जिला जज कार्यरत हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन है तभी मैंने देखा और हमलावर मुझे गाड़ी से बाहर निकालने के लिए बोल रहा था और कह रहा था कि औद्योगिक थाने के सामने वाली जमीन पर दोबारा गए तो तुमको वहीं गोली मारेंगे। तभी मेरा चौकीदार दो और लोगों को लेकर बाहर आया और बोला मारो इसको तो वह बरदाश होरो एचएफ डीलक्स बाइक से भाग

निकला। गाड़ी के नंबर प्लेट पर सिर्फ पी शब्द लिखा था। मनोज ने यह भी लिखा है कि मेरे द्वारा इस घटना से पूर्व भी थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज में 15 अक्टूबर को प्राथमिक तौर दिया गया था पर उसे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके पहले भी हमलावरों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है जिसका वीडियो भी उपलब्ध है। उसी वीडियो में मेरे पिताजी का नाम और मेरी पत्नी जो की इस संबंध में उनका कोई लेना-देना नहीं है जो रीवा जिले में बतौर जिला जज कार्यरत हैं। इस वीडियो में अमित शुक्ला पुत्र शंभु नाथ शुक्ला निवासी सी बाई जॉर्ज टाउन चिंतामणि रोड प्रयागराज द्वारा खुली धमकी दी जा रही है। इनको यहां के लोकल निवासी संदीप मिश्रा और सोनू मिश्रा व उनके भाई संजय मिश्रा द्वारा पूरा सह व सहयोग दिया जा रहा है। जिसके कारण मुझे जान से मारने की धमकी व प्रयास किया जा रहा है। अमित शुक्ला ने यह भी कहा कि अगर थाने में या किसी भी तरह की शिकायत की तो इस बार जान देकर कीमत चुकानी होगी।

## सपा के विधायक, नेता व कार्यकर्ताओं ने मलार्पण कर दी श्रद्धांजलि

### अवधनामा संवाददाता

**आजमगढ़।** जनपद पर समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उजके मूर्ति पर सपा के विधायक, नेता व कार्यकर्ताओं ने मलार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। पार्क में ही उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातिध अनुसूचित जनजाति बैसिक शिक्षक कल्याण समिति द्वारा आयोजित विषयक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दर्शन एवं भारतीय संविधान विषय गोष्ठी में सम्मिलित होकर बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता- लालचंद व संचालन-राम भवन ने किया गोष्ठी में माननीय- विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि बाबा साहब बहुत आगामी व्यक्तित्व के धनी थे देश की आजादी की लड़ाई के साथ-साथ उन्होंने सामाजिक, आर्थिक लड़ाई लड़ी। विधायक- अखिलेश



यादव, बेचई सरोज ने बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो आज गरीब का बेटा विचारक और संघर्ष नहीं बन पाता। समाजवादी विचारक जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि बाबा साहब का जीवन मजदूर, गरीबों, मजदूरों के लिए प्रेरणा स्रोत था। उन्होंने 85 प्रतिशत जनता के हक और अधिकार के लिए लड़कर, संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त किया। संविधान में उन्होंने गरीबों, मजदूरों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यक के लोगों के लिए उन्होंने विशेष प्रावधान किया जिसके बदलेत आज दलित का बेटा सांसद और विधायक बनता है बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान

कर सबको समान करने का प्रावधान किया। पंचम बाबू ने बाबा साहब के बारे में कहा कि हम बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व के बताए हुए रास्ते को लेकर गांव गांव जाएं जिससे जनता जागरूक होगी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष- हवलदार यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। मौजूदा भाजपा की सरकार संविधान व लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता जुल्म, अन्याय कर रहे लोगों के खिलाफ खड़े होकर गरीबों के पक्ष में न्याय दिलाने का काम करें।

## मनाई गई बाबा साहब अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस

### अवधनामा संवाददाता

**बलिया।** कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संस्थान में शुक्रवार की दोपहर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मौजूद लोगों ने बाबा साहब को याद किया। इस दौरान लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर संस्थान में स्थापित बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा सहित अन्य प्रतिमाओं पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित कर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वक्तकों ने बाबा साहब के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। नृजेश ने कहा कि बाबा साहब आजीवन दबे कुचले समाज के लिए, सर्व समाज के लिए खासकर महिलाओं के उथान के लिए प्रयत्नशील रहे। मानवता की क्या पहचान, मानव-मानव एक समान- यह बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब समात्मूलक समाज की



स्थापना करना चाहते थे। जिसे हमें पूरा करना है। कहा कि पूरे देश में जो छुआछूत, अमीरी-गरीबी को बाबा साहब मिटाना चाहते थे। सभी को बराबरी में लाना चाहते थे। बाबा साहब की देन है कि आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रहीं हैं। डा.बिकल जी ने कहा कि बाबा साहब समता, स्वतंत्रता, न्याय, बहुता अवसर की समानता पर राष्ट्र और समाज का निर्माण करना चाहते थे। वह अभी अधूरा है। बाबा साहब के बताये गये रास्ते पर चलना तथा उनके सपने को पूरा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

## लखनऊ नगर निगम, लखनऊ

लालबाग, टी0एन0रोड, लखनऊ-226001 (30प्र0)  
फोन-फैक्स: 0522-2612639, ई-मेल- nlnko@up.nic.in

पत्र सं.: 176/मु.अ./24-25 अति अल्पकालीन निविदा सूचना दिनांक : 05.12.2024

नगर निगम लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु दिनांक 18.12.2024 को महारबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रकरण दिनांक 17.12.2024 तक अपराह्न 02 बजे तक कार्यालय दिवस व अवधि में फर्म कोपर कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं मुख्य विद्युत एवं लेखाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है या नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा दिनांक 18.12.2024 को अपराह्न 3:00 बजे तक जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय एवं मण्डलालय, लखनऊ के कार्यालय कक्ष में तथा मुख्य अभियंता के कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बाक्स में डाली जा सकती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 18.12.2024 को अपराह्न 4:00 बजे मुख्य अभियंता के समक्ष खोला जायेगा। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा आगले कार्यदिवस को डाली एवं खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार समक्ष अधिकारी में निहित होगा। पंवर कार्य हेतु निविदादाता के पास स्वयं का कम्प्यूटराइज हाट मिक्स प्लान्ट व ब्राइडवैर होना आवश्यक है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	आगमन धनराशि रु. में	घरोहर धनराशि रु. में	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा का मूल्य	जी.एच.टी. 18 प्रतिशत	शुद्ध निविदा शुल्क
1	गुरुनानक नगर चन्द्र नगर सर्विस लेन में ओ.जी. फिटनेश के बगल से नटखेड़ा रोड तक सी.सी. सड़क व नाली का नवनिर्माण कार्य।	7955335	79554	02 माह	796	144	940
2	गुरुनानक नगर विश्वेश्वर नगर में प्रमोद वर्मा के घर से कमलेश सोनकर के घर तक नाली व इंटरलाकिंग का पुर्ननिर्माण कार्य।	436867	43687	02 माह	437	79	516
3	गुरुनानक नगर जय प्रकाश नगर में नमो नारायण मंदिर से ओम प्रकाश के घर तक एच जे.के. पुरोथी के घर के सामने वाली सड़क का पुर्ननिर्माण कार्य।	840184	84019	02 माह	841	152	993
4	गुरुनानक नगर विश्वेश्वर नगर में रति ब्यूटी पार्लर से चन्द्रशेखर के घर होते हुए रेखा भट्टनगर के घर तक एवं अमर नाथ त्रिपाठी के बगल वाली सड़क पर नाली व इंटरलाकिंग का पुर्ननिर्माण कार्य।	717884	71790	02 माह	718	130	848
5	गुरुनानक नगर विश्वेश्वर नगर में मोला डेयरी से आर.के. सिंह घर व शिव जायसवाल के घर के सामने नाली व इंटरलाकिंग का पुर्ननिर्माण कार्य।	845010	84502	02 माह	845	153	998
6	गुरुनानक नगर स्नेह नगर में गीता यादव के घर से सत्य प्रकाश के घर तक एवं संजय अवरथी के सामने सड़क एवं नाली का पुर्ननिर्माण कार्य।	457318	45732	02 माह	458	83	541
7	गुरुनानक नगर विश्वेश्वर नगर में जंगलेश्वर शिव मंदिर से विजय गुप्ता जी के घर तक नाली व इंटरलाकिंग का पुर्ननिर्माण कार्य।	698637	69865	02 माह	699	126	825
8	गुरुनानक नगर प्रेमनगर में आरती मिश्रा के घर के सामने नाली व इंटरलाकिंग का नवनिर्माण कार्य।	164315	14632	02 माह	165	30	195
9	गुरुनानक नगर स्नेह नगर में शिव कृपा मैरिज हाल से वर्मा जी के घर तक इंटरलाकिंग सड़क का नवनिर्माण।	467361	46737	02 माह	468	85	553
10	रामजीलाल सरदार पटेल नगर मंगल खेड़ा में श्री पप्पु पाल के मकान से लेकर श्री उमेश कुमार वर्मा के मकान से होते हुए अनूप प्रकाश के मकान तक हयूम पाइप व नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	822001	82201	02 माह	823	149	972
11	रामजीलाल सरदार पटेल नगर हरिहर प्रसाद नगर में सरवन पाण्डेय के मकान से हरिशचन्द्र मिश्रा के मकान व रेखा श्रीवास्तव के मकान से बांके लाल वर्मा के मकान तक एवं श्रीनगर में आर.एस. तिवारी के मकान से लेकर हेमलता के मकान व मंगल खेड़ा में शुक्ला भवन से सुरेश यादव के मकान तक हयूम पाइप व नाली व इंटरलाकिंग रोड का पुर्ननिर्माण कार्य।	744378	74438	02 माह	745	135	880
12	रामजीलाल सरदार पटेल नगर अमरुदहीबाग में श्री संजय कुमार गुप्ता के दरवाजे से श्री विभोरा पाल के मकान तक हयूम पाइप व नाली व इंटरलाकिंग एवं सी0सी0 रोड का पुर्ननिर्माण कार्य।	723167	72317	02 माह	724	131	855
13	गुरुगोविन्द सिंह अर्जुन नगर में दुर्गा मंदिर के सामने साइड पटरी की नाली व सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य।	217110	21711	02 माह	218	40	258
14	बाबू कृष्ण विहारी ओमनगर टाल पर व पवनपुरी पुलिसिया पर 300एमएम डायम भूमिगत पाइप लाइन डालने व पम्प को रखने हेतु चबूतरा व टिन शेड का निर्माण कार्य।	836700	83670	02 माह	837	151	988
15	बाबू कृष्ण विहारी ओमनगर पवनपुरी पुलिसिया पर जल निकासी हेतु डिवायलिंग पम्प स्थापित किये जाने का कार्य।	845000	84500	02 माह	845	153	998
16	केसरीखेड़ा खुशी विहार में श्री राजीव के घर के पास सी0सी0 सड़क व नाली का पुर्ननिर्माण कार्य।	172896	17290	02 माह	173	32	205
17	केसरीखेड़ा केसरीखेड़ा में श्री शिव नरायण के घर के पास इंटरलाकिंग सड़क का नवनिर्माण कार्य।	343710	34371	02 माह	344	62	406
18	सरोजनी नगर प्रथम अमौरी में डा0 भीमराव अम्बेडकर मूर्ति स्थल पर सौन्दर्यीकरण का कार्य।	320694	32070	02 माह	321	58	379
19	सरोजनी नगर द्वितीय रूस्तम विहार में तपोवन नगर बँधवा तालाब छूट पूजा घाट के नये घाट और सौन्दर्यीकरण का कार्य	589711	58972	02 माह	590	107	697
20	गीतापाल्सी साकेतपुरी में तुलसा देवी संस्थान की गली से हरितानापुर तिहाड़े होते हुए छूट पूजा स्थल तक खुले एवं बन्द नाले की सफाई का कार्य।	836312	83632	02 माह	837	151	988
21	गुरुगोविन्द सिंह चारबाग से के.के.सी. के सामने मुख्य नाले की मरम्मत का कार्य।	564171	56418	02 माह	565	102	667
22	गुरुगोविन्द सिंह चारबाग में अभियन्त्रण विभाग व स्वास्थ्य विभाग की सामग्री रखने हेतु स्टोर रूम का निर्माण कार्य।	602254	60226	02 माह	603	109	712

**शर्तें**

<

# धीमी जीडीपी वृद्धि पर बोलीं वित्त मंत्री सीतारमण, कहा- तीसरी तिमाही में होगी मंदी की भरपाई

नई दिल्ली। आम चुनाव और पूंजीगत व्यय में कमी की वजह से पहली तिमाही में विकास की गति कम रही। इसका असर दूसरी तिमाही पर भी पड़ा है। पहली छमाही में, सरकार ने वित्त वर्ष 25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये के अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्य का केवल 37.3 प्रतिशत खर्च किया। अब इस सुस्ती पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने क्या-क्या कहा आइए जानें।

सितंबर तिमाही में जीडीपी में मंदी व्यवस्थित नहीं थी और तीसरी तिमाही में बेहतर सार्वजनिक व्यय के साथ आर्थिक गतिविधि मंदी की भरपाई कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यह बात कही। भारत ने जुलाई-सितंबर वित्त वर्ष 25 में 5.4 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर्ज की, जो सात

तिमाहियों में सबसे कम थी। पहली तिमाही में वृद्धि 6.7 प्रतिशत थी।



जो जरूरी नहीं कि बुरी तरह प्रभावित हो। हमें कई अन्य कारकों पर जोर देने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अगले साल और उसके बाद भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आम चुनाव और पूंजीगत व्यय में कमी की वजह से पहली तिमाही में

विकास की गति कम रही। इसका असर दूसरी तिमाही पर भी पड़ा है।

को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत करने के कुछ ही देर बाद आई। सीतारमण ने कहा कि विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में वैश्विक मांग में स्थिरता शामिल है, जिसे निर्यात वृद्धि को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, भारतीयों की क्रय शक्ति में सुधार हो रहा है, लेकिन भारत में, आपको पर्याप्त वेतन की भी चिंता करनी होती है। हम इन कारकों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिनका भारत की अपनी खपत पर असर हो सकता है।

वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 24 के लिए अपने आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5-7 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था। उन्होंने कहा, हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हर चुनौती में अवसर तलाशता है।

वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 24 के लिए अपने आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5-7 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था। उन्होंने कहा, हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हर चुनौती में अवसर तलाशता है।

## सैमसंग ई.डी.जी.ई. सीजन 9 के विजेताओं ने जेन जेड की सोच और जियो टारगेटिंग में नवाचार से तकनीकी समाधानों की पेश की नई दिशा!

गुरुग्राम। भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने अपने प्रतिष्ठित वार्षिक कैम्पस प्रोग्रामसैमसंग ई.डी.जी.ई. के नौवें संस्करण के विजेताओं की घोषणा कर दी है। यह प्रोग्राम युवाओं को उनके व्यावसायिक कौशल, रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता को दिखाने का शानदार मंच प्रदान करता है।

इस साल के संस्करण में भारत के 40 प्रतिष्ठित संस्थानों से 15,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इनमें बी-स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज और डिजाइन स्कूल के प्रतिभाशाली छात्र शामिल थे। ये सभी युवा प्रतिभागी नवाचार और सहयोग की भावना के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन करते नजर आए। प्रोग्राम में आयोजित फिनले में सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और सीईओ जेबी पार्क सहित सैमसंग इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यह आयोजन सैमसंग के लिए नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और भविष्य के लीडर्स को

समर्थन देने का प्रतीक बना। सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और सीईओ जेबी पार्क ने कहा, सैमसंग में नवाचार हमारे हर काम की बुनियाद है। सैमसंग ई.डी.जी.ई. कार्यक्रम ने कई सालों से विद्यार्थियों को सशक्त बनाते हुए उन्हें अपनी रचनात्मकता और इनोवेटिव आइडियाज दिखाने का मंच दिया है। इस साल की जबरदस्त भागीदारी और उत्साह देखकर हम बेहद खुश हैं। यह प्रेरणादायक है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और कैम्पसों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खासतौर से युवाओं में नवाचार और रचनात्मकता को हल करने की उनकी लगन देखकर काफी अच्छे लगा।

इस सालएसएलआरआई जमशेदपुरकी टीमअरएसपीने राष्ट्रीय विजेता का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने उपभोक्ताओं से जुड़ाव बढ़ाने के लिए अपनी अद्विती रणनीति के जरिए जूरी का दिल जीत लिया। टीम ने ब्रांड मैस्कोट्स, जियो-टारगेटिंग, जेन एमजेड हॉटसॉट टैगिंग और मॉल

एक्टिवेशन जैसे इनोवेटिव तरीकों का सुझाव दिया। इन विचारों का मकसद उपभोक्ताओं के साथ मजबूत जुड़ाव बनाना और उन्हें स्थानीय व व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से जोड़ना था। टीम सदस्यों प्रॉजिल भाटिया, पिद्दार्थ द्विवेदी और रोहन भारद्वाज को 4.5 लाख का नकद पुरस्कार, सैमसंग के प्लेनशिप स्मार्टफोन्स और प्री-एलमेंट ऑफर्स से सम्मानित किया गया।

कसएलआरआई जमशेदपुर की टीमचेबी67 ने प्रथम उप-विजेता का स्थान हासिल किया। उनकी रणनीति स्मार्ट होम मार्केट पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम बनाने का सुझाव दिया जो पूरी तरह से आपस में जुड़ा हुआ और भविष्य के लिए तैयार हो। यह इकोसिस्टम ग्राहकों को खरीदारी के हर कदम पर मार्गदर्शन करते हुए उनका अनुभव बेहतर बनाने पर केंद्रित था। टीम मेंअपूर्वा मित्तल, चयन बनर्जी, औरशुभम त्रिपाठीशामिल थे। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए 3 लाख रूपएका नकद पुरस्कार दिया गया।

## टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हॉर्नबिल संगीत महोत्सव 2024 मनाने के लिए लगातार तीसरे साल गठजोड़ किया

नगालैंड। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों में से एक, हॉर्नबिल संगीत समारोह के साथ अपने निरंतर सहयोग की घोषणा की। लगातार तीसरे साल यह गठजोड़ इस आयोजन के मुख्य प्रायोजक (टाइटल स्पॉन्सरशिप) के रूप में है। नगालैंड के कोहिमा जिला स्थित नगा हेरिटेज विलेज, किसामा में आयोजित यह उत्सव दो से 10 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान जापान के मशहूर ड्रम समूह, ड्रम ताओ द्वारा एक विशेष उद्घाटन कार्यक्रम सहित अन्य रोमांचक प्रदर्शन होंगे। यह अनूठे गठजोड़ पारंपरिक और समकालीन संगीत अनुभवों को एक साथ लाता है, जो एक गहरे सांस्कृतिक बंधन को प्रदर्शित करता है। हॉर्नबिल संगीत समारोह के साथ चला रही टीकेएम की साझेदारी नगालैंड और पूर्वोत्तर के लोगों के साथ कंपनी के गहरे संबंधों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए

समर्थन को दर्शाती है। हॉर्नबिल संगीत महोत्सव का उद्घाटन इस साल टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) के वरिष्ठ नेतृत्व की उपस्थिति में हुआ। इनमें टीकेएम और टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट्स (टीकेपी) की वाइस प्रेसिडेंट सुश्री मानसी टाटा, टीकेएम और लेक्सस में बिक्री, सेवा और प्रयुक्त कारों के लिए उप प्रबंध निदेशक श्री तादाशी असाजुमा और कंट्री हेड तथा एकजीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्री विक्रम गुलाटी शामिल थे। इस कार्यक्रम में टीकेएम के मूल्यवान व्यावसायिक सहयोगियों की उपस्थिति भी देखी गई - ओकुसा टोयोटा के प्रबंध निदेशक श्री वाई विखेडो स्कु टोयोटा ट्सुओ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री नोबुआकी याहिरो; टोयोटा ट्सुओ इंग्लैंड ब्रोकर्स इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री ताकायुकी उयदा; सुमितोमो कॉर्पोरेशन ऑटोमोटिव

सेल एवं मार्केटिंग एसबीयू के महाप्रबंधक, श्री शिन्या वताने, डैगो इंटरनेशनल इंडिया के उप प्रबंध निदेशक और टोयोटा इंडस्ट्रीज इंडन इंडिया के प्रबंध समन्वयक श्री केइटारो असानो शामिल हैं। इस आयोजन में अपनी सक्रिय भागीदारी के एक हिस्से के रूप में, टीकेएम ने हॉर्नबिल संगीत महोत्सव में एक आकर्षक कार मंडप स्थापित किया है, जिसमें इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाइक्रॉस (हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन), प्रॉन्डूर, रलैजा, अर्बन क्रूजर हाइड्रिड, अर्बन क्रूजर टैसर, रमियन, कैमरी, हाइलक्स और वेल्फायर सहित इसके विभिन्न लोकप्रिय मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। टीकेएम पूर्वोत्तर में गहराई से जुड़ा हुआ है और अपने विश्वस्तरीय उद्योगों तथा असाधारण सेवाओं के साथ ग्राहकों के अनुभवों को बेहतर बनाने और क्षेत्र के ऑटोमोटिव परिदृश्य को आकार देने के लिए एक मजबूत

प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। वर्तमान में, टीकेएम ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 39 टचपॉइंट स्थापित किए हैं और क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार करना जारी रखेगा। यह पूर्वोत्तर में टोयोटा ग्राहकों के लिए कुशल, सुलभ और समृद्ध स्वामित्व अनुभव प्रदान करने के लिए कंपनी के ग्राहक केंद्रित फोकस को रेखांकित करता है। हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल 2024 के साथ टीकेएम के सहयोग के बारे में बताते हुए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस-सर्विस-यूड कार बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट श्री स्वामी मनोहर ने कहा, "हम लगातार तीसरे साल प्रतिष्ठित हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल के साथ अपनी साझेदारी जारी रखते हुए रोमांचित हैं। यह सहयोग नगालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करने की हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

## ऑलर मुक्त कारोबार की कोई योजना नहीं, दास बोले- सिर्फ व्यापार को जोखिम मुक्त करने पर हमारा ध्यान

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार बताया कि भारत की अपने व्यापार को डॉलर मुक्त करने की कोई योजना नहीं है और वह केवल अन्य तरीकों से जोखिम कम करने पर विचार कर रहा है। वह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी से संबंधित उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि यदि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर से दूर जाने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें 100 प्रतिशत टैरिफ वारु का सामना करना पड़ेगा। दास ने यहां केंद्रीय बैंक मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, जहां तक भारत का सवाल है, हमने डॉलर को समाप्त करने आदि के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। ब्रिक्स मुद्रा के बारे में उन्होंने कहा कि यह विचार समूह के एक सदस्य की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत,

चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस पर कुछ चर्चाओं के अलावा कोई गणति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश विश्व भर में फैले हुए हैं। उन्होंने बताया कि आपसी निकटता ने यूरोपीय संघ के लिए एकल मुद्रा की सफलता में मदद की है।

दास ने कहा कि भारत के प्रयास वास्तु में को अनुमति देने और स्थानीय मुद्रा में व्यापार लेनदेन निपटाने के लिए दो देशों के साथ समझौते करने तक सीमित हैं। उन्होंने कहा, इसका मूलतः उद्देश्य हमारे व्यापार के जोखिम को कम करना है। एक मुद्रा पर निर्भरता कभी-कभी मूल्यवृद्धि या मूल्यहास के कारण समस्या का कारण बन सकती है। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य डॉलर मुक्त कारोबार करना नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन ही नहीं है।

## इसुजु मोटर्स इंडिया भारत में 'इसुजु आई-केयर विंटर कैम्प' का आयोजन कर रहा है



लखनऊ। इसुजु मोटर्स इंडिया ने वाहन स्वामित्व का बेहतरीन और अतुलनीय अनुभव प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ पूरे देश में 'इसुजु आई केयर विंटर कैम्प' की घोषणा की है। इसुजु डी-मैक्स पिक-अप और स्टूक के लिए डिजाइन किए गये ये शिविर पूरे देश में इसुजु वाहन मालिकों को आकर्षक लाभ और प्रिवेंटिव मटेनेंस जांच प्रदान करेंगे। 'इसुजु केयर' द्वारा 09 से 14 दिसंबर 2024 (ये दोनों दिन भी शामिल) के बीच सभी अधिकृत इसुजु डीलर सर्विस आउटलेट्स पर विंटर कैम्प लगाया जा रहा है। इस अवधि में ग्राहकों को उनके वाहनों के लिए विशेष ऑफर और लाभ दिये जा रहे हैं।


'विंटर कैम्प' अहमदाबाद, बारामूला, बंगलुरु, भांडुप (मुंबई), कार्लीकट, चेन्नई, कोयंबतूर, दीमापुर, गांधीघाम, गोरखपुर, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हिसार, हुबली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जयगांव, जम्मू, जालंधर, जोधपुर, करनाल, कोच्चि, कोल्हापुर, कोलकाता, कुरुनूल, लखनऊ, एलबी नगर (हैदराबाद), लेह, मद्राई, मैंगलोर, मेहसाणा, मोहाली, मुंबई, मैसूर, नागपुर, नासिक, नई दिल्ली, नोएडा, नैबेर, पुणे, रायपुर, रत्नागिरी, राजामुंदरी, राजकोट, सतारा, शिवमोगा, सिलीगुड़ी, सोलापुर, सूरत, तिरुनेलवेली, तिरुपति, त्रिवेंद्रम, वडोदरा, विजयवाड़ा, और विशेषाखतमन में इसुजु के अधिकृत सर्विस केंद्रों में लगाये जाएँ।

## टेकनो फैटम वी2 सीरीज़: प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और स्टाइल में सबसे आगे

फैटम वी फोल्ड 2 और पिलप 2 क्रमशः 79,999 रुपए और 34,999 रुपए की शुरुआती कीमतों पर उपलब्ध

टेकनो ने फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में अपना प्रमुख स्थापित करने के लिए फैटम वी2 सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें फैटम वी फोल्ड 2 और फैटम वी पिलप 2 शामिल हैं। यह क्रॉनिकारी सीरीज उन यूजर्स के लिए बनाई गई है, जो सबसे अलग दिखना पसंद करते हैं और जो अत्याधुनिक टेकनोलॉजी, बेहतरीन मजबूती और स्लीक डिजाइन वाले स्मार्टफोन्स चाहते हैं। यह सीरीज कभी-भी और कहीं-भी प्रोडक्टिविटी तथा क्रिएटिविटी होने को पुनः परिभाषित करती है। फैटम वी सीरीज के पहले संस्करण पर यूजर्स से मिली प्रतिक्रिया और सीरीज का टिकाऊपन, डिस्प्ले, बैटरी और समग्र

## डिजाइन और उन्नत एआई-पॉवर्ड टूल्स हैं, जो रोजमर्रा के अनुभवों को बेहतर बनाने का काम करते हैं। चाहे काम का बहुत प्रेशर हो, क्रिएटिविटी बढ़ाना हो, या फिर इमर्सिव मनोरंजन का आनंद लेना हो, ये दोनों ही फोन्स तेजी से काम करने वाली डिवाइसेस की मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। टेकनो मोबाइल इंडिया के सीईओ, अरिजीत तलापात्रा ने कहा, अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन के साथ, टेकनो ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मजबूती और नवाचार को परिभाषित किया है। ये डिवाइसेस सिर्फ टिकाऊ ही नहीं हैं, बल्कि बॉर्न टू डोमिनेट भी हैं, जो यूजर्स को बेजोड़ विश्वसनीयता, अत्याधुनिक तकनीक और एक ऐसी डिजाइन प्रदान करते हैं और फोल्डेबल युग में इन्हें सबसे अलग स्थान देते हैं। फैटम वी2 सीरीज अद्वितीय मल्टीटास्किंग, जीवंत डिस्प्ले और बैटरी लाइफ तथा स्मार्ट, स्लीक और पोर्टेबल डिजाइन के साथ आती है। हमें गर्व है कि हम एक ऐसा फोल्डेबल स्मार्टफोन पेश



कर रहे हैं, जो मजबूती को फिर से परिभाषित करता है और परफॉर्मिस व स्टाइल के मामले में नए मानक स्थापित करता है, ताकि हमारे ग्राहक प्रीमियम मोबिलिटी के युग में सबसे आगे रह सकें। मजबूती के लिए किया गया डिजाइन फैटम वी फोल्ड 2 को लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया है। इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 और एयरोस्पेस-ग्रेड हिंस शामिल हैं, जिनका 400,000 से अधिक बार परीक्षण किया गया है। यह आपके व्यस्त जीवन के साथ बखूबी तालमेल बनाए रखता है, हर दिन मजबूत और आकर्षक बना रहता है, साथ ही हर एक टास्क के लिए तैयार रहता है। इसी तरह, फैटम वी पिलप 2 को आपके दिनभर के टास्कस को बखूबी संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। एयरोस्पेस-ग्रेड हिंज और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 8 के साथ, यह मजबूत और देखने में आकर्षक लगता है और प्रीमियम एहसास कराता है।

## अनुसंधान और नवाचार पर आधारित अग्रणी संस्थान, शूलिनी यूनिवर्सिटी, बीबीए, एमबीए और बीबीए जैसे जॉब-केंद्रित पाठ्यक्रमों से एकीकृत नए युग के डिग्री प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में सफलता के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना है। शैक्षणिक शिक्षा को व्यावसायिक जरूरतों से जोड़ते हुए, शूलिनी यूनिवर्सिटी का लक्ष्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में करियर के इच्छुक लोगों को तैयार करना है।अनुद्व247 के रिकलिंग और उच्च शिक्षा व्यवसाय के सीईओ बिमलजीत सिंह भसीन ने कहा, "शूलिनी यूनिवर्सिटी के साथ हमारी साझेदारी उच्च शिक्षा प्रदाताओं के साथ एडुडू के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें भारत में विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और रोजगार अवसर उपलब्ध करना शामिल है। यह सहयोग हमारे शिक्षार्थियों

# निसान ने चेन्नई, तमिलनाडु में अपने पहले अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र 'निसान एकेडमी'का उद्घाटन किया

चेन्नई। निसान मोटर इंडिया (एनएमआईपीएल) ने निसान एकेडमी के रूप में अपना पहला अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोलने का एलान किया है। यह एकेडमी चेन्नई स्थित अलायंस जेबी प्लांट में खोली गई है। एकेडमी के माध्यम से देशभर में निसान डीलरशिप एवं सर्विस स्टॉफ नेटवर्क का कौशल निखारा जाएगा और उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे ग्राहकों को अनूठे अनुभव देने की निसान की प्रतिबद्धता को मजबूती मिलेगी। निसान इंडिया ऑपरेशंस के प्रेसिडेंट एवं डीवीपी एएमआईईओ फ्रैंक टोरेस ने एकेडमी का उद्घाटन किया। 10,500 वर्ग फीट में बनी इस एकेडमी को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे निसान मोटर इंडिया डीलरशिप टीमों को सेल्स, टेक्निकल मटेनेंस और बॉडी शॉप सर्विस के मामलों में शीघ्र

स्तर का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

बेहतर निसान एकेडमी डीलरशिप टीमों को प्रशिक्षित करेगी, जिससे पूरे भारत में ग्राहकों को बेहतर अनुभव दिया जा सकेगा

वाहनों की रिपेयरिंग, जांच-पड़ताल और एग्रिगेट ओवरहॉलिंग (सामान्य रखरखाव) की हैड्स-ऑन ट्रेनिंग के लिए इस एकेडमी में एडवांस्ड मैकेनिकल वर्कशॉप की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, इसमें अत्याधुनिक बॉडी शॉप की व्यवस्था की गई है, जिसमें उन्नत

उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे रिपेयर एवं ज्यादा तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। यह एकेडमी



मटेनेंस की विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इस एकेडमी के माध्यम से निसान की डीलरशिप टीमों को व्यावहारिक एवं नए तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देशभर में निसान के नेटवर्क पर ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना है। इस एकेडमी में सालाना 1,000 से

के प्रेसिडेंट श्री फ्रैंक टोरेस ने कहा, 'चेन्नई में राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र निसान एकेडमी की स्थापना भारतीय ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा देने और इनोवेशन को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। डीलरशिप टीमों के विकास में निवेश करते हुए हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों को मिलने वाली सेवा की गुणवत्ता एवं उनका अनुभव अद्वितीय हो। इस प्रशिक्षण केंद्र से ग्राहकों के अनुभव एवं उनकी संतुष्टि के मामले में उत्कृष्टता के हमारे प्रयासों को मजबूत मिलेगा। निसान भारत में अपने परिचालन, डीलर्स, पार्ट्स एवं ग्राहकों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम इस साल निसान एक्स-ट्रेल और नई निसान मेनटाट की लॉन्चिंग के मौके पर पोषित की गई अपनी योजनाओं के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं।'

## शूलिनी यूनिवर्सिटी जॉब केंद्रित पाठ्यक्रमों के साथ एकीकृत नए युग के डिग्री प्रोग्राम शुरू करेगी

अनुसंधान और नवाचार पर आधारित अग्रणी संस्थान, शूलिनी यूनिवर्सिटी, बीबीए, एमबीए और बीबीए जैसे जॉब-केंद्रित पाठ्यक्रमों से एकीकृत नए युग के डिग्री प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में सफलता के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना है। शैक्षणिक शिक्षा को व्यावसायिक जरूरतों से जोड़ते हुए, शूलिनी यूनिवर्सिटी का लक्ष्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में करियर के इच्छुक लोगों को तैयार करना है।अनुद्व247 के रिकलिंग और उच्च शिक्षा व्यवसाय के सीईओ बिमलजीत सिंह भसीन ने कहा, "शूलिनी यूनिवर्सिटी के साथ हमारी साझेदारी उच्च शिक्षा प्रदाताओं के साथ एडुडू के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें भारत में विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और रोजगार अवसर उपलब्ध करना शामिल है। यह सहयोग हमारे शिक्षार्थियों



के लिए करियर के अवसरों को बढ़ाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे अपनी अकादमिक और करियर आकांक्षाओं में सफल हों। इस पहल के तहत, शूलिनी यूनिवर्सिटी अनुद्व247 के टेस्ट प्रिपरेशन और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के साथ एकीकृत प्रोग्राम शुरू करेगी, जो सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, शूलिनी यूनिवर्सिटी अनुद्व247 के व्यापक डिजिटल नेटवर्क और संसाधनों का उपयोग करके इन एकीकृत प्रोग्रामों को व्यापक रूप से प्रचारित करने की योजना बना रहा

है।इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट अशोक खोसला ने कहा, "हमें जॉब-केंद्रित और करियर-उन्मुख शिक्षा प्रोग्राम शुरू करते हुए खुशी हो रही है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे छात्र विभिन्न उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अनुद्व247 के साथ साझेदारी में प्रवेश परीक्षा की तैयारी और कौशल विकास प्रशिक्षण जैसे वैल्यू-ऐडेड सेवाओं के साथ, हमारा लक्ष्य छात्रों और नौकरी चाहने वालों के लिए एक अनूठे मूल्य प्रस्ताव तैयार करना और व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंच बनाना है।

## कुशीनगर में परिषदीय स्कूल के बच्चों से राशन ढुलाई का वीडियो वॉयरल



कोटेदार के यहां से राशन की बोरी उतारे बच्चे



ट्रेक्टर ट्राली पर राशन लादकर ले जाते बच्चे

वीडियो वॉयरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप

प्रधानाध्यापक से मांगा स्पष्टीकरण

मोतीचक के प्राथमिक/पूर्व मा.वि. लंगड़ी (सविलयन) का मामला

### अवधानामा ब्यूरो

**कुशीनगर।** परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन विद्यालयों में बच्चों से शिक्षकों द्वारा पढ़ाई के बजाय गैर कानूनी कार्य कराया जा रहा है।

ऐसा ही एक मामला कुशीनगर जिले के विकास खंड मोतीचक का है जहां एक कपोजित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों से एक

ट्रेक्टर ट्राली पर मिड डेमिल का राशन लदवाकर स्कूल ले जाने का वीडियो वॉयरल हो रहा है। वीडियो वॉयरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय लंगड़ी (सविलयन) क्षेत्र मोतीचक के प्रधानाध्यापक द्वारा उचित दर विक्रेता की दुकान पर दर्जनों की संख्या में बच्चों को भेजकर राशन मंगवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो एक सप्ताह पूर्व का

है। वायरल वीडियो 1 मिनट 58 सेकंड का है जिसमें अध्वनरत छोटे-छोटे बच्चों से कोटेदार की दुकान से 400 मीटर दूर विद्यालय तक प्रधानाध्यापक के द्वारा राशन ढुलाने का कार्य कराया जा रहा है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे मेहनत कराई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग जांच पड़ताल में जुट गया। मामले का वीडियो जब खंड शिक्षाधिकारी मोतीचक राजेश कुमार

प्रजापति को सज्जन में आया तो उन्होंने सम्बन्धित विद्यालय के खिलाफ जांच कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक सतवंत सिंह के खिलाफ पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है, सटीक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं समाजसेवी राजेश राव व अन्य ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की जांच करकर विद्यालय के प्रधानाचार्य पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

## ईवीएम वीवीपेट वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण



**अमेठी अवधानामा संवाददाता।** जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी निशा अनंत ने शुक्रवार को राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर परिसर में स्थित ईवीएम वीवीपेट वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया। उन्होंने गोदामों में रखी बीयू सीयू तथा वीवीपेट के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरा को भी देखा तथा गोदाम में लगी सिस्कोरिटी को 24 घंटे तैनात रहने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार वेयरहाउस में ईवीएम एवं वीवीपेट के सुरक्षित भंडारण एवं सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारी व निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे।

## श्रीमद्भागवत की कलश यात्रा में शामिल तमाम श्रद्धालु



**अमेठी अवधानामा संवाददाता।** क्षेत्र के कसारा गांव में शुक्रवार को श्रीमद्भागवत की भव्य कलश यात्रा निकली जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अभयराज मिश्र के आवास पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। जिसकी कलश यात्रा कथा स्थल से प्रारंभ होकर विभिन्न मंदिर होते हुए कालिक धाम पहुंची देवी देवताओं को कथा का आमंत्रण देते होते हुए पूजा बेदी मंडप पर सम्पन्न हुई। आज की कथा का प्रारंभ करते हुए कथा व्यास आचार्य देवव्रत महाराज ने समस्त देवी देवताओं की आराधना करते हुए भागवत भगवान की विशिष्ट आराधना की और भागवत कथा की विधि और महत्व बताया। भक्तों को कथा से परिचित कराते हुए बताया कि कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा होते हैं तब किसी भक्त को भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्होंने बड़े भाव से भक्तों के समक्ष कथा की महिमा का वर्णन किया कथा में मुख्य रूप से ज्ञान प्रकाश तिवारी जयप्रकाश दुबे अनिल त्रिपाठी संतोष कुमार मिश्र कामाख्या प्रसाद मिश्र विजय शंकर शुक्ला वंदना त्रिपाठी शयुज त्रिपाठी विवेकमणि शाहिद तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे।

## आम के दो हरे पेड़ काटने पर मुकदमा दर्ज

**अहिरौली बाजार, कुशीनगर अवधानामा संवाददाता।** अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोड्डा निवासी सोहन पुत्र रमेश राय के विरुद्ध वन विभाग के हाटा रेंज द्वारा हरा पेड़ काटने पर उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4, 10 व 14 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया है। उनके पास से 11 बोटा लकड़ी बरामद किया गया है। पेड़ काटे जाने की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची थी लकड़ी बरामद करने वाली टीम में टीम मे अनिल गौतम, वन दरोणा, शम्भू राजभर वन दक्षक व अन्य वनकर्मी शामिल थे। लकड़ी सीज कर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गए।

## पंचमी पर श्रीराम विवाह का हुआ आयोजन, निकली झाकियां



सीता और राम को आशीर्वाद देते चेररमैन व सभासद

### अवधानामा संवाददाता

**मथौली बाजार, कुशीनगर।** कच्चे के वार्ड नंबर 16 सरदार भल्लम भाई पटेल नगर स्थित राम जानकी मंदिर (लोहेहार घिबही) में शुक्रवार को पंचमी के अवसर पर श्रीराम विवाहोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां भगवान राम के द्वारा धनुष तोड़कर सीता से विवाह संपन्न कराया गया। बता दें कि वैदिक पंचंग के अनुसार, विवाह पंचमी हर साल इसी माह में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की

पंचमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस दिन को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से श्रीराम विवाह करने और विवाह पंचमी की कथा पढ़ने और सुनने से घर में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती हैं। इस दौरान झांकी निकालकर नगर के विभिन्न बाड़ों में

ध्रमण किया गया। इसके बाद झांकी पुनः मंदिर पर पहुंची जहां स्वयंवर का आयोजन किया गया था। इस दौरान श्रीराम द्वारा धनुष तोड़ा गया तो जयकारे से मंदिर परिसर गुंज उठा। इस तरह से श्रीराम विवाहोत्सव संपन्न हो गया। इस मौके पर अध्यक्ष नवरंग सिंह, सभासद हेमंत सिंह, पूर्व प्रधान बृजेश उपाध्याय, पूर्व प्रधान प्रेम सिंह, उमेश साहनी, मंदिर के पुजारी महंत मखन दस, मनीष सिंह, अलाउद्दीन, सुरेश उपाध्याय, दुर्गेश सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

## विकास भवन परिसर में हाट बाजार का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ हाट बाजार ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक : डीएम

### अवधानामा संवाददाता

**देवरिया।** उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विकास भवन परिसर में आज हाट बाजार का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर विकास भवन के अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, और विभिन्न विकास खंडों से आए 25 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उनके उत्पादों और आजीविका गतिविधियों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को देवरिया मॉडल के तहत स्थानीय



स्तर पर विपणन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करने के निर्देश दिए। डीएम ने आजीविका मिशन की गतिविधियों को सहायता करने हुए कहा कि महिलाएं अब घर की दहलीज से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही हैं। यह बाजार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्होंने डीसी एनआरएलएम को प्रत्येक शुक्रवार को हाट बाजार

आयोजित करने के लिए निर्देशित किया। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी लक्ष्यपति दीदी योजना के तहत महिलाएं आजीविका गतिविधियों से आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। हाट बाजार में सजावटी सामान, श्री अन, हैंडवाश, डिशवाश, फिनायल, टेडीबियर, आयुर्वेदिक फेशोपैक, फूड सप्लीमेंट्स, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, बिंदी, जूट बैग, साबुन, सर्फ, धूपबत्ती, गरम मसाला, सोयाचाप,

स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री कर रही है आकर्षित

प्रत्येक शुक्रवार को विकास भवन में होगा हाट बाजार का आयोजन

बाजार के लड्डू, माइक्रोम सामान और कई अन्य घरेलू उपयोगी वस्तुएं प्रदर्शित की गईं। इसके साथ ही आरसेटी बाजार के अंतर्गत विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों ने भी इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में नमो ड्रोन दीदी, विद्युत सखी, उपायुक्त स्वतः: रोजगार, जिला मिशन प्रबंधक, आरसेटी निदेशक, प्रशिक्षक और विभिन्न ब्लॉक मिशन प्रबंधकों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

## भाजपा ने मनाई बाबा साहेब की 69वीं पुण्यतिथि

### अवधानामा संवाददाता

**देवरिया।** भारत के संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की 69 वीं पुण्यतिथि महा परिनिवाण दिवस के रूप में क्षेत्र के और चौर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मनाई गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक डा. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय, व भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। वह प्रारूप समिति के उन सदा सदस्यों में भी थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। बाबासाहेब एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और प्रख्यात न्यायविद थे। अस्पृश्यता और जाति प्रभेद जैसे सामाजिक बुराइयों को मिटाने के अंबेडकर के प्रयासों के बारे में कौन नहीं जानता। जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि डॉ. बाबासाहेब एक महान विद्वान होने के साथ, एक वकील और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने सैकड़ों हजारों महर



अहूत जाति के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित होकर भारत में बौद्ध धर्म का चेहरा बदल दिया। डॉ. अंबेडकर का धर्मांतरण, जातिगत असमानता को दमन का एक प्रतीकात्मक विरोध था। जिला चुनाव अधिकारी बालेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि बाबा साहेब एक मनीषी, योद्धा, नायक, विद्वान, असीमित, वैज्ञानिक, समाजसेवी एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अनन्य कोटि के नेता थे, जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में उत्सर्ग कर दिया। खासकर भारत के 80 फीसदी दलित सामाजिक व आर्थिक तौर से

अभिशप्त थे, उन्हें अभिशाप से मुक्त दिलाना ही डॉ. अंबेडकर का जीवन संकल्प था। पूर्व जिला महामंत्री रामश्री प्रसाद ने कहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, पेरलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर लैंगिक उपीडन और दहेज हिंसा से प्रभावित महिलाओं की समस्याओं के समाधान और सुस्था तंत्र को मजबूत बनाने के लिए संवाद किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं के प्रश्नों का उत्तर भी दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि बेटियों सब कुछ कर सकती हैं। बेटियों सभी क्षेत्रों में सफल हैं। आज बेटियां सफल वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासक, बैंकर्स, उद्यमी, राजनेता हैं। लोगों की रुढ़िवादी सोच में बदलाव हुआ है। समाजिक बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। महिलाएं अपने हक की बात करें। भय से दूर रहें। किसी से डरे नहीं। सेल्फ डिफेंस स्थित रखें। एक छात्र ने दहेज प्रथा से जुड़ सवाल किया जिसके जवाब में जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाएं सफल हों और आत्मनिर्भर बनें।

## राज्य मंत्री से मिला रोजगार सेवकों का प्रतिनिधिमंडल



### अवधानामा संवाददाता

**देवरिया।** ग्राम रोजगार सेवक (पंचायत मित्र) वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के देवरिया जिलाध्यक्ष कृष्ण मोहन उपाध्याय के नेतृत्व में रोजगार सेवकों का एक प्रतिनिधिमंडल ने सलेमपुर जाकर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम से मिलकर ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में वर्षों से कार्य कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों को स्थायी करने की मांग की गई है। इसके अलावा ग्राम रोजगार सेवकों के मातृदेय के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करने व ग्राम पंचायत सचिवों

की नियुक्ति में ग्राम रोजगार सेवकों को वरीयता देने सम्बन्धित तमाम मांगें शामिल हैं। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने जिले स्तर पर ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की मांग किया। इस पर राज्य मंत्री ने प्रदेश सरकार को ग्राम रोजगार सेवकों की उचित मांगों को पहुंचाकर उसका उचित पैरवी करने का भरोसा दिलाया। वहीं राज्य मंत्री ने जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल को फोनकर ग्राम रोजगार सेवकों की स्थानीय समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। डीएम ने उस पर आवश्यक कार्रवाही का आश्वासन दिया।

## माई भारत के स्वयंसेवक कर रहे सहभागिता

### अवधानामा संवाददाता

**देवरिया।** मेरा युवा भारत, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माई भारत पोर्टल के माध्यम से देश के विभिन्न जिलों में सेवा से सीखें थीम पर आधारित अनुभववात्मक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत जनपद देवरिया के महीष देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में शुक्रवार को इस कार्यक्रम को शुरू किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक देवव्रत पाण्डेय ने बताया कि भारत सरकार ने युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने व विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु माई भारत पोर्टल का निर्माण किया है जिसके माध्यम से इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। देवव्रत पाण्डेय ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में सेवा, समर्पण, कर्मा जैसे भावों का सुजन करना और उन्हें



असतत्ताओं की कार्य प्रणाली, आयुष्मान भारत जैसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार प्रसार व लाभार्थियों को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से होने वाले लाभों से अवगत कराना और अनुभववात्मक शिक्षण से उनके कौशल व आत्मविश्वास को विकसित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी एक माह तक कुल 120 घंटों का प्रशिक्षण सभी स्वयंसेवक प्राप्त करेंगे। अनुभववात्मक शिक्षण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी/असिस्टेंट प्रोफेसर

मेंडिकल कॉलेज डॉ.0 सुखर नोमानी ने समस्त युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मन लगाकर सहभागिता करने की बात कही। आयुष्मान भारत के जिला समन्वयक अनीश यादव ने बताया कि सभी स्वयंसेवकों को विभिन्न गतिविधियों जैसे ओ0 पी0 डी0 प्रबंधन, हेल्प डेस्क, भीड़ प्रबंधन आदि में लगाया जाएगा जिससे वे मरीजों की मदद कर इस अभियान की थीम सेवा से सीखें को सही मायने में चरितार्थ कर सकें।

मेंडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री आयुष्मान मित्र के पद पर कार्यरत जावेद अख्तर, चनश्याम शर्मा, रवि चौरसिया आदि ने युवाओं को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में अंजली कुशवाहा, अमृता यादव, रेशमा खातून, अमित कुमार तिवारी, रिकेश कुमार, नागेन्द्र भारती, अशु कर्नौजिया, देवव्रत पाण्डेय, प्रदीप शुक्ला शामिल रहे।

## एक मुश्त समाधान योजना का उठाएं लाभ: सुनील पाल



**अहिरौली बाजार, कुशीनगर अवधानामा संवाददाता।** उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्वचल विद्युत वितरण निगम के विद्युत विभाग के द्वारा ओ टी एस के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान में शामिल हुए एसडीओ कसानगंज सुनील कुमार पाल ने उपभोक्ताओं को एक मुश्त समाधान योजना के बारे में जानकारी दी। उपभोक्ताओं को बताया गया कि आप अपने विद्युत बिल बकाया पर कितना अधिक से अधिक छूट का लाभ पा सकते हैं। इसके दृष्टिगत पहले आओ ज्यादा छूट ज्यादा छूट पाओ का मंत्र भी बताया। उपभोक्ता को ओटीएस का पूर्ण विवरण सहित पंपलेट भी वितरण किया गया तथा ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि को भी बकाया उपभोक्ता को ओट्ट्स में शामिल होने के लिए जागरूक किया गया। जागरूकता के इस अभियान में उपभोक्ताओं से बड़-चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। कसानगंज के उपखंड अधिकारी सुनील कुमार पाल ने इसको डेल धमाका और पचार गाड़ी के माध्यम से ओ टी एस प्रचार को व्यापक रूप से जनता के समक्ष जानकारी को साझा किया। इस रैली और प्रचार प्रसार में विद्युत उपकेन्द्र गिदहा चक बैरिया कसानगंज के जे ई प्रदीप कुमार शर्मा व उनके अधीनस्थ कर्मचारी व लाइन्मैन मनीष कुमार सागर, बाल गोविंद शक्ति कुमार, रामदरस सहित अन्य लोग मौजूद थे।

## डॉ अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हुए विविध कार्यक्रम

### अवधानामा संवाददाता

**अमेठी।** संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर जिले में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुक्रवार को नगर स्थित बाबा साहेब डॉ अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम सुबह से शाम तक चलता रहा। सिरमौर बौद्ध विहार सोझा में बुद्ध चरित्र चन्द्रोदय पाठ के समापन के बाद त्रिसरण पंचशील कार्यक्रम विचार गोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आम नागरिक सुरक्षा सेना के अध्यक्ष शमशेर बौद्ध और बसपा के सेक्टर जेन प्रभावी नरेंद्र कुमार ने भी माल्यार्पण किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व प्रमुख अमेरेंद्र सिंह पिंठू के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र और महामंत्री सुधांशु शुक्ल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब डॉ अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण



किया।बामसेफ के जिला संयोजक संजीव भारती ने अंबेडकर पार्क कामिसन और नगर अमेठी स्थित बाबा साहेब डॉ अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के बाद बाबा साहेब डॉ अंबेडकर ही ऐसे महापुरुष हैं जिनकी प्रतिमाएं दुनिया में सबसे अधिक लगी हैं। वहीं नगर स्थित चाणक्यपुरी मोहल्ले में साधना फाउंडेशन की ओर से डॉ अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें फाउंडेशन की सचिन साधना त्रिपाठी ने उनके जीवन दर्शन पर विस्तृत

प्रकाश डाला। विचार गोष्ठी को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। डॉपीम राव अंबेडकर की पुण्य स्मृति दिवस पर सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने बासूपटी गांव में किसानों के साथ बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पअर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं डॉ भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर तिराहा स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की मुर्ति पर माल्यार्पण किया।



## सुमेरपुर में महंगे दामों में बिक रहा है गुटखा

दस रुपये में चार के जगह मिल रहे हैं तीन

अवधनामा संवाददाता



है कि सम्बन्धित विभाग के अधिकारी ऐसे व्यवसाइयों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसे लोगों की अधिकारियों से सांत गांठ रहती है। तम्बाकू मिश्रित गुटखा बनाने पर प्रतिबंध होने के बावजूद कस्बा में गुटखा बनाने वाले व्यवसाइयों पर इसका कोई असर नहीं दिखायी पड़ता है। विभिन्न नामों के नाम से बेचा जाने वाला गुटखा अधिकतर तम्बाकू मिश्रित ही बिक रहा है। कुछ लोग दिखाने के किये सुपाड़ी व तम्बाकू के अलग-अलग पैर तैयार करवाते हैं जिससे कोई छाप आदि पड़े तो यह दिखा सके कि नियमों के तहत ही काम कर रहे हैं। कस्बा में कई बार कई अवैध कारोबारियों के यहाँ छाप

भी डाले गये और अवैध ढां से तैयार किया गया माल भी पकड़ा गया लेकिन सुविधा शुल्क के आगे कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। इसीलिए गुटखा का व्यवसाय करने वाले पैसों की धमक से कोर्ट के आदेशों की धज्जिया उड़ा रहे हैं। कस्बा के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुटखा बनाने की मशीनें चल रही हैं जहाँ ये महीने चल रही है उनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है फिर भी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत तो गुटखा का धंधा फलफूल रहा है। नियम चाहे जैसे भी बने लेकिन उनका पालन नहीं हो पाता लगेका का कहना है कि जिस तरह तम्बाकू मिश्रित गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था इसका पालन

## न्यायालय ने तुगलकी फरमान किया रद्द, लगाई फटकार

अवधनामा संवाददाता

मौदहा हमीरपुर। विकासखंड के गीता देवी ने सहायिका पद से आंगनवाड़ी पद पर पदोन्नति के लिए सरकार के आदेश अनुसार अर्थरथन किया था लेकिन प्रभारी जिला बाल विकास सेवा पुष्टहार के कार्यक्रम अधिकारी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने अर्थरथी को मार्कशीट को जाली कर देते हुए पदोन्नति नहीं किया यांची गीता देवी ने बताया कि चार माह तक लगातार दो बार प्रत्यावेदन देने के बावजूद अर्थरथी विभाग के चक्कर लगाती रही लेकिन अधिकारी झूठे आश्वासन देकर अर्थरथी को घुमाते रहे विभाग से न्याय न मिलता देख अर्थरथी ने हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में न्याय की गुहार लगाई न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने याची के याचिका आंशिक रूप स्वीकार करते

हुए मार्कशीट को सबूत के आधार पर असली साबित कर दिया सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अर्थरथी के मार्कशीट को जाली कर दिया गया था यही नहीं याची के ककील अभिलाषा पांडे ने मजबूती के साथ याची का पक्ष रखा जिससे कोर्ट ने अंतिम फैसला याची के पक्ष में दे सकी कोर्ट ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को आर्थिक दंड भी दिया है लेकिन सरकारी वकील की अपील पर कोर्ट ने माफ कर दिया और याची के पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए। अब प्रश्न उठता है कि सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी चयन भी प्रक्रिया का प्रकाशन जिले में हो चुका है क्या नियुक्ता और पारदर्शिता के साथ संबन्धन होगी या इसी प्रकार कोई नए विधान याची बनकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे यह भविष्य के गर्त में है।

## ओबरा में बन रहा कल्याण मंडप

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/ओबरा। ओबरा नगर पंचायत के सेक्टर 9 में निर्माणधीन कल्याण मंडप का निरीक्षण, नगरवासियों के लिए एक नई बहुउद्देश्यीय सुविधा जल्द ही तैयार होगी। ओबरा नगर पंचायत के सेक्टर 9 में बन रहे कल्याण मंडप का निरीक्षण नगर पंचायत अध्यक्ष चाँदनी, अधिशासी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल और सभासदगण की उपस्थिति में किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य नगरवासियों को एक आधुनिक, बहुउद्देश्यीय स्थल उपलब्ध करना है, जहाँ वे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को सुविधाजनक तरीके से आयोजित कर सकें। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति का गहराई से अवलोकन किया गया। अध्यक्ष चाँदनी और अधिशासी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल ने ठेकेदार को निर्माण कार्य में तय मानकों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात स्पष्ट रूप से कही गई। ठेकेदार को चेतावनी दी गई कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ



नगरवासियों के लिए एक नई सुविधा, निरीक्षण में ठेकेदार को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश

कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, और समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा किया जाना चाहिए। कल्याण मंडप का निर्माण नगर के विकास और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। यह मंडप ओबरा के नगरिकों को विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक अनुष्ठानों और अन्य सामुदायिक आयोजनों के लिए एक सर्वांगीण स्थान प्रदान करेगा। इसके डिजाइन में आधुनिक सुविधाओं के साथ परंपरा का समन्वय किया गया है, ताकि यह न केवल उपयोगी हो बल्कि नगर के सौंदर्य को भी बढ़ाए। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष चाँदनी ने कहा कि कल्याण मंडप न केवल नगरवासियों की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि यह ओबरा की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को भी सुदृढ़ करेगा। उन्होंने ठेकेदार को समय पर और उच्च गुणवत्ता

के साथ काम पूरा करने का निर्देश दिया। अधिशासी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल ने कहा कि इस परियोजना की सफलता नगर पंचायत की प्रतिबद्धता और जनता के विश्वास का परिणाम होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन इस परियोजना की निगरानी लगातार करता रहेगा, ताकि कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो सके। इस परियोजना को ओबरा की जनता के लिए एक उपहार के रूप में देखा जा रहा है। नगर पंचायत का यह प्रयास न केवल नगरिकों को एक आधुनिक सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि ओबरा की प्रगति और विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। निरीक्षण के अंत में सभासदगण राहुल श्रीवास्तव, राजू साहनी और राकेश मिश्रा अनिल कुमार राकेश पासवान सभासद प्रतिनिधि गिराजाशंकर। भी उपस्थित थे।

## सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2024-25 अमलोरी में हुई सम्पन्न



अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/सिंगरौली। गुरुवार को नॉर्दन कोलफोल्ड्स लिमिटेड (एससीएल) की वार्षिक अंतरिक्षीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता वर्ष 2024-25 अमलोरी परियोजना में सम्पन्न हुई। 3-5 दिसम्बर तक आयोजित इस तीन दिवसीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में एससीएल के 12 क्षेत्र व इकाइयों से 136 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन समारोह के दौरान महाप्रबंधक (कार्मिक) एससीएल मुख्यालय, प्रमोद कुमार सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि एवं

जेसीसी सदस्य- सीएमएस से अजय कुमार, आरसीएसएस से लाल पुषराज सिंह, बीएमएस से श्यामधर दुबे, एएमएस से अशोक कुमार पांडे, सीएमओएआई अध्यक्ष से एस. के. सिंह, महाप्रबंधक (अमलोरी) आलोक कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में एवं श्रमिक संघ प्रतिनिधि, एससीएल स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सदस्य तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता के दौरान अंकों के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्र की टीम ओवरऑल विजेता तथा एससीएल मुख्यालय की टीम उपविजेता रही।

## एनटीपीसी विंध्याचल के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को बेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अवार्ड

सोनभद्र/विंध्यनगर। एनटीपीसी विंध्याचल के आईटी विभाग को उन्नत इंटीग्रेटेड सिस्टम सिस्टम के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित विनर ट्रॉफी 5 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरी पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन कान्क्लेव अवार्ड्स समारोह में सौरभ बनौधा, उप महाप्रबंधक (आईटी) को प्रदान की गई। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि विंध्याचल के आईटी और मानव संसाधन टीम के अथक प्रयासों का परिणाम है, जिनके मार्गदर्शन में यह सफलता हासिल हुई। विंध्याचल की शीर्ष नेतृत्व टीम के सामूहिक दृष्टिकोण और मार्गदर्शन ने इस उपलब्धि को संभव बनाया। इंटीग्रेटेड सिस्टम सिस्टम की सफलता की दिशा में डी.सी. गुप्ता, अपर महाप्रबंधक (आईटी) ने इंजीनियर इन-चार्ज के रूप में और राकेश अरोड़ा, मानव संसाधन प्रमुख (विंध्याचल) ने प्रोसेस ओनर के रूप में नेतृत्व किया।

## अवधनामा

## जल संरक्षण : नदी नालों में होगी सिल्ट की सफाई

अवधनामा संवाददाता

मौदहा हमीरपुर। भूमिगत जल संरक्षण के तहत सात छोटे बड़े नाले व नदियों में सिल्ट सफाई के साथ ही जल संरक्षण के विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इस सम्बंध में विकासखंड स्तरीय तकनीकी सहायक व पंचायत सचिव को बीडियो ने रूपरेखा तैयार धरालत होने के निर्देश जारी किए। बताते चले कुछ दिन पूर्व पंचश्री पुरस्कार विजेता विजय शंकर पांडे ने विकासखंड की 17 ऐसे गांव को जो आगामी कुछ वर्षों में पेय जल संकट एवं घटते जल स्तर पर चिंता जताई थी समस्या के निस्तारण के सुझाव अधिकारियों को दिए थे जिसको देखते हुए विकासखंड अधिकारी दुर्योधन ने अपने अधिनस्थ अधिकारी से चर्चा की। विकासखंड अधिकारी ने बताया कि सभी सरकारी भवनों में जो इस

वक्त ठीक हालत में है और जो नए बने हैं, इनमें वाटर हार्वैस्टिंग कार्य होना है। जिसमें वर्षा का जल जमीन के अंदर जा सके और वह बर्बाद ना हो सके। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य विकासखंड क्षेत्र की चंद्रावल नदी व श्याम नदी में 21 किलोमीटर सिल्ट सफाई का सहित अन्य जल रोधक कार्य किए जाएंगे। इसी तरह, सोनार नाले में 13, सिहोर में 22, सरसख्या नाले में 15, खजुरिहा में 10 तथा कटुरवा नाले में 10 किलोमीटर सिल्ट सफाई का काम होगा। बीडियो ने बताया कि जिला अधिकारी किस कार्यदाई संस्था से कौन कार्य कराया जाएगा तय होगा। सभी का सर्वेक्षण कर लघु सिंचाई विभाग द्वारा इसका स्टोमेट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत मेड़बंधी, जलरोधक बंधी तथा जल अवरोध विशेषता निर्मित होंगे।

## संक्षिप्त समाचार

जुमा की नमाज के दृष्टिगत एडीएम व एसपी द्वारा पुलिस बल के साथ मौदहा में किया गया पैदल गश्त



मौदहा हमीरपुर/अवधनामा संवाददाता। जुमे की नमाज के दृष्टिगत जनपद हमीरपुर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपर जिलाधिकारी हमीरपुर व अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के द्वारा कस्बा मौदहा में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पैदल गश्त के दौरान स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों और आम जनता से संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। समाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रमुख चौकियों, मस्जिदों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मौदहा, प्रभारी निरीक्षक थाना मौदहा व अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

## लेखापाल पर लगाए गलत कार्यवाही करने के आरोप

मौदहा हमीरपुर। सुविधा शुल्क न देने पर लेखापाल ने की प्राणीण पर 67 की कार्यवाही पीडित लेखापाल की कार्यवाही से आहत होकर अपर जिला अधिकारी राजस्व से लगाई न्याय के गुहार। जानकारी के अनुसार विकासखंड के सायर मजरा मोहनपुरा गांव निवासी वृंदा प्रसाद पुत्र गंगा दिन में लेखापाल कैलाश चंद्र पर आरोप लगाते हुए बताया कि वह 60 वर्ष पूर्व बने मकान में निवास करता आ रहा है पड़ोसी रघुनंदन से आपसी विवाद है लेकिन लेखापाल और रघुनंदन अर्धन दोस्ती होने पर उनके कहने पर पीडित के ऊपर धारा 67 के तहत कार्यवाही की जो पूर्णतः गलत है। जबकि रघुनंदन, कामता, रसपाल शिशुपाल के मकान भी इस गांव संख्या 845 में बने हुए लेकिन रघुनंदन के उरसावे पर 67 की कार्यवाही बहुत ही चिंता जनक निंदनीय है पीडित ने बताया कि जब इस संबंध में लेखापाल से कहा तो लेखापाल अपना विशेषाधिकार बला रहा है। जिसके आहत होकर अपर जिला अधिकारी राजस्व से न्याय की गुहार लगाई है।

## स्वाद-इश्क कैफे एंड रेस्टोरेंट का हुआ उद्घाटन

इटावा/अवधनामा ब्यूरो।

कटरा सेवाकली स्थित स्वाद इश्क कैफे एंड रेस्टोरेंट का शुक्रवार को उद्घाटन रेस्टोरेंट के संचालक आरशान खान की नानी इमंदा बेगम व नाना सखावत खान ने फीता काटकर कर किया। इस मौके पर हाफिज कैफ, खादिम अब्बास, एहतिशाम खान, इरशाद अली, इमरान खान, रिजवान कुरैशी, मोहम्मद जौशान, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद शानु, शहजाद खान, शहजाद खान, राहुल सर, अमित त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे।

## इरशाद राईन बने बसरेहर के अध्यक्ष



इटावा/अवधनामा ब्यूरो। उत्तर प्रदेश जमीअत उर राईन के प्रदेश अध्यक्ष मुहम्मद वसीम राईन की निर्देशानुसार व मण्डल अध्यक्ष हारून राईन की सहमति से जिलाध्यक्ष मुहम्मद मुस्तकीम राईन ने जिला कमेटी की स्वकृति से बसरेहर का अध्यक्ष मुहम्मद इरशाद राईन पुत्र मुहम्मद जब्बार राईन निवासी अकबरपुर बसरेहर को बनाया। इरशाद राईन ने कहा कि समाज की तरक्की के लिए हर संभव प्रयास करने तथा समाज को जोड़ने और नगर कार्यकारणी को अति शीघ्र जिला कमेटी को सौंपने का वादा किया। कार्यक्रम में मस्जिद के पेश इमाम साहब का इतकवाला किया गया व अन्य समाज के जिम्मेदार लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मुस्तकीम राईन व संचालन सेक्टर प्रभारी रईम राईन ने किया। जाकिर हुसैन राईन, मुहम्मद नदीम राईन, राजू राईन, निजाम राईन, बाबुदीन राईन, भूरे राईन व कज्जे राईन आदि राईन समाज के लोग मौजूद रहे। उक्त जानकारी जिलाध्यक्ष मुहम्मद मुस्तकीम राईन ने दी।

## जाम की समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल सीओ सिटी से मिला



इटावा/अवधनामा ब्यूरो। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष संतोष सिंह चौहान के नेतृत्व में सीओ सिटी से शुक्रवार को मिला और शहर में लगने वाले जाम के कारण व्यापारियों का हो रहे नुकसान से अच्यत कार्या सीओ सिटी ने शीघ्र ही इस पर कार्य योजना बनाकर व्यापारियों की समस्या हल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रथम बार सी ओ सिटी से मिलने पर उनको शाल उड़कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संतोष सिंह चौहान जिला वरिष्ठ महामंत्री हरि गोपाल शुक्ला शहर अध्यक्ष ओम रतन कश्यप जिला महामंत्री रमेश यादव जिला उपाध्यक्ष प्रदीप कर्नाजिया जिला समूह मंत्री रमेश बाबा साहब का पर निर्माण दिवस

## सामाजिक सेवा के लिए एक नई सुविधा, निरीक्षण में ठेकेदार को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश



सोनभद्र/अवधनामा ब्यूरो। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शुक्रवार को सपा जिलाध्यक्ष राम निहोर यादव के नेतृत्व में भारत रत्न सविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पर निर्माण दिवस मनाया गया चित्र पर माल अर्पण कर उनके जीवन पर आयोजित की गई गोष्ठी खला गया प्रकाश। सपा जिला अध्यक्ष राम निहोर यादव ने बताया कि बाबा साहब एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने भारत ही सही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम भारत के साथ जोड़कर गौरव हासिल किया और उनका इतिहास आज बच्चे बच्चे को बताया जाता है जिससे हम सभी गौरव हासिल करते हैं वही उनके विचारों पर हम सभी कार्यकर्ता चलने का प्रयास करते हैं इस मौके पर शाहिद कुरैशी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव, अशोक कुमार प्रधान अनिल यादव, कृपा शंकर महिला सभा अध्यक्ष गीता गौर, सुनील कुमार गोंड सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

## डा. आंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर की श्रद्धांजलि अर्पित

अवधनामा ब्यूरो

इटावा, बसरेहर। पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष बलवीर जाटव ने अपने गांव मूज में शुक्रवार को डा. आंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर की श्रद्धांजलि अर्पित। इटावा के पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष बलवीर जाटव ने अपने गांव मूज में परमपूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 68 वें महापरिनिर्वाण दिवस पर ग्रामवासियों के साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर बलवीर जाटव ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का 6 दिसम्बर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार में महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उन्होंने



कहा कि हमारे संविधान को तैयार करने में डॉ. भीमराव अंबेडकर की बड़ी भूमिका थी। इसी वजह से वह संविधान निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। वह बड़े समाज सुधाक और विद्वान थे। उनका निधन 6 दिसंबर, 1956 को दिल्ली में हुआ था आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर

मनाया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम के ही धर्मवीर दिवाकर के निवास पर किया गया। इस मौके पर हर्ष चौधरी पूर्व जिलाध्यक्ष इटावा आजाद समाज पार्टी (काशीराम) कप्तान जाटव, हरीश चंद्र गौतम ग्राम मुगलपुरा, धर्मवीर दिवाकर, करिमा, अर्चना, हरिशचंद्र गौतम, साहिल कुमार (बाँबी) आदि लोग मौजूद रहे।

## कई मुद्दों को लेकर सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने केंद्रीय वित्त मंत्री को दिए पत्र

सोनभद्र। समाजवादी पार्टी सांसद छोटेलाल खरवार ने बताया कि निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र दे कर बैंक के निजीकरण के कारण मौजूदा समय में कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों को तरह-तरह के परेशानियों को झेलना पड़ता है। निजीकरण ना किया जाए, आरक्षण के तहत युवाओं को नौकरी दिया जाए। बैंक व किसी जगह पर आरक्षण के तहत नौकरी दिए जाएं, सीधे भर्ती न किए जाएं। निजीकरण से देश की युवा पीढ़ी परेशान है एवं मौजूदा सरकार के प्रति उनका आक्रोश है। मंत्री को मैं बैंक में हो रहे धांधली की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बैंक द्वारा जो लोन किया जाता है वह आसानी से लोन नहीं होता है, बैंक के चक्कर लगाते लगाते लोग चले जाते हैं फिर बैंक के दलालों से मिली-भगत से कुछ अंदर बात होने के बाद तब लोन पास होता है। देश में बड़े-बड़े लोगों को जैसे अडानी, अंबानी उद्योगपतियों को 3 या 4 प्रतिशत पर आसानी से लोन मिलता है। तथा उनका पैसा सरकार द्वार माफ कर दिया जाता है। और वहीं गरीब लोग से लगभग 9 से 12 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाते हैं, और जबन उरला जाता है एवं जेल तक भेजा जाता है।

## कायनात में फातिमा ज़हरा से बेहतर घर कोई नहीं: मौलाना अबूजूर



अवधनामा ब्यूरो इटावा। शरीफ मजिल सैदबाड़ा में रहत अकौल शक्वन की ओर से आयोजित अथ्यामे फातिमिया की पांच दिवसीय मजलिसों का शुक्रवार को समापन हो गया। मजलिस में तसलीम रजा, सलीम रजा और जहूर नकवी ने सोजखानी की। अथ्यामे फातिमिया की अलविदाई मजलिस में तक्ररीर करते हुए मौलाना अबूजूर अब्बास खान इमामे जुमा शिकोबाबाद जनपद फरीजोबाबाद ने तक्ररीर करते हुए कहा पूरी कायनात में फातिमा ज़हरा से बेहतर घर कोई नहीं है, यहां रसूल अल्लाह अपनी बेटी को सलाम करने आते थे और अल्लाह का फारिस्त

यहां खादिम बनकर आया। शहजादी के घर से ज्यादा किसी भी घर में इबादत नहीं हुई। इस घर में रसूल अल्लाह, फातिमा ज़हरा, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन इबादत करते थे। इसी घर से नमाज, दीन मुसलमानों तक पहुंचा। अल्लाह का फारिस्त जिबाईल भी फातिमा ज़हरा के घर पर खादिम बनकर आते थे। जो अपने चाहने वालों के लिए जहन्नम की आग बुझा दे उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। रसूल अल्लाह के बाद दुश्मने एहलेबैत ने शहजादी फातिमा ज़हरा के घर में आग लगा दी जिससे शहजादी जख्मी हो गई। मजलिस में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

## जिले में जुम्मे की नमाज़ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद



अवधनामा ब्यूरो

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश के क्रम में छ दिसंबर और जुमे की नमाज को लेकर सोनभद्र जनपद में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा। पुलिस बल को शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक कालू ने बताया कि जुमे की नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। धार्मिक स्थलों के बाहर और मिश्रित

आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन ने जुमे की नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए थे। पुलिस बल को निर्देश दिए गए थे कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएँ। अपर पुलिस अधीक्षक कालू ने बताया कि जुमे की नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष रूप से काम किया है। पुलिस बल को निर्देश दिए गए थे कि वे शांति

## नगर के पूर्व मोहल मस्जिद पर एडिशनल एसपी ने किया गश्त

जुमे की नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर

व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएँ। उन्होंने बताया कि जुमे की नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष रूप से काम किया है। पुलिस बल को निर्देश दिए गए थे कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएँ। श्री शरीफ ने बताया कि कोवाली प्रभारी निरीक्षक सलैद राय, चौकी कस्बा कमलनयन दुबे, महिला थाना निरीक्षक सविता सरोज सहित आईबी एलआयु की टीम रही अलर्ट।

## डिप्टी सीएम व चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का किया उद्घाटन

# निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में पत्रकारों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवादादाता समिति (पुनर्गठित) के तत्वावधान में एवं लॉयर्स क्लब इंटरनेशनल द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के आडिटोरियम में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर में आज लगभग 148 पत्रकारों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री व चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने किया। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि पत्रकार साथियों की दिनचर्या बहुत व्यस्त होती है, खान-पान अनियमित होने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां अचानक ही आ जाती हैं जिसके निदान के लिए समय समय पर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच करवायी जाना चाहिए। इस तरह के



- शिविर में प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद व सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण
- उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवादादाता समिति (पुनर्गठित) द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया

कार्यक्रम नियमित रूप से होते रहने चाहिए। संगठन द्वारा ऐसे आयोजन के लिए कार्यक्रम आयोजकों को विशेष रूप से बढ़ाई दी।

निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा प्रमुख सचिव

सूचना संजय प्रसाद व सूचना निदेशक शिशिर सिंह स्वास्थ्य परीक्षण कराया। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि ऐसे आयोजन हर तीन महीने पर आयोजित होने चाहिए। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवादादाता समिति (पुनर्गठित) के

संयोजक प्रभात त्रिपाठी और प्रशासनिक सलाहकार शेखर श्रीवास्तव ने बताया कि निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण शिविर में लगभग 148 पत्रकारों ने पहुंच कर स्वास्थ्य का परीक्षण करा कर लाभ उठाया। शिविर में अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ

चिकित्सकों द्वारा मरीजों को एहतियात बरतते हुए प्राथमिक जांच कर धरेलू नुस्खे के बिना ही विस्तार पूर्वक जानकारी दी। शिविर में शुगर, ब्लड प्रेशर, आंखों की जांच की गई और जनरल फिजिशियन ने जांच कर मुफ्त

पारामर्श दिया साथ ही डाइटिशियन, फिजिथेरपिस्ट ने भी पारामर्श दिया। इस अवसर पर प्रभात त्रिपाठी, शेखर श्रीवास्तव, उमेश चंद्र मिश्र, अजीत कुमार सिंह, विक्रम राव, हरजीत सिंह बाबा, दया विष्ट, अनाम पाण्डेय, अमिता मिश्रा, शहरयार खान, नरेश दीक्षित, धनंजय सिंह व टी के शर्मा, अंकुल वर्मा व त्यागी समेत सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे।

## आरडीएसओ में लैंगिक संवेदनशीलता पर कार्यशाला का आयोजन

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। आरडीएसओ में गैर उद्योग रोकथाम सहाय के तहत आज 6 दिसंबर 2024 को लैंगिक संवेदनशीलता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्यस्थल पर एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाने और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यशाला की मुख्य वक्ता प्रो. दीपा द्विवेदी, अध्यक्ष, उद्यान विद्यालय, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएच), रहनी। प्रो. द्विवेदी ने अपने संबोधन में लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता, सहानुभूति के महत्व और एक सकारात्मक कार्यस्थल बनाने में सभी की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। कार्यक्रम मूल रूप से संविदा कर्मियों के लिये रखा गया था।



इस अवसर पर अमर नाथ दुबे, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (पीसीपीओ) / आरडीएसओने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आरडीएसओ में गैर उद्योग रोकथाम के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला और कर्मचारियों को एक संवेदनशील और सुरक्षित कार्यस्थल के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में

आरडीएसओ के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और चर्चा में अपने विचार साझा किए। सत्र का समापन सभी प्रतिभागियों द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी प्रकार के उत्पीड़न को समाप्त करने के संकल्प के साथ हुआ। यह पहल आरडीएसओ की सभी कर्मचारियों के लिए सम्मान, समावेशिता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

## निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन रविवार को

लखनऊ। आल इंडिया मोहम्मदी मिशन और एमएम अल्-इस्लाम फाउंडेशन ने रविवार को कैसरबाग में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा।

मोहम्मदी मिशन के फेजान अलीक फिर्गी महली ने बताया कि रविवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे कैसरबाग के ओडियन हॉल, मस्जिद मोहल स्थित सतारिया ग्राउंड में मेगा मेडिकल कैम्प आयोजित होगा। कैम्प में एरज लखनऊ मेडिकल कॉलेज और मेदाना हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों की आंख, दांत, हड्डी, पेट, महिलाओं के रोगों की जांच कर निःशुल्क दवाएं वितरित करेंगे। शिविर में मरीजों की शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी के साथ ही पैथोलॉजी जांच की भी निःशुल्क व्यवस्था होगी। शिविर में महिला चिकित्सक तेनात होंगी जो पदों में महिलाओं की जांच करेंगी और बच्चों के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी शामिल होंगे।

## प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गयी। पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये। इस मौके पर अजय राय ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन देश के शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग के लोगों के समानजनक जीवन और न्याय का हक दिलाने को समर्पित कर दिया। बाबा साहब का जीवन संघर्ष की एक ज्वलंत मिसाल है। उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए वंचितों को इंसान होने का हक दिलाने में बताया। विषय

के महानमत विद्वान, संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश को समानता का हक मिला। बाबा साहब का बनाया संविधान हर इंसान को बराबरी का हक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और जाति-धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को खारिज करता है। वर्तमान सत्ता जित तह से संविधान को बदलने का कुत्सित प्रयास कर रही है हम उसे नहीं देंगे। हम संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर श्याम किशोर शुक्ल, कोषाध्यक्ष शिव पाण्डेय, महासचिव सैफ अली नकवी, सुरेन्द्र सिंह, शहर अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ल्यागी, डॉ. शहजाद आलम, दिनेन्द्र त्रिपाठी, रमेश श्रीवास्तव, संजय दीक्षित, पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव, हसन अन्वबस, शीला मिश्रा, मूलचन्द्र चौहान, मनोज तिवारी, मुन्ना लाल भारती सहित अन्य कांग्रेसी शामिल थे।

## मजलिसों मातम का सिलसिला जारी

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। पैगम्बर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब (स.अ.) की चहेती बेटी शहादा जनाबे फातिमा जह्रा (स.अ.) की शहादत के मौके पर शुक्रवार को कर्बलाओं, इमामबाड़ों व घरों में मजलिसों मातम का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। छोटा इमामबाड़ा हुसैनबाद मौलाना मोहम्मद मियां आब्दी ने हजरत फातिमा की फजीलत को बयान करते हुए कहा कि जनाबे फातिमा जह्रा (स.अ.) ने मुख्तसर सी उम्र में एक अहम-तरीन तारीख बना डाली और एक अच्छा मुआशरा बनाने में अहम किरदार अदा किया। रोजाए बैतुल हुज्ज रस्म नगर में मौलाना मोहम्मद अस्करी ने मजलिस को खिताब किया। यहां महिलाओं की मजलिस का बाद ताबूत की जियारत कराई गई। इमामबाड़ा कसरे हसनैन काजमैन रोड में मजलिस को मौलाना सदफ जैनपुरी ने खिताब किया। इमामबाड़ा आगा बाकर चौक में मौलाना मौसम जैदी ने मजलिस को खिताब किया। अजाखाना शेख हादी हुसैन दरगाह रोड में मजलिस को मौलाना नजर अब्बास नजफी ने खिताब किया। बड़ा

फातिमा जह्रा (स.अ.) की शहादत

इमामबाड़ा में मौलाना मोहम्मद राशिद अस्करी ने मजलिस को खिताब किया। इमामबाड़ा उमूल बनीन मंसूर नगर में मौलाना अफजाल हैदर रिजवी ने मजलिस को खिताब किया। छोटा इमामबाड़ा हुसैनबाद मौलाना मोहम्मद मोहसिन ने खिताब किया। मजलिस के बाद ताबूत की जियारत कराई गयी। अजाखाना अशरफुल्लाह बुनियादबाग में मजलिस को खिताब किया। मस्जिद हैदरी काजमैन रोड में मौलाना अबुतालिब मेहदी ने मजलिस को खिताब किया। अब्बासिया मस्जिद हसन पुरिया में मौलाना जमन हैदर जैदपुरी ने मजलिस को खिताब करते हुए हजरत फातिमा पड़ी मुसीबतों को बयान किया तो अजादार रोने लगे।

## मुख्यमंत्री ने डॉ. आंबेडकर को दी श्रद्धांजलि

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर दुनिया के कोटि-कोटि वचिंतों, पीड़ितों, शोषितों तथा प्रताड़ितों के उद्धार की आवाज: योगी

■ बाबा साहब ने सैकड़ों वर्षों से चली आ रही कुर्रपाओं को समाप्त करने का कार्य किया

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर दुनिया के कोटि-कोटि वचिंतों, पीड़ितों, शोषितों तथा प्रताड़ितों के उद्धार की आवाज हैं। जीवन को नई दृष्टि देने वाले तथा नई दिशा देकर वचिंतों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जिस एक नाम की चर्चा होती है, वह नाम बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का है। इसीलिए हम लोग इस महामानव का स्मरण उनकी जयंती तथा महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर करते हैं। समाज रचना से जुड़े हुए तथा राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले किसी भी बड़े अभियान में बाबा साहब के स्मरण के बिना सभी कार्य अधूरे माने जाते हैं। मुख्यमंत्री भारतरत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के



महापरिनिर्वाण दिवस पर यहां भारतरत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर महासभा परिसर में आयोजित विशेष श्रद्धांजलि सभा में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने डॉ. आंबेडकर महासभा परिसर में स्थापित तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर सज्जनों तथा डॉ. आंबेडकर के अस्थि कलश पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।

तक लड़ते रहे। इस वर्ग को न्याय दिलाने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश को समानता का हक मिला। बाबा साहब का बनाया संविधान हर इंसान को बराबरी का हक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और जाति-धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को खारिज करता है। वर्तमान सत्ता जित तह से संविधान को बदलने का कुत्सित प्रयास कर रही है हम उसे नहीं देंगे। हम संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर श्याम किशोर शुक्ल, कोषाध्यक्ष शिव पाण्डेय, महासचिव सैफ अली नकवी, सुरेन्द्र सिंह, शहर अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ल्यागी, डॉ. शहजाद आलम, दिनेन्द्र त्रिपाठी, रमेश श्रीवास्तव, संजय दीक्षित, पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव, हसन अन्वबस, शीला मिश्रा, मूलचन्द्र चौहान, मनोज तिवारी, मुन्ना लाल भारती सहित अन्य कांग्रेसी शामिल थे।

उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने उस कालखण्ड में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही कुर्रपाओं को समाप्त करने का कार्य किया। दलितों, वचिंतों तथा शोषितों के अधिकार दिलाने के लिए उनके द्वारा किये गये प्रयास अभिनन्दनीय हैं। भले ही उन्होंने अनेक अन्याय और अत्याचार सहन किये, लेकिन उनके कार्य देश तथा समाज के लिए थे। वह देश के वचिंत तथा शोषित वर्ग के लिए अन्तिम समय

## हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के सांस्कृतिक संध्या पर भोले ओ भोले डमरू वाले...ने बांधा समां



अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। कानपुर रोड आशियाना क्षेत्र में स्थित स्मृति उपवन में गायत्री जन सेवा संस्थान एवं नीशू वेल्फेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि माननीय राज्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार विश्वनाथ जी विशिष्ट अतिथि नीलांशू रूप डायरेक्टर संतोष श्रीवास्तव एवम को-चेयरमैन बार कार्डिसल आफ उत्तर प्रदेश एवं पूर्व अध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन गोविंद नारायण शुक्ला व पूर्व अध्यक्ष संजय बार कार्डिसल आदेश सिंह और भाजपा नेता पूर्व मेयर प्रत्याशी लखनऊ अजय त्रिपाठी मुन्ना महोत्सव अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह व गुंजन वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक संध्या

■ बार कार्डिसल आफ उत्तर प्रदेश के 151 अधिकताओं का सम्मान

का शुभारंभ किया। सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने नृत्य, गीत, संगीत की प्रस्तुती दी। सर्वप्रथम हनु श्री ट्रस्ट के अध्यक्ष रागिनी पूजा जायसवाल के तत्वाधान में गणेश वंदना हनु जायसवाल एवम पीछू द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत कर सांस्कृतिक संध्या का आरंभ किया। तारे वास्ते रे डोला... लोकगीत गाकर रागिनी जायसवाल ने महोत्सव की शाम को गुलजार मय किया। वहीं प्रकाश जोशी भजन गाकर पूरे पंडाल में बैठे दर्शकों को भाव विभोर कर दिया और रंग मंच से भोजपुरी गानों का रसपान कराया। कार्यक्रम के अगले सोपान में दिव्य प्रकाश तिवारी भोले ओ भोले डमरू

वाले .... प्रस्तुती देकर बांधा समां । एक प्यार का नगमा है ... डॉ. प्रीति त्रिपाठी और दिव्य प्रकाश तिवारी के जुगल बंदी कर चार चांद लगाया व विवेक लोकगीतों की माला से परिरोया। अगले क्रम में गुलाबी आँखें जो तेरी देखी... प्रसून शाह के प्रस्तुति से दर्शकों को झूमया। हनु श्री ट्रस्ट की अध्यक्ष रागिनी पूजा जायसवाल ने बताया कि हमारी संस्था द्वारा अधिवक्ताओं, डॉक्टरों, एवं समाजसेवियों को समय-समय पर सम्मानित करती है। हनु श्री ट्रस्ट के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सलाहकार भारतीय संविधान चरण सिंह, उपसचिव प्रमुख अभिनन्दन सिंह, प्रोविडेंट कमिश्नर नवीन कर्माजिया, जितेन्द्र सिंह, अनुज श्रीवास्तव, अजय त्रिपाठी, डॉक्टर आदर्श अवस्थी, एवं मयुरावला थी।

## आर.डी.एस.ओ में परिचयात्मक बैठक का हुआ आयोजन



अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। अनुसंधान भवन के न्यू कॉम्प्लेक्स हाल में उदय बोरवणकर, महानिदेशक/ आरडीएसओ की अध्यक्षता में क्लास थी स्टार्टअप एसोसिएशन (सीटीएसए) तथा जूनियर सबऑर्डिनेट स्टॉफ एसोसिएशन (जेएसएसए) के साथ कार्यालय परिषद परिचयात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस मिटिंग में अमर नाथ दूबे, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी ने कार्मिक निदेशालय द्वारा किये गये कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की। इस मिटिंग के दौरान महासचिव के पद हेतु महेंद्र सिंह, मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एम एण्ड सी तथा संयुक्त सचिव के पद हेतु अभिलाष यादव,

हेल्पर/ टीएमएम को चुना गया। अपने सम्बोधन में महानिदेशक महोदय ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने आर.डी.एस.ओ. के विभिन्न अनुभागों द्वारा किये गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की एवं साथ ही अपने कार्यों को और अधिक जिम्मेदारी तथा मानवतावादी दृष्टि कोण के साथ किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक रेल कर्मचारी अपने कार्यों के माध्यम से न केवल संगठन की बल्कि देश की उन्नति में भी सकारात्मक योगदान करता है। इस बैठक में कार्मिक निदेशक/ वित्त, प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीटीएसए तथा जेएसएसए के पदाधिकारी एवं निदेशालय प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

## संक्षिप्त समाचार

शहादत अहलेबैत के चाहने वालों की मीरास है

लखनऊ। हुसैनबाद, महाताब बाग के रूकन्या मजिल अजाखाना ए मरहूम वसी हसन में मजलिसे अजा का इनेकाद किया गया। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना अख्तर अब्बास जौन ने खिताब किया। मजलिस में शहादत का जिक्र करते हुए मौलाना ने कहा कि अहलेबैत के चाहने वालों की मीरास शहादत होती है वह शहादत से नहीं उठते हैं। इसकी ताजा मिसाल इस वक्त दुनिया के सामने है। मजलिस के आखिर में मौलाना ने जनाबे फातिमा जह्रा स अ के मसायब पढ़े जिससे सामेईन गिरया करने लगे।

जनाबे जह्रा सलामुल्लाह है (अ.स.) की खुदारी और सादगी : मौलाना मोहम्मद मोहसिन



लखनऊ। छोटा इमामबाड़ा हुसैनबाद की तीसरी मजलिस खिताब करते मौलाना मोहम्मद मोहसिन जिस्में मौलाना ने बीबी जह्रा की जिंदगी के आसमानी पहलुओं की तरफ इशारा करते हुए बयान किया कि आपकी जिंदगी बहुत सादा और आप बहुत खुदगी थीं आपने कभी भी अपने वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफा (स.अ.) की शान व शौकत का फायदा नहीं उठाया। मौलाना ने आखिर में बीबी जह्रा की बेकसी और मजलूमियत को अपने अंदाज में पेश किया कि जिसको सुनकर हर तरफ से गिरिया हो आवाज बुलंद थी। आखिर में मिल्लत की सलामती और तर्ककी पर मजलिस खत्म हुई।

अंधेरे में मोमबतियां जलाकर उठे ताबूत

लखनऊ। छोटे इमामबाड़ा हुसैनबाद में जमाते जाफरी आयोजित अंतिम मजलिस के बाद अजादारों ने अंधेरा करके हजरत फातिमा (स.अ.) का ताबूत मोमबतियां जलाकर उठाया गया। ताबूत को इमामबाड़ा परिसर में गश्त कराया गया। यह मंजर देखकर लोगों की आंखों से जारो-कतार आंसू जारी हो गये। अजाखाने सईद हुसैन मरहूम हसन पुरिया में महिलाओं की मजलिस को शाजिया फातिमा ने खिताब किया इसके बाद ताबूत की जियारत करायी और कैडिल जलाकर ताबूत को रोजाए फातमैम ले जाया गया।

मजलिसे चेहलूम रविवार को

लखनऊ। स्वर्गीया कनीज जह्रा के ईसाले सवाब के लिए रविवार को मजलिसे चेहलूम आयोजित होगी। स्वर्गीया के पुत्र जौम रजा ने बताया कि रविवार को जोहर की नमाज के बाद हरेदोई रोड स्थित कर्बला अब्बास बाग में मजलिस होगी। तिलावते कलामे पाक से शुरू होने वाली मजलिस को मौलाना फैज अब्बास महाददी खिताब करेंगे। महिलाओं की मजलिस भी कर्बला अब्बास बाग में जोहर की नमाज के बाद होगी, जिसे जाकिरा खवाहर नीलोकर रिजवी खिताब करेंगी।

मजलिसे चेहलूम रविवार 8 दिसम्बर को

लखनऊ। उर्दू दैनिक आग और हिन्दी दैनिक इकिलाबी नजर के ब्यूरो प्रमुख वसी असागर की स्वर्गीया माता कनीज खातून के ईसाले सवाब के लिए मजलिसे चेहलूम रविवार 8 दिसम्बर को उनके पैतृक आवास गाजीपुर के नौनहरा में होगी। वसी असागर ने बताया कि उनके गाजीपुर के नौनहरा, बगुई बुजुर्ग स्थित इमामबाड़े में सुबह 10 बजे तिलावते कलामे पाक से मजलिस का आगाज होगा। मजलिस में रज्मी पारवी सोजखानी करेगे और कद्र पारवी, इजहार नौनहरवी, मोहम्मद मुस्लिम नौनहरवी और कामरान गाजीपुरी पेशखानी करेंगे। मजलिस को फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट मौलाना शाहिद हुसैन मौसम नौनहरवी खिताब करेंगे। महिलाओं की मजलिस इसी समय उनके आवास पर होगी।

सीमा पार से हो रही तस्करों को राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के लिए खतरनाक: प्रमोद तिवारी

लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा में उपनेता विपक्ष प्रमोद तिवारी ने देश में अवैध मादक पदार्थों की सीमा पार से हो रही तस्करों को राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के लिए खतरनाक उद्घोष करते हुए चिंताजनक बताया है। श्री तिवारी ने बिजली गिरने से होने वाली आकस्मिक मौतों को केन्द्र सरकार से दैवीय आपदा घोषित करने की भी मांग राज्यसभा में उठाई।

लखनऊ महोत्सव स्थल पर एक बार फिर से

एक भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत

# हिन्दुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 2024

देशी. विदेशी सूबे

प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम

28 राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद

हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव आशियाना में दर्शकों की भारी भीड़

यूलेन क्लॉथ का बम्पर स्टॉक

19 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2024 तक

स्थान : काशीराम सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, स्मृति उपवन, बंगला बाजार, आशियाना, लखनऊ